



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082023-248192  
CG-DL-W-19082023-248192

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2023 [श्रावण 28, 1945)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2023 (SRAVANA 28, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications Regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2023

सं. 132, दिनांक 19 अगस्त 2023/ सं 01(06)/2023-डीएमए(स्थापना)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.06.2023 के आदेश सं. 31/1/2023-ईओ (एसएम-11)-(5) के अनुसरण में, वाइस एडमिरल अतुल आनंद, एवीएसएम, वीएसएम (03247बी) को दिनांक 03 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न से अपर सचिव, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

निधि ओझा  
निदेशक (स्थापना)

वायु शाखा

सं. 133 दिनांक 19 अगस्त 2023—भारत के राष्ट्रपति ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित पदोन्नतियों की हैं:—  
(वारंट अफसर से मूल मास्टर वारंट अफसर)

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
692703	मावाअ	पाला राम कुन्डू	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
693589	मावाअ	राजकुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
704078	मावाअ	ओम प्रकाश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
704349	मावाअ	सुरेन्द्र सिंह चौधरी	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
725329	मावाअ	उदयप्रकाश शर्मा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
725631	मावाअ	धर्मवीर सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
694040	मावाअ	वी दामोदरन	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
703009	मावाअ	राघवेन्द्र मलिक	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
704283	मावाअ	ब्रह्म सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
704378	मावाअ	चंद्र मोहन सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
725106	मावाअ	राजेन्द्र कुमार	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
725473	मावाअ	संजीव कुमार मजुमदार	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
725978	मावाअ	सतवीर सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
726347	मावाअ	रमेश चाँद	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
703953	मावाअ	इन्द्र बहादुर उपाध्याय	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मार्च-2022
704866	मावाअ	गोपाल राय	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मार्च-2022
726977	मावाअ	डी बाबु	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मार्च-2022
693794	मावाअ	विनोद कुमार शर्मा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
692665	मावाअ	अनिल कुमार दुबे	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
692701	मावाअ	सतीश कुमार शर्मा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
692706	मावाअ	अशोक कुमार आहुजा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693094	मावाअ	सत्येन्द्र सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693300	मावाअ	शेर सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693459	मावाअ	रविन्द्र सिंह पुन्डीर	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693847	मावाअ	राम किशोर	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693851	मावाअ	राजीव कुमार यादव	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693871	मावाअ	रमेश सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694101	मावाअ	हनुमान प्रसाद	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694268	मावाअ	विजय मोंगिया	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694277	मावाअ	मुहम्मद राजू	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700470	मावाअ	निलेश चन्द	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700501	मावाअ	चित्त रंजन बेहेरा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700626	मावाअ	प्रदीप कुमार वर्मा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700937	मावाअ	राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700994	मावाअ	हरि कृष्ण अरोडा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701168	मावाअ	कुलतार चन्द शर्मा	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701193	मावाअ	रमेश प्रसाद	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701701	मावाअ	दलवीर सिंह	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701756	मावाअ	मूलचन्द	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701944	मावाअ	जमुना प्रसाद कानु	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702072	मावाअ	जाधव राजकुमार हणमंत	जनरल झूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
692956	मावाअ	सोपान बावा माने	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
693438	मावाअ	राजेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
693614	मावाअ	शिन्दे सुनिल पद्मकान्त	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
693709	मावाअ	बलवान सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
694302	मावाअ	सातिश कुमार नायर पिबि	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
703014	मावाअ	अनिल कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
703095	मावाअ	हरविंदर सिंह भिंडर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
704082	मावाअ	मोती लाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
725769	मावाअ	सुरेश पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-सितम्बर-2022
726078	मावाअ	जामाल उद्विन खान	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-सितम्बर-2022
726778	मावाअ	अजय कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
694274	मावाअ	अनिल कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
702685	मावाअ	मोहम्मद शरफुद्दीन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
704841	मावाअ	मलखान सिंह कुशवाहा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
725663	मावाअ	भगवती प्रसाद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
726130	मावाअ	विजय कुमार मल्हौत्रा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
701298	मावाअ	अरविन्द कुमार मिश्रा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
701739	मावाअ	कृष्ण कुमार पिलोनिया	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
703570	मावाअ	राज पाल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
704302	मावाअ	संजीव कुमार तंवर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
687794	मावाअ	हरेंद्र सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर- 2021
705737	मावाअ	उमा शंकर यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
707534	मावाअ	सत्य देव शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
707856	मावाअ	सन्तोष कुमार कर्नाटक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
708228	मावाअ	बलराम प्रसाद	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-फरवरी-2022
708334	मावाअ	अजीत सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-फरवरी-2022
708592	मावाअ	राजेश भाटिया	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-फरवरी-2022
686670	मावाअ	गोपन रवीन्द्रनाथन नायर	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
686721	मावाअ	सत्यवीर कौशिक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687241	मावाअ	उमाकान्त प्रसाद सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687679	मावाअ	राजेंद्र सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
690238	मावाअ	मिथलेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
706485	मावाअ	अनिल कुमार शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707184	मावाअ	शत्रुघ्न शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707370	मावाअ	राजेश कुमार पाण्डेय	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707842	मावाअ	हरि कृष्णन राधा कृष्णन नायर	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
708245	मावाअ	सत्यदेव सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
708577	मावाअ	कनवर पाल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
716817	मावाअ	सुनील कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
686866	मावाअ	विरेन्द्र कुमार धुल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
687183	मावाअ	जितेन्द्र पाल सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
708221	मावाअ	अहमद रेयाज सलीम	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
708222	मावाअ	देवेन्द्र सिंह मोर	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
708252	मावाअ	रोशन लाल जाट	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
708243	मावाअ	नरेन्द्र कुमार पचौरी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
708561	मावाअ	हरिचन्द्र सामरिया	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
698326	मावाअ	परमवीर सिंह राठौर	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई- 2021
698340	मावाअ	जयप्रकाश कौशिक	एयर फ्रेम फिटर	01-अगस्त- 2021
731684	मावाअ	निजामुद्दीन खाँ	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर- 2021
727893	मावाअ	मनोज कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
727936	मावाअ	परवेज़ अख्तर अहमद	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
728191	मावाअ	रमेन्द्र कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
728214	मावाअ	यतीन्द्र कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
728412	मावाअ	रविन्द्र कुमार शर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
728685	मावाअ	संजीव कुमार कतना	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
728716	मावाअ	वीरपाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
732156	मावाअ	मो जावेद अहमद	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
699532	मावाअ	जीतेन्द्र कुमार शुक्ल	एयर फ्रेम फिटर	01-फरवरी-2022
765287	मावाअ	सुनील कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-फरवरी-2022
730243	मावाअ	मोईजुद्दीन अन्सारी	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
730779	मावाअ	संजय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
698335	मावाअ	मोहिन्दर पाल	एयर फ्रेम फिटर	01-जून-2022
699345	मावाअ	प्रदीप कुमार पँवार	एयर फ्रेम फिटर	01-जून-2022
729209	मावाअ	लाल बाबू शर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जून-2022
729384	मावाअ	बिनोद कुमार तोमर	एयर फ्रेम फिटर	01-जून-2022
731429	मावाअ	बिनोद कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जून-2022
676820	मावाअ	ललन मिश्र	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
679566	मावाअ	बलराज देशवाल	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
695690	मावाअ	महेन्द्र कुमार प्रजापति	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
695724	मावाअ	रामानंद चौधरी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696083	मावाअ	रविन्द्रा कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696239	मावाअ	मोहम्मद रहमतुल्लाह अन्सारी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696397	मावाअ	विनय कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696445	मावाअ	सत्यपाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696558	मावाअ	रवि शंकर तिवारी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
696769	मावाअ	सुभाष बाबू	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
696779	मावाअ	रबिन्द्र प्रसाद सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
697654	मावाअ	बाठ सुखदेव सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
698324	मावाअ	जोगिंदर पाल	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
699556	मावाअ	राजीव रंजन कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
730501	मावाअ	गोकुल विश्वास	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
698460	मावाअ	मुहम्मद इक़बाल आलम	एयर फ्रेम फिटर	01-अगस्त-2022
698851	मावाअ	मानिक मंडल	एयर फ्रेम फिटर	01-अगस्त-2022
736009	मावाअ	प्रणोब कुमार दास	एयर फ्रेम फिटर	01-अगस्त-2022
695266	मावाअ	उमा शंकर तिवारी	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
696875	मावाअ	नवीन चन्द्र मिश्र	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
697083	मावाअ	वास देव आज्ञाद	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
697834	मावाअ	प्रसाद वकील	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
699135	मावाअ	जतिन्दर पाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
695615	मावाअ	महादेव अधिकारी	एयर फ्रेम फिटर	01- अक्तूबर-2022
699230	मावाअ	रमेश बन	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2022
699377	मावाअ	संजय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2022
699689	मावाअ	महावीर सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2022
727882	मावाअ	राम नाथ कश्यप	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2022
730528	मावाअ	प्रसंजित राँय	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2022
697283	मावाअ	शिव कान्त सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
699301	मावाअ	यशपाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
729062	मावाअ	पद्मनाभ साहू	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
729350	मावाअ	गुरुराज	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
729889	मावाअ	उमाकान्त मोहन्ति	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
730474	मावाअ	अभिमन्यु कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-नवम्बर-2022
698328	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-दिसम्बर-2022
699533	मावाअ	कुमार सुबोध चन्द्र	एयर फ्रेम फिटर	01-दिसम्बर-2022
730583	मावाअ	जीतेन्द्र कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-दिसम्बर-2022
731447	मावाअ	शादी लाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जनवरी-2022
721408	मावाअ	विक्रम सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
730326	मावाअ	जयपाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
678870	मावाअ	जगदीश चंदर मलिक	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679085	मावाअ	उदय भान सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679858	मावाअ	सुशील कुमार सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
694858	मावाअ	अनाथ कुमार कर्माकार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695146	मावाअ	देवेन्द्र नाथ त्रिपाठी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695185	मावाअ	सुरेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696142	मावाअ	हरि राम पटेल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
696267	मावाअ	रमा शंकर कुलश्रेष्ठ	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696268	मावाअ	शमशेर सिंह दुहन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696303	मावाअ	अमल कुमार कोले	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696624	मावाअ	राजिन्द्र कुमार भगतार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
705915	मावाअ	शिव नाथ ठाकुर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695117	मावाअ	राघवेन्द्र सिंह भदौरिया	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
705917	मावाअ	मोहम्मद जमशेद अहमद	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
628976	मावाअ	दिनेश कुमार तिवारी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
629528	मावाअ	सीताराम देवासी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
721113	मावाअ	पि वी नरेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
721540	मावाअ	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
730803	मावाअ	जोगिन्द्र दत्त शर्मा	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
733205	मावाअ	एडाट्टु माधवन्त नायर गोपालाकृष्णन्त नायर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
721302	मावाअ	राजेन्द्र सिंह कौशिक	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
721800	मावाअ	अफरोज़ अख्तर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
692571	मावाअ	जसवीर सिंह राणा	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692750	मावाअ	लोकराम कुम्हार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694259	मावाअ	सुनील कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700193	मावाअ	आनंद पिंपळखरे	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
720787	मावाअ	वीरेन्द्र कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693465	मावाअ	विनोद कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
694345	मावाअ	राम मेहर शर्मा	केटरिंग असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703482	मावाअ	बिश्वजीत सिहि	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
725477	मावाअ	सत्य रन्जन मोहन्ती	केटरिंग असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
704031	मावाअ	मनोज कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जनवरी-2022
725132	मावाअ	शिव कुमार धीमान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जनवरी-2022
701338	मावाअ	कल्लोलिक्कल सोमन नायर सन्तोष	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
725581	मावाअ	जयपाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
725444	मावाअ	बिद्युत कुमार सरकार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-मार्च-2022
729674	मावाअ	रामस्वरूप शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-मार्च-2022
729676	मावाअ	अजमेर सिंह मौन	अकाउंटिंग क्लर्क	01-मार्च-2022
729512	मावाअ	बिनय कुमार उपाध्याय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
692852	मावाअ	देवमणि	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693215	मावाअ	नरेश पाल तंवर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694023	मावाअ	शिव सिंह परमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694750	मावाअ	विक्रम कर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694810	मावाअ	अरूण कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
694916	मावाअ	सुभाष सिंह यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700024	मावाअ	प्रमोद कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700277	मावाअ	जदुवीर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700746	मावाअ	मिहिर मुखर्जी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700865	मावाअ	चंद्र नाथ यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701027	मावाअ	हरिन्दर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701451	मावाअ	विजय पाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701556	मावाअ	नन्द कुमार यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701686	मावाअ	रविन्दर कुमार आर्य	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701755	मावाअ	रामफल सिंह देवल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703048	मावाअ	श्याम लाल परूथी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703198	मावाअ	सबेकदर अलि	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693234	मावाअ	सीता राम यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
704336	मावाअ	सुनील दत्त	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
702067	मावाअ	अशोक कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
704993	मावाअ	किरन पाल सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
694192	मावाअ	प्रमोद कुमार बेहेरा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
700915	मावाअ	बलवीर सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जनवरी-2022
725163	मावाअ	शंकर मिश्रा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जनवरी-2022
725856	मावाअ	अश्विनी कुमार झा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
726066	मावाअ	सतेन्द्र कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
726854	मावाअ	प्रफुल्ल कुमार आचार्य	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
726981	मावाअ	मुरलीधरन सी नायर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
727312	मावाअ	सत्यनारायण यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
727505	मावाअ	महा सिंह बिधान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
701152	मावाअ	महि पाल सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
727603	मावाअ	गोविन्द चंद्र साहु	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
728417	मावाअ	सैयद बदरूल हसन रिज़वी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
729597	मावाअ	दिलजीत सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
729718	मावाअ	विजय कुमार स्योराण	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
727819	मावाअ	जयप्रकाश साहू	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
729628	मावाअ	नरेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
729644	मावाअ	दीनदयाल कौशिक	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
700323	मावाअ	वीरेन्द्र सिंह साँगवान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
726891	मावाअ	महेन्द्र सिंह शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
693218	मावाअ	राम निवास चौहान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
693500	मावाअ	रंजीत कुमार साहु	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
693740	मावाअ	विजय शंकर मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
693983	मावाअ	आनंद कुमार तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694307	मावाअ	महाबीर सिंह नेगी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694511	मावाअ	महेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694527	मावाअ	राजेश कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694716	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700136	मावाअ	कृष्ण गोपाल घोष	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700145	मावाअ	नित्यानन्द सुरेलिया	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700531	मावाअ	फिलिप के	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700671	मावाअ	अमर जीत सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700672	मावाअ	चितरंजन कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700789	मावाअ	गंगाधरन वी पी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700880	मावाअ	जय नारायण बेहेरा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700920	मावाअ	दिनेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700962	मावाअ	राकेश पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701061	मावाअ	यशपाल सिंह चौहान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701128	मावाअ	धन सिंह चहल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701209	मावाअ	दिवाकर तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701409	मावाअ	सुब्रत कुमार सेठ	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701626	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701888	मावाअ	उज्ज्वल कुमार चटर्जी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701919	मावाअ	प्रशान्त कुमार त्रिपाठी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700361	मावाअ	डेविड करूनाकरन जार्ज	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
702061	मावाअ	वेद प्रकाश शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
703286	मावाअ	राजेश कुमार राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
693219	मावाअ	धर्मपाल सिंह असवाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
694514	मावाअ	देशराज सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
701038	मावाअ	धर्मेन्द्र सिंह चौधरी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
701331	मावाअ	हुसैन ऐ	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
701438	मावाअ	दशरथ सिंह रावत	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
701991	मावाअ	जोमी मैथ्यू	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
702531	मावाअ	सुरेश कुमार भारद्वाज	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
702536	मावाअ	बलजीत सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
703680	मावाअ	सत्य प्रकाश कुशवाहा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
700408	मावाअ	दिनेश यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
702260	मावाअ	चन्द्रभान वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
702805	मावाअ	पवन कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
702948	मावाअ	शंकर साहा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
703358	मावाअ	विजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
728348	मावाअ	बाबूजी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
728360	मावाअ	शमेंद्र सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
703293	मावाअ	रामवीर सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
703592	मावाअ	अवधेश कुमार त्रिपाठी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
726334	मावाअ	रमेश चन्द	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
726352	मावाअ	विजय कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
728510	मावाअ	अमरसिंह सैनी	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
737133	मावाअ	राजीव कुमार वर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
692734	मावाअ	नरेश कुमार शर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
693181	मावाअ	रविन्द्र सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
694069	मावाअ	अचल सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
700004	मावाअ	विरेन्द्र कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
700207	मावाअ	शम्भू नाथ प्रसाद	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
700301	मावाअ	किशुन लाल साहू	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
700458	मावाअ	राम किशन यादव	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
700674	मावाअ	संजय कुमार सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
701452	मावाअ	शिव गोपाल शर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
692829	मावाअ	तेज बहादुर सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
700508	मावाअ	लालजी	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
694241	मावाअ	सतीश कुमार सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
701137	मावाअ	धीरेंद्र कुमार डबराल	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
700570	मावाअ	रोशन लाल	क्रिप्टोग्राफर	01-दिसम्बर-2022
796686	मावाअ	अरुण कुमार कनूंगो	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
900412	मावाअ	जितेन्द्र कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
900416	मावाअ	छबिल कुमार बारिक	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
900948	मावाअ	राकेश कुमार शर्मा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-फरवरी-2022
797417	मावाअ	अरुण कुमार साहू	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
900410	मावाअ	मानस रंजन पंडा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
900952	मावाअ	हरिकृष्णन पी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
739858	मावाअ	लक्ष्मी कान्त सिंह	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
901450	मावाअ	मिहिर कुमार माझी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
901438	मावाअ	त्रिपती पाणिग्राही	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
901443	मावाअ	दीपक कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
902013	मावाअ	श्याम सिंह चौहान	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अक्तूबर-2022
902016	मावाअ	सुरेश ए सी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अक्तूबर-2022
709014	मावाअ	कृष्ण चन्द प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जनवरी-2022
688754	मावाअ	केवल कृष्ण	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-फरवरी-2022
689695	मावाअ	बिरेन्द्र कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-फरवरी-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
717281	मावाअ	पवेश चंद्रा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-फरवरी-2022
715472	मावाअ	सुमन कुमार शर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अप्रैल-2022
716288	मावाअ	चंद्र देव यादव	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अप्रैल-2022
688139	मावाअ	संजय कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
629921	मावाअ	जय चन्द्र विश्वकर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
640833	मावाअ	महेश प्रसाद सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
683608	मावाअ	महेंद्र सिंह शर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
684283	मावाअ	राजीव कुमार त्यागी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
684670	मावाअ	सुभाष चंद्र सचान	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685332	मावाअ	देव पूजन सिन्हा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685550	मावाअ	महेश कुमार यादव	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686018	मावाअ	अरविंद कुमार मालवीय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686571	मावाअ	मुरारी लाल	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686610	मावाअ	रवीन्द्र कुमार चौबे	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686661	मावाअ	राकेश कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691642	मावाअ	टीकम चंद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691678	मावाअ	संजय कुमार सिन्हा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691706	मावाअ	अक्षय कुमार दुबे	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691950	मावाअ	शशि धर दुबे	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
705335	मावाअ	श्रीकान्त मजुमदार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
706178	मावाअ	राजेन्द्र सिंह पंवार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
707029	मावाअ	हृदय राम	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
715409	मावाअ	कृष्ण चन्द्र सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
715416	मावाअ	प्रेम प्रकाश राय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
716214	मावाअ	प्रनब कुमार बन्धोपाध्याय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
640991	मावाअ	हंसराज	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
683107	मावाअ	रणवीर सिंह राठी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
688058	मावाअ	शिवा कुमार प्रभाकरन नायर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
688059	मावाअ	विजय कुमार सोनी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
688811	मावाअ	नरेन्द्र कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
715808	मावाअ	विनय कुमार ठाकुर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
688882	मावाअ	दिनेश कुमार दीक्षित	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-सितम्बर-2022
707469	मावाअ	जल सिंह कुशवाह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-सितम्बर-2022
709010	मावाअ	राज कुमार पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-सितम्बर-2022
689084	मावाअ	संजय सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
709697	मावाअ	पंकज कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
640787	मावाअ	देवाशीष दासगुप्ता	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
740119	मावाअ	अजय प्रताप तिवारी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
689053	मावाअ	रूप सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-दिसम्बर-2022
689080	मावाअ	घनश्याम सिंह चौहान	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-दिसम्बर-2022
689087	मावाअ	शशी कपूर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-दिसम्बर-2022
717248	मावाअ	जयवीर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-दिसम्बर-2022
686013	मावाअ	दिनेश कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	07-दिसम्बर-2022
698442	मावाअ	अनिल कुमार	इंजन फिटर	01-दिसम्बर- 2021
730961	मावाअ	जीवन कबिराज	इंजन फिटर	01-दिसम्बर- 2021
699375	मावाअ	पवन कुमार चौधरी	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
699527	मावाअ	ओंकार नाथ झा	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
699634	मावाअ	महेन्द्र कुमार गुप्ता	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
730259	मावाअ	सुभाष चन्द्र शर्मा	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
730890	मावाअ	संजीव नाथ प्रसाद	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
730926	मावाअ	असित कुमार मण्डल	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
731303	मावाअ	मणि कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
731507	मावाअ	ब्रजेश्वर दास वैष्णव	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
731737	मावाअ	अर्बिंद कुमार उपाध्याय	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
731738	मावाअ	रावेन्द्र प्रकाश अवस्थी	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
731774	मावाअ	सुधीर कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
699581	मावाअ	कमलेश्वर सिंह	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
728239	मावाअ	सुदिष्ट मिश्रा	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
728242	मावाअ	लक्ष्मी शंकर प्रसाद	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
728762	मावाअ	परीक्षित शर्मा	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
729144	मावाअ	प्रमोद कुमार धीर	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
729150	मावाअ	सलिल कुमार मंडल	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
729401	मावाअ	प्रवीन कुमार त्रियार	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
731751	मावाअ	अजीजुल हसन	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
732097	मावाअ	भवनि शंकर रौल	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
732258	मावाअ	हरि प्रकाश शर्मा	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
732320	मावाअ	रतन कुमार पाठक	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
727899	मावाअ	घनेन्द्र कुमार शर्मा	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728199	मावाअ	प्रमोद कुमार	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728233	मावाअ	राकेश कुमार वर्मा	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728246	मावाअ	जितेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728322	मावाअ	सौम्य घटक	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728735	मावाअ	धर्मपाल सिंह	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
728772	मावाअ	पवन कुमार ओझा	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
732172	मावाअ	उदय नारायण सिंह	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
727944	मावाअ	रविन्दर गाबा	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
728108	मावाअ	जगन्नाथ घडाई	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
698312	मावाअ	रणवीर सिंह	इंजन फिटर	01-मई-2022
699300	मावाअ	नरेंद्र कुमार त्यागी	इंजन फिटर	01-मई-2022
699590	मावाअ	धर्मनाथ प्रसाद	इंजन फिटर	01-मई-2022
727938	मावाअ	राज कुमार	इंजन फिटर	01-मई-2022
728749	मावाअ	वरिंदर सिंह जम्वाल	इंजन फिटर	01-मई-2022
729083	मावाअ	अशोक कुमार पंडित	इंजन फिटर	01-मई-2022
729127	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	इंजन फिटर	01-मई-2022
729145	मावाअ	सुदाम चरण रणा	इंजन फिटर	01-मई-2022
730966	मावाअ	सुरेन्द्र सिंह	इंजन फिटर	01-मई-2022
732082	मावाअ	नवेन्दु मिश्र	इंजन फिटर	01-मई-2022
699749	मावाअ	राकेश कुमार	इंजन फिटर	01-जून-2022
728059	मावाअ	सुखराम पटेल	इंजन फिटर	01-जून-2022
728407	मावाअ	मणिल कुमार सिन्हा	इंजन फिटर	01-जून-2022
729104	मावाअ	आशांक पाण्डेय	इंजन फिटर	01-जून-2022
732163	मावाअ	रामबिलाश सिंह यादव	इंजन फिटर	30-जून-2022
696718	मावाअ	सुनील कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
696726	मावाअ	उमेश नाथ मिश्र	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
697797	मावाअ	ललन कुमार ठाकुर	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
696874	मावाअ	अरविंद कुमार मिश्रा	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
696876	मावाअ	उदय प्रसाद	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
731947	मावाअ	मिश्रा दिनेश कुमार	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
736166	मावाअ	अलिक कुमार घोष	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
731983	मावाअ	तेजपाल रावत	इंजन फिटर	01-सितम्बर-2022
697891	मावाअ	प्रकाश चंद्र राठी	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
728240	मावाअ	प्रदीप कुमार	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
728252	मावाअ	अरविन्द सिंह	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
728766	मावाअ	वरुण कुमार श्रीवास्तव	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
728841	मावाअ	सुरेश कुमार शतपथी	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
728745	मावाअ	अनिल कुमार माहुर	इंजन फिटर	07-नवम्बर-2022
735429	मावाअ	घंश्याम मिश्रा	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
703763	मावाअ	अभय शंकर प्रसाद	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई- 2021
703319	मावाअ	विवेक कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
703932	मावाअ	दिनेश चन्द्र सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
702012	मावाअ	मनोज कुमार यादव	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
703749	मावाअ	अरूण कुमार वर्मा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
704054	मावाअ	सुरेश कुमार लाम्बा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
704705	मावाअ	पानन्तराइल थोमस बिजु	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
727359	मावाअ	ज़हीर अली	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
702640	मावाअ	बाबु जोसेफ	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
703321	मावाअ	उमेश कुमार द्विवेदी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
725494	मावाअ	मयंक बाजपेयी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
726756	मावाअ	राजबीर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
727697	मावाअ	अजय कुमार शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
729507	मावाअ	संजय ठाकरे	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
729724	मावाअ	राजेन्द्र सिंह मेहला	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
725994	मावाअ	प्रसन्न कुमार मोहापात्रा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	27-अप्रैल-2022
727524	मावाअ	पूर्णाराम माली	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मई-2022
728462	मावाअ	जगन्नाथ शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मई-2022
729339	मावाअ	यूसुफ खान	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मई-2022
700598	मावाअ	मुत्याला सत्यनारायण	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
702357	मावाअ	मनफूल सिंह जॉगिड	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
692539	मावाअ	वीरबल बासुमतारी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693274	मावाअ	बृज भूषण भाठला	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693286	मावाअ	मुकेश कुमार वशिष्ठ	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693938	मावाअ	महेश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693949	मावाअ	छोटे लाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694231	मावाअ	जनार्दन प्रसाद सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694501	मावाअ	अनिल कुमार शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694555	मावाअ	अशोक कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700106	मावाअ	यशपाल संसरवाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700183	मावाअ	के वी वी सत्यनारायणा मूर्ती	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700286	मावाअ	राज किशोर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700478	मावाअ	कण्णन सुब्रमण्य अय्यर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700524	मावाअ	राम कृष्ण	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701099	मावाअ	ध्यान सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701102	मावाअ	भवेश चन्द	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701655	मावाअ	सत्यवीर सिंह वर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694227	मावाअ	तपसी कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
700497	मावाअ	अजय कुमार स्वाई	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
701183	मावाअ	सीताराम	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
701288	मावाअ	सन्तोष कुमार राय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
701632	मावाअ	सुरेन्द्र सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
702788	मावाअ	वीरौतु सतीश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
704341	मावाअ	राम मेहर सिंह गुर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
727608	मावाअ	दाडिशेट्टी वेन्कट वरहा रघुपति राजू	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
726256	मावाअ	उमेश प्रसाद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
694479	मावाअ	रमेश चन्द्र शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
700466	मावाअ	ओम प्रकाश प्रजापत	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
694571	मावाअ	करुणा शंकर त्रिपाठी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
694751	मावाअ	निहार रंजन राउतराय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
700182	मावाअ	समदर सिंह राठौड़	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
725241	मावाअ	अतुल गाणार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
736653	मावाअ	सन्तोष कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
767952	मावाअ	प्रताप चन्द्र पूस्टि	फ्लाइट इंजीनियर	01-अक्तूबर-2021
766218	मावाअ	सजन कुमार सैनी	फ्लाइट इंजीनियर	01-जनवरी-2022
775520	मावाअ	रामदीन प्रजापत	फ्लाइट इंजीनियर	01-जनवरी-2022
776130	मावाअ	अनिल कुमार बाजपेयी	फ्लाइट इंजीनियर	01-जनवरी-2022
768774	मावाअ	अमित कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
775156	मावाअ	सिकन्दर मूंड	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
776173	मावाअ	प्रताप सिंह	फ्लाइट इंजीनियर	01-सितम्बर-2022
765952	मावाअ	गोपाल कृष्ण साहू	फ्लाइट गनर	01-फरवरी-2022
766709	मावाअ	मोहन किशोर ठाकुर	फ्लाइट गनर	01-फरवरी-2022
767434	मावाअ	बजरंग लाल यादव	फ्लाइट गनर	01-फरवरी-2022
735931	मावाअ	हरि चरण	फ्लाइट गनर	01-जून-2022
775950	मावाअ	जगनारायण शर्मा	फ्लाइट गनर	01-जून-2022
768860	मावाअ	अबधेश कुमार	फ्लाइट गनर	01-जुलाई-2022
775953	मावाअ	केम्पन्ना चौगला	फ्लाइट गनर	01-नवम्बर-2022
768073	मावाअ	श्याम सिंह	फ्लाइट गनर	01-दिसम्बर-2022
747861	मावाअ	राम निवास	फ्लाइट सिग्नलर	01-जुलाई-2022
748119	मावाअ	ललित कुमार गुप्ता	फ्लाइट सिग्नलर	01-जुलाई-2022
692846	मावाअ	जय राज सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
693691	मावाअ	गुलाब चन्द	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
694197	मावाअ	संतोष कुमार जेना	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
737093	मावाअ	जसवीर सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ( एस)	01-मार्च-2022
727047	मावाअ	सी मधु	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ( एस)	01-मई-2022
704273	मावाअ	वृज मोहन	भा वा से पुलिस	01- मई -2021
704726	मावाअ	सतीश कुमार अ	भा वा से पुलिस	01- मई -2021
725182	मावाअ	बीरेन्द्र कुमार	भा वा से पुलिस	01-जून-2021
735760	मावाअ	महेश कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जून-2021
726408	मावाअ	ब्रह्म प्रकाश यादव	भा वा से पुलिस	01-जनवरी-2022
729548	मावाअ	रविशंकर त्यागी	भा वा से पुलिस	01-जनवरी-2022
729712	मावाअ	राजीव कुमार मलिक	भा वा से पुलिस	01-फरवरी-2022
729030	मावाअ	उमा शंकर तिवारी	भा वा से पुलिस	01-मार्च-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
729531	मावाअ	राम कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-मार्च-2022
629261	मावाअ	निताई चंद्र साधुखाँ	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629285	मावाअ	विपिन कुमार गुप्ता	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629522	मावाअ	गोपाल सिंह बगडिया	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629558	मावाअ	प्रमोद कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629779	मावाअ	मोहम्मद आसिफ अली	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
703938	मावाअ	भंवर सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704783	मावाअ	जसविन्दर सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705174	मावाअ	अशोक कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705461	मावाअ	विजयन के एम	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
725402	मावाअ	अनुपम कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704172	मावाअ	कुलदीप सिंह	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
705807	मावाअ	कृष्ण सिंह यादव	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
704169	मावाअ	प्रताप सिंह सांगवान	भा वा से पुलिस	01-अक्तूबर-2022
703812	मावाअ	पूर्ण सिंह	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
704158	मावाअ	ओमबीर सिंह दलाल	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
729344	मावाअ	हेमंत कुमार	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
629727	मावाअ	एस के सुरेश	भा वा से पुलिस	25-नवम्बर-2022
628299	मावाअ	अशोक कुमार बाजपेयी	भा वा से पुलिस	01-दिसम्बर-2022
725180	मावाअ	राम कृष्णा	भा वा से पुलिस	01-दिसम्बर-2022
707526	मावाअ	नागेन्द्र कुमार शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जनवरी-2022
708979	मावाअ	उमेश कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जनवरी-2022
717330	मावाअ	रामकरण	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जनवरी-2022
688626	मावाअ	प्रमोद सिंह सिरोही	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-फरवरी-2022
708835	मावाअ	हेमंत कुमार साहु	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-फरवरी-2022
708983	मावाअ	नृपेन्द्र दीक्षित	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-फरवरी-2022
708985	मावाअ	अशोक कुमार उत्तम	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-फरवरी-2022
709083	मावाअ	संजय यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-फरवरी-2022
687936	मावाअ	दीपंकर मण्डल	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-मार्च-2022
688850	मावाअ	प्रेम कुमार शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-मार्च-2022
709043	मावाअ	अशोक कुमार मिश्रा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-मार्च-2022
760649	मावाअ	शिवाश्रय यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-मार्च-2022
686073	मावाअ	मदन लाल बोरणा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
686981	मावाअ	राधेश्याम प्रसाद	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
687128	मावाअ	वृजपाल सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
691525	मावाअ	बाल कृष्ण शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
707549	मावाअ	प्रमोद कुमार मलिक	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
709819	मावाअ	रामचंद्रन नायर शंकरन नायर	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
716181	मावाअ	दुलार चन्द्र माँझी	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716640	मावाअ	राकेश कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716828	मावाअ	शिव कुमार शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
717720	मावाअ	देसराज मलिक	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
688293	मावाअ	आशिष कुमार माईति	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
688778	मावाअ	प्रदीप सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
689010	मावाअ	दिलीप कुमार दलाई	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
707125	मावाअ	पार्थ सारथी मजुमदार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
709935	मावाअ	रंजन कुमार प्रधान	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
709547	मावाअ	स्वदेश कुमार सक्सेना	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-सितम्बर-2022
740050	मावाअ	बिरेन्द्र सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-सितम्बर-2022
709980	मावाअ	औदुंबर चोपडे	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
710964	मावाअ	पवन कुमार दुबे	मेडिकल असिस्टेंट	01- मार्च -2021
710126	मावाअ	अजय कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01- मई -2021
710149	मावाअ	परितोष पाल	मेडिकल असिस्टेंट	01- मई -2021
710385	मावाअ	जोगिन्द्र सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
710861	मावाअ	शैलेन्द्र कुमार प्रजापति	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
710677	मावाअ	एस थॉमस पी राज	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
710715	मावाअ	देवेन्द्र कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
710789	मावाअ	राजेश कुमार अहलावत	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
710751	मावाअ	जीजो जोसेफ	मेडिकल असिस्टेंट	01-मार्च-2022
710774	मावाअ	मनोज कुमार त्यागी	मेडिकल असिस्टेंट	01-मार्च-2022
656741	मावाअ	रमेश चंद वर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656783	मावाअ	चंद्र भान यादव	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656844	मावाअ	प्रीतम नेगी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656851	मावाअ	चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710035	मावाअ	संदीप चट्टोपाध्याय	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710091	मावाअ	विश्व नाथ सेनगुप्ता	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710144	मावाअ	आशुतोष अधिकारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710239	मावाअ	जनार्दन जी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710370	मावाअ	मोहम्मद यमीन	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710899	मावाअ	करूणा शंकर शुक्ला	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656742	मावाअ	अंजय कुमार सांगवान	मेडिकल असिस्टेंट	20-जुलाई-2022
710070	मावाअ	नरेंद्र सिंह यादव	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710387	मावाअ	राजकुमार शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710454	मावाअ	बिरेन्द्र सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710460	मावाअ	जोगिन्द्र सिंह बहल	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710347	मावाअ	मोहम्मद सुल्तान	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
710421	मावाअ	आशीष माथुर	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्टूबर-2022
710822	मावाअ	कलयानी साहिब खान	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्टूबर-2022
710422	मावाअ	सन्त राम ढिल्लों	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
710268	मावाअ	जयप्रकाश	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
710474	मावाअ	ओमवीर सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
695598	मावाअ	सुजित नाथ	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01- मई -2021
698084	मावाअ	रमेश चन्द्र श्योकन्द	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01- मई -2021
629103	मावाअ	हरेंद्र कुमार तिवारी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जून-2021
695908	मावाअ	राज कुमार सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जून-2021
699698	मावाअ	कुलजीत सिंह लाम्बा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
726556	मावाअ	कसारे रवींद्र किसन	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
698048	मावाअ	निशीथ चौधुरी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
732442	मावाअ	धर्मेन्द्र सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
721437	मावाअ	प्रदीप मेनोन वी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-मार्च-2022
721526	मावाअ	सुजीत कुमार श्रीवास्तव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जून-2022
679715	मावाअ	संजय माली	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
695983	मावाअ	लक्ष्मण सिंह सीरवी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
698560	मावाअ	संतोष कुमार ई वी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
697179	मावाअ	कमलेश प्रताप सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
706708	मावाअ	बिपिन बिहारी मानसिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अक्टूबर-2022
679097	मावाअ	राम नवल कुशवाहा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
699701	मावाअ	हवा सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
721094	मावाअ	अनिल कुमार सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
689394	मावाअ	लक्ष्मण कुमार बेहरा	मिसाइल फिटर (ई)	01- मई -2021
688983	मावाअ	विवेन्द्र सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-नवम्बर- 2021
687425	मावाअ	सुभाष कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
688043	मावाअ	गजवीर पिलानिया	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
689207	मावाअ	कुँवर संजय	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
689238	मावाअ	रंजीत कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-सितम्बर-2022
689272	मावाअ	संजय कुमार ओझा	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्टूबर-2022
689283	मावाअ	रहमत हुसेन अन्सारी	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्टूबर-2022
689285	मावाअ	विक्रमा कुमार चौबे	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्टूबर-2022
689344	मावाअ	तपन कुमार सरकार	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्टूबर-2022
689368	मावाअ	तिलक राज शर्मा	मिसाइल फिटर (ई)	01-नवम्बर-2022
709862	मावाअ	गोपाल साव	मिसाइल फिटर (एल)	01-अप्रैल-2021
707090	मावाअ	विद्या भूषण कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
707098	मावाअ	सत्येन्द्र सिंह यादव	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
708521	मावाअ	कुलदीप कुमार शर्मा	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
696138	मावाअ	उमा शंकर	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
699235	मावाअ	दुर्गा पद पान	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
699772	मावाअ	पंकज कुमार पाण्डेय	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
730130	मावाअ	भोज पाल सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
732020	मावाअ	नारायण चन्द्र मिश्र	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
730332	मावाअ	चरण सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-नवम्बर-2022
698028	मावाअ	जयामोहनन वेलायुधन	एम टी फिटर	01- मई -2021
699875	मावाअ	विनायक कुमार पाठक	एम टी फिटर	01-दिसम्बर- 2021
699359	मावाअ	सहसरा पाल सिंह	एम टी फिटर	01-जनवरी-2022
699451	मावाअ	धूप सिंह शर्मा	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
699680	मावाअ	सर्वेन्द्र सिंह पटेल	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
731390	मावाअ	राजेश कुमार	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
731499	मावाअ	गोलाम सादिक	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
696523	मावाअ	महीपत सिंह चौहान	एम टी फिटर	01-मार्च-2022
730513	मावाअ	सुब्रत कुमार पाठक	एम टी फिटर	01-मार्च-2022
678649	मावाअ	सुभाष चन्द्र	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
679993	मावाअ	विष्णु दत्त सारस्वत	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
698995	मावाअ	रमाकान्त बेहेरा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
675875	मावाअ	केशव नारायण प्रसाद	एम टी फिटर	01-जून-2022
731116	मावाअ	रमेश कुमार	एम टी फिटर	01-जून-2022
678423	मावाअ	संतोष कुमार शर्मा	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
696560	मावाअ	उमेश चंद्र त्रिपाठी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
697275	मावाअ	ललित कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
698248	मावाअ	शिव केश शर्मा	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
699514	मावाअ	अमर दयाल सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
722119	मावाअ	संजय कुमार	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
722439	मावाअ	संचित कुमार कुशवाहा	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
696864	मावाअ	संजीव कुमार	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
697049	मावाअ	श्याम भवन	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
697080	मावाअ	घन श्याम सिंह	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
706210	मावाअ	नवीन कुमार झा आजाद	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2021
720916	मावाअ	कुन्दन शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर- 2021
721197	मावाअ	रमेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
720036	मावाअ	राजपाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
720564	मावाअ	राजेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721186	मावाअ	सनत कुमार तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721322	मावाअ	उत्पल चक्रवर्ती	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721360	मावाअ	भूषण कुमार बीर	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
721367	मावाअ	रंजीत कुमार साहु	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721407	मावाअ	सुनील सिंह	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721607	मावाअ	छत्रपाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
721352	मावाअ	आनन्द कुमार राठी	एम टी ड्राईवर	01-मार्च-2022
721583	मावाअ	शम्भु शरन तिवारि	एम टी ड्राईवर	01-मार्च-2022
721592	मावाअ	छोटे लाल शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-मार्च-2022
721651	मावाअ	महेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-मार्च-2022
720689	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721002	मावाअ	लाभाला वेकंट राव	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721365	मावाअ	संजीव कुमार त्यागी	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721697	मावाअ	मनोज कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721702	मावाअ	चंद्रा प्रकाश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721743	मावाअ	गजानन्द	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720142	मावाअ	विजय कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
628648	मावाअ	भालेराव जयंत जगदिश	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628800	मावाअ	अंजनी कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628935	मावाअ	मोनु कुमार नाथ	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629139	मावाअ	नन्द कुमार वर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629410	मावाअ	भागीरथी पण्डा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629476	मावाअ	विवेन्द्र सिंह दहिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629507	मावाअ	दिपक राय चौधुरी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629800	मावाअ	वीरेन्द्र सिंह यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705005	मावाअ	वी वी वासु देवाचार्युलु	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705072	मावाअ	अशोक कुमार शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705215	मावाअ	अशोक कुमार पाल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705217	मावाअ	राघव राम शुक्ला	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705536	मावाअ	भँवर लाल चौहान	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705541	मावाअ	सुभाष कुमार गौड़	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705612	मावाअ	बुध राम	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705819	मावाअ	सजीमोन थोमस	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705821	मावाअ	राम कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705870	मावाअ	बिल्लु राम	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705954	मावाअ	सतबीर सिंह रावत	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706280	मावाअ	राजेन्द्र सिंह पँवार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721761	मावाअ	बेअंत सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721858	मावाअ	राज कुमार बधन	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720268	मावाअ	महेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
720390	मावाअ	राकेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
721052	मावाअ	कुलदीप सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721982	मावाअ	राजवीर सेहरावत	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
720194	मावाअ	ब्रज किशोर शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
721236	मावाअ	रतनलाल यादव	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
722073	मावाअ	ए राजेश कुमार नायर	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
706256	मावाअ	भूपाल कुमार यादव	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
720705	मावाअ	मनोरंजन जेनामणी	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
721371	मावाअ	सुमेर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
721588	मावाअ	रूपेश सावन	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
720658	मावाअ	कमलेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
721383	मावाअ	आनन्द प्रकाश सैनी	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
721653	मावाअ	केवल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
721867	मावाअ	विजेन्द्र	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
721997	मावाअ	तेजपाल	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
722051	मावाअ	निरंजन कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
722419	मावाअ	नरेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
721726	मावाअ	शंकर शेषाद्रि के	एम टी ड्राईवर	24-दिसम्बर-2022
628948	मावाअ	दिनेश शर्मा	म्यूजिशियन	01-जून-2021
703580	मावाअ	श्यामल कुमार मित्रा	म्यूजिशियन	01-जुलाई-2022
706798	मावाअ	चन्दन कुमर प्रतिहार	म्यूजिशियन	01-जुलाई-2022
689457	मावाअ	उपजीत सिंह आहुजा	फोटो फिटर	01-जनवरी-2022
689458	मावाअ	सौमिक कुमार गुप्ता	फोटो फिटर	01-जून-2022
689475	मावाअ	रणजय कुमार चौधरी	फोटो फिटर	01-जून-2022
689495	मावाअ	रमेश कुमार सिधल	फोटो फिटर	01-जून-2022
689880	मावाअ	ईश्वर चन्द्र ठाकुर	फोटो फिटर	01-जून-2022
724016	मावाअ	हरी सिंह	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
723782	मावाअ	रविन्द्र बेदवा	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
715152	मावाअ	वीरेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01- मई -2021
715443	मावाअ	अवधेश कुमार महतो	रेडार फिटर	01- मई -2021
686436	मावाअ	अभय कुमार साहू	रेडार फिटर	01- जून-2021
674208	मावाअ	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	रेडार फिटर	01-फरवरी-2022
686886	मावाअ	नीलाम्बर राय	रेडार फिटर	01-फरवरी-2022
683236	मावाअ	ज्योतिराज सिंह	रेडार फिटर	01-मार्च-2022
687685	मावाअ	भँवर लाल जाँगिड	रेडार फिटर	01-मार्च-2022
707626	मावाअ	मनोरंजन पंडा	रेडार फिटर	01-मार्च-2022
629875	मावाअ	अमरेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
686773	मावाअ	नासिर अली खान	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
686966	मावाअ	पुर्णेन्दु रमन	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
707590	मावाअ	लवकेश कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
707608	मावाअ	समीरण समाद्वार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
707687	मावाअ	रवीन्द्र कुमार ठाकुर	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
716107	मावाअ	राजकुमार सिंह	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
716647	मावाअ	विनेश कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
716803	मावाअ	महेश दत्त शर्मा	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
684767	मावाअ	वीरपाल सिंह	रेडार फिटर	01-मई-2022
687588	मावाअ	विजय कुमार नायक	रेडार फिटर	01-मई-2022
707513	मावाअ	देवीप्रसन्न	रेडार फिटर	01-मई-2022
629934	मावाअ	राकेश कुमार शर्मा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
640525	मावाअ	निज़ामुद्दीन खाँ	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
640875	मावाअ	कमलेश तिवारी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
683342	मावाअ	तेज नारायण यादव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
685408	मावाअ	रमेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
685720	मावाअ	राजकिशोर गुप्ता	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
685959	मावाअ	मिथिलेश कुमार सिन्हा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
686130	मावाअ	समसुल आलम सरदार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
686246	मावाअ	हिमाँशु कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
686317	मावाअ	शिवाधर सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
686423	मावाअ	बब्बन शर्मा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
686577	मावाअ	प्रमोद सिंह रावल	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
690302	मावाअ	होशियार सिंह यादव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
690882	मावाअ	राजेश्वर मलिक	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
692160	मावाअ	राज कुमार सिंह तोमर	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
715373	मावाअ	श्रीप्रकाश उपाध्याय	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
715811	मावाअ	मणीन्द्र मोहन दास	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
706105	मावाअ	प्रभाकर प्रसाद सिंह	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
715392	मावाअ	अजय कुमार राय	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
715422	मावाअ	लक्ष्मण सिंह	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
716835	मावाअ	अरूण कुमार चतुर्वेदी	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
654660	मावाअ	विजेन्द्र पाल सिंह	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
705275	मावाअ	ओम प्रकाश तिवारी	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
707115	मावाअ	अखिलेश कुमार मिश्र	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
654676	मावाअ	सोहन सिंह	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
705403	मावाअ	राजेश्वर सिंह यादव	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
715123	मावाअ	विद्या सागर यादव	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
690904	मावाअ	विजय दत्त शर्मा	रेडार फिटर	07-दिसम्बर-2022
685862	मावाअ	बाबू राम गुप्ता	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2021

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
707383	मावाअ	राम दीन	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर- 2021
716095	मावाअ	बच्चू सिंह	रेडियो फिटर	01-नवम्बर- 2021
654698	मावाअ	शीश पाल दहिया	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
686953	मावाअ	सावलिया सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
687515	मावाअ	राजेंद्र कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
687573	मावाअ	सरोज कुमार श्वाई	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
687780	मावाअ	रनवीर सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
691964	मावाअ	द्वारिका नाथ	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
715036	मावाअ	रमेश चन्द्र	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
716152	मावाअ	पृथ्वी सिंह रावत	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
716538	मावाअ	शिव नारायण राय	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
717594	मावाअ	सौमित्र मुखोपाध्याय	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
717690	मावाअ	गिरीश कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
717701	मावाअ	अनुपम पति त्रिपाठी	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
629854	मावाअ	चाँद सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
685128	मावाअ	अटल बिहारी मिश्र	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
685753	मावाअ	अरूण कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
685914	मावाअ	नुनु साह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
685938	मावाअ	योगिराज अरविन्द	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
686327	मावाअ	शिवाकांत मिश्र	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
686711	मावाअ	लक्ष्मी नारायण	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
686905	मावाअ	भानु रंजन विश्वास	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
687871	मावाअ	अजय कुमार माथुर	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
687900	मावाअ	सत्या नन्द सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
706814	मावाअ	शादी लाल शर्मा	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
707392	मावाअ	हरीश चन्द्र वर्मा	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
715803	मावाअ	ओम प्रकाश लाल	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
717398	मावाअ	मृत्युंजय बेहेरा	रेडियो फिटर	01-मार्च-2022
686056	मावाअ	चमन लाल खजूरिया	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
687993	मावाअ	सरफुल आमिन मडल	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
705411	मावाअ	राजकुमार धीमान	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
716270	मावाअ	अबोध कुमार साहू	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
716456	मावाअ	गनेश कुमार घोष	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
716554	मावाअ	संजय कुमार राकेश	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
717279	मावाअ	रमा कान्त सिंह	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
685558	मावाअ	कैलाश चन्द्र शर्मा	रेडियो फिटर	01-जून-2022
686972	मावाअ	पंचानन्द सिंह	रेडियो फिटर	01-जून-2022
686990	मावाअ	मोहम्मद इलियास	रेडियो फिटर	01-जून-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
706093	मावाअ	प्रभु नाथ चौबे	रेडियो फिटर	01-जून-2022
706098	मावाअ	राम जी सिंह	रेडियो फिटर	01-जून-2022
716528	मावाअ	अरविन्द कुमार	रेडियो फिटर	01-जून-2022
629859	मावाअ	वैद्यनाथ पण्डा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
639742	मावाअ	ओम प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
640251	मावाअ	हरिहर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
640469	मावाअ	शिव प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
654741	मावाअ	शैलेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
674898	मावाअ	संजय प्रसाद	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
684985	मावाअ	बाबु लाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685115	मावाअ	रमेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685179	मावाअ	मनोज कुमार पाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685205	मावाअ	धनपति साव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685776	मावाअ	अशोक कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685806	मावाअ	शरद चन्द्र	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685836	मावाअ	अभिमन्यु कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
685859	मावाअ	धर्मसेन नाथ तिवारी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
690445	मावाअ	बिजोय कुमार बोक्सी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
690736	मावाअ	सूर्य प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
691961	मावाअ	राम प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
691988	मावाअ	राकेश सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
692054	मावाअ	धर्मपाल सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
705301	मावाअ	संजय कुमार चौरसिया	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
705714	मावाअ	भद्रया राम मौर्य	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
706122	मावाअ	राम प्रसाद सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
706827	मावाअ	अशोक कुमार त्रिपाठी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
707132	मावाअ	कमल कुमार मंडल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
715219	मावाअ	प्रेम पाल सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
715367	मावाअ	कमरूल ईसलाम चौधुरी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
715787	मावाअ	शिव कुमार मिश्र	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
717141	मावाअ	देवाशीष साहा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
640242	मावाअ	हरीश चंद्र मिश्र	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
685945	मावाअ	महमूदुर रहमान	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
686949	मावाअ	सुधीर कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
687243	मावाअ	शैलेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
690850	मावाअ	मन मोहन भट्ट	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
715467	मावाअ	मुसाफिर प्रसाद यादव	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
687748	मावाअ	नीलोत्पल भद्र	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
706531	मावाअ	विक्रम दे सरकार	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
707530	मावाअ	मोहम्मद सोहेल अनवर	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
715330	मावाअ	विनोद कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
716300	मावाअ	जॉनसन पी अब्राहम	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
717371	मावाअ	प्रवीण कुमार	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
640163	मावाअ	कमलेन्द्र प्रकाश	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
687069	मावाअ	लवशिनंदर कुमार शारदा	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
715121	मावाअ	अरुण कुमार	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
715291	मावाअ	ओम प्रकाश गुप्ता	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
715770	मावाअ	बिनोद प्रसाद सिंह	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
716135	मावाअ	अशोक कुमार सैनी	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
686315	मावाअ	पवन कुमार चौधरी	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
687816	मावाअ	माने संजय महादेव	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
707754	मावाअ	अजीत कुमार	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
715889	मावाअ	जोधसिंह	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
717100	मावाअ	परमानंद	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
717150	मावाअ	अमिताभ माइति	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
640194	मावाअ	अनिल कुमार	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
685616	मावाअ	वकील यादव	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
685744	मावाअ	लाल बहादुर यादव	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
685794	मावाअ	दया शंकर पाण्डेय	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
715131	मावाअ	सुशील कुमार धर दुबे	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
715881	मावाअ	महेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
716681	मावाअ	अशोक कुमार	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
685825	मावाअ	धीरेन्द्र कुमार पटेल	रेडियो टैक्नीशियन	01-मार्च-2021
719508	मावाअ	अशोक कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-दिसम्बर- 2021
718547	मावाअ	निरंजन कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
718852	मावाअ	संजीव कुमार मेहरा	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
718900	मावाअ	इंद्र देव प्रसाद	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
719299	मावाअ	राजेश कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
719312	मावाअ	अशोक कुमार भारती	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
719382	मावाअ	अनिल कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
719387	मावाअ	चंद्र शेखर पाठक	रेडियो टैक्नीशियन	01-जनवरी-2022
745920	मावाअ	सनत कार	रेडियो टैक्नीशियन	01-फरवरी-2022
745921	मावाअ	सुनील कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-फरवरी-2022
640433	मावाअ	उमेश कुमार गुप्ता	रेडियो टैक्नीशियन	01-जुलाई-2022
640622	मावाअ	अजय कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-जुलाई-2022
684634	मावाअ	प्रवीण कुमार	रेडियो टैक्नीशियन	01-जुलाई-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
685311	मावाअ	ईश्वर पाल सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
690180	मावाअ	चंद्र प्रकाश राय	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
691142	मावाअ	सरोज कुमार पंडा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
692167	मावाअ	इन्द्र पाल सिंह भदौरिया	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
706180	मावाअ	हरीश कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
716912	मावाअ	मुकेश कुमार गुप्त	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719882	मावाअ	मृणाल कांती घोष	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719934	मावाअ	धर्मवीर सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745528	मावाअ	नांगाट्टूर पिषारत्त प्रमोद	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745584	मावाअ	राकेश कुमार यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745631	मावाअ	संजीव कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
691796	मावाअ	विजय कुमार गौतम	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
745195	मावाअ	दिव्येन्दु भौमिक	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
718916	मावाअ	अरूण कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-अक्तूबर-2022
717828	मावाअ	प्रमोद कुमार सी	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
719900	मावाअ	बसंत कुमार साहु	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
745804	मावाअ	देवाशिस दास	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
699166	मावाअ	रणवीर सिंह भदौरिया	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
695263	मावाअ	चंद्र पाल सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697056	मावाअ	राम प्रकाश सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
695941	मावाअ	अरविंद कुमार	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-अक्तूबर-2022
745385	मावाअ	रविन्द्र कुमार अरोरा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मार्च-2021
717361	मावाअ	सुभाष कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-दिसम्बर- 2021
716763	मावाअ	देश राज राणा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जनवरी-2022
718049	मावाअ	चीनाथम पोयिल गिरीश कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जनवरी-2022
640047	मावाअ	छत्र पाल सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-फरवरी-2022
717450	मावाअ	विद्याधर बगडिया	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-फरवरी-2022
717305	मावाअ	मनोज कुमार बाजपेयी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मार्च-2022
718144	मावाअ	राजेश हीरा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मार्च-2022
718258	मावाअ	श्याम सुन्दर शर्मा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मार्च-2022
718119	मावाअ	संजय	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मई-2022
719737	मावाअ	अतेन्द्र कुमार तोमर	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-मई-2022
718095	मावाअ	राजेश कुमार पूनिया	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जून-2022
639903	मावाअ	पलनीराजा एन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
639958	मावाअ	शिव ओम शर्मा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640099	मावाअ	चित्रकेतु सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640102	मावाअ	दिलबाग सिंह दहिया	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640136	मावाअ	सत्यबीर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
640299	मावाअ	रमण कुमार चौधरी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640414	मावाअ	जॉन सौम्यूल	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640514	मावाअ	हरि नन्दन उपाध्याय	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640566	मावाअ	विद्या भूषण मिश्र	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640889	मावाअ	स्मरजित गुद्धाईत	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640082	मावाअ	उमेश चन्द्र ओझा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
640062	मावाअ	सुरेन्द्र कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
717335	मावाअ	कुलविन्दर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
717497	मावाअ	तुषार कान्ति चटर्जी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
718733	मावाअ	आर भारद्वाज	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
745051	मावाअ	शेखर दास	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
696648	मावाअ	अनिल कुमार सिरोही	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022
696797	मावाअ	श्री कान्त त्रिपाठी	वेपन फिटर	01-मई-2021
695734	मावाअ	जगदीश प्रसाद	वेपन फिटर	01-जून-2021
696977	मावाअ	रमेश कुमार पाण्डेय	वेपन फिटर	01-जून-2021
698809	मावाअ	शंकर सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
699325	मावाअ	राम धारी शर्मा	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
699555	मावाअ	चिदानन्द सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
730249	मावाअ	सतेंद्र कुमार अत्री	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
730440	मावाअ	सुब्रत रंजन बेहेरा	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
730812	मावाअ	सत्यवान सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
730848	मावाअ	नगेन्द्र पाल सिंह तोमर	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
731283	मावाअ	भगवान सहाय	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
699780	मावाअ	सुभाष चन्द्र शर्मा	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
699798	मावाअ	अशोक कुमार यादव	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
729249	मावाअ	प्रवीर कुमार बारिक	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
731689	मावाअ	विजय कुमार तिवारी	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
731701	मावाअ	रतन कुमार साहा	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
731756	मावाअ	संजय कुमार	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
731986	मावाअ	धर्मेन्द्र कुमार पुंडिर	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
728130	मावाअ	चित्तरंजन सिंहा	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
728138	मावाअ	सुबोध कुमार गुप्ता	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
728971	मावाअ	मुकेश कुमार राजपूत	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
729213	मावाअ	प्रमोद प्रसाद	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
732173	मावाअ	शशि भूषण प्रसाद सिंह	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
732342	मावाअ	तपन कुमार महतो	वेपन फिटर	01-मार्च-2022
728283	मावाअ	अशोक कुमार	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022
731512	मावाअ	हीरालाल सिंह	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
699162	मावाअ	विनोद कुमार बाजपेई	वेपन फिटर	01-जून-2022
728298	मावाअ	सुरेश पाल	वेपन फिटर	01-जून-2022
695069	मावाअ	राम कुमार यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696251	मावाअ	राज किशोर	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696287	मावाअ	बिधुभूषण भौमिक	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696390	मावाअ	वेद प्रकाश	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696428	मावाअ	श्याम बिहारी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697196	मावाअ	आनन्द सिंह पँवार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697225	मावाअ	अवधेश कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698529	मावाअ	एमडि रहमत एसके	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
699038	मावाअ	अमर सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
699219	मावाअ	ब्रजेश चन्द्र	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
699296	मावाअ	रामकिशोर यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
730196	मावाअ	राज कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
732383	मावाअ	वीरेन्द्र कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698313	मावाअ	महेन्द्र सिंह मोर	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
698517	मावाअ	प्रसन्न कुमार पण्डा	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
698972	मावाअ	रमेश चंद्र मिश्रा	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
699349	मावाअ	महेश बाबू	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
730045	मावाअ	गौतम कुमार पाल	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
730380	मावाअ	नरेन्द्र बघार	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
730622	मावाअ	श्यामल सामुई	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
698514	मावाअ	अजित कुमार	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
730841	मावाअ	रामदयाल सिंह	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
730993	मावाअ	चन्द्रवीर सिंह राजौरा	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
731171	मावाअ	तरजिंदर सिंह	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
699864	मावाअ	दिनेश कुमार	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
728116	मावाअ	तारकेशवर यादव	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
728158	मावाअ	रविन्द्र भारती	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
730053	मावाअ	शरत चन्द्र रणा	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
732381	मावाअ	प्रवेश कुमार तिवारी	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
733014	मावाअ	धर्म नाथ दुबे	वर्कशाप फिटर (बी)	01-जून-2021
697829	मावाअ	उपेन्द्र नाथ पाण्डेय	वर्कशाप फिटर (बी)	01-जुलाई-2022
732659	मावाअ	सुरेश मिश्रा	वर्कशाप फिटर (बी)	01-दिसम्बर-2022
697928	मावाअ	इतवारी लाल	वर्कशाप फिटर (सी)	01-जुलाई-2022
699856	मावाअ	सुनील कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-मई-2021
733506	मावाअ	अभिमन्यु घड्डेइ	वर्कशाप फिटर (एम)	01-फरवरी-2022
699788	मावाअ	अशोक कुमार तिवारी	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
678960	मावाअ	सतीश कुमार	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
679799	मावाअ	देवेश कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
732282	मावाअ	रमेश कुमार	वर्कशाप फिटर (एम)	01-सितम्बर-2022

कुल 993 (नौ सौ तिरान्वे) नाम

(जूनियर वारन्ट अफसर से मूल वारंट अफसर)

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
704347	वाअ	महताब सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	17- जून -2021
703186	वाअ	रमेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
725124	वाअ	नंद लाल यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
725635	वाअ	राजकुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
726005	वाअ	कमला कान्त पंडा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
735227	वाअ	असित भट्टाचार्जी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
702286	वाअ	ज्ञानेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
725822	वाअ	अशोक कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
726936	वाअ	सतवीर झझरिया	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
737961	वाअ	सन्तोष कुमार तरासिआ	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
738555	वाअ	सुरेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
738743	वाअ	पंकज कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
739179	वाअ	हरिओम शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
703484	वाअ	प्रणव कुमार दत्ता	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
704215	वाअ	आशिष कुमार दास	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
725589	वाअ	शिव कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
737930	वाअ	शिबेन्द्र सिंह रावत	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
694032	वाअ	भारत भूषण शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
739837	वाअ	गणेश बाबू मिश्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
640655	वाअ	सत्येन्द्र कुमार गुप्ता	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
692757	वाअ	अब्दुल मोईद अंसारी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
692858	वाअ	श्याम लाल पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693295	वाअ	सुरेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693420	वाअ	रविंद्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693433	वाअ	दलवीर सिंह तक्षक	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693701	वाअ	गुरमीत सिंह धिंगरा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693707	वाअ	रणधीर सिंह सुंडा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693795	वाअ	ऋषी पाल बंसल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693866	वाअ	सूरत सिंह कुमाई	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693867	वाअ	सेठ पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693868	वाअ	पवन कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
693873	वाअ	जिले सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694183	वाअ	प्रनव कुमार सरकार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
694211	वाअ	सन्तोष कुमार बेहेरा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694581	वाअ	कृपा शंकर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694584	वाअ	सुरेश चन्द्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694667	वाअ	रामन उमाशंकर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700108	वाअ	सत्य पाल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700110	वाअ	राजेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700112	वाअ	धनवीर सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700353	वाअ	दिनेश प्रसाद सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700396	वाअ	स्वपन कुमार बनर्जी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700469	वाअ	मेहरा राम चौधरी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700576	वाअ	विजय कुमार गोयल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700607	वाअ	आनंद सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700608	वाअ	अजय पाल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700619	वाअ	रोहतास	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700625	वाअ	अजमेर सिंह नरवाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700730	वाअ	कन्हैया प्रसाद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700829	वाअ	बलराम मण्डल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700833	वाअ	अरूण कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700893	वाअ	महेंद्र सिंह डाबर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700993	वाअ	महेन्द्र सिंह छौक्कर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701290	वाअ	रणजीत साह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701306	वाअ	जयराम सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701383	वाअ	नरेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701424	वाअ	पदम सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701524	वाअ	राजकुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701570	वाअ	प्रनब चन्द्र देव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701590	वाअ	कृत्तिबास घोष	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701591	वाअ	स्वपन सेन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701598	वाअ	निर्माल्या बल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701599	वाअ	असित कुमार सरकार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701610	वाअ	उदय वीर सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702132	वाअ	रमेश चन्द्र दुबे	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702138	वाअ	अशोक कुमार केशरी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702442	वाअ	उदयकुमार करेप्पा चंदरगि	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703001	वाअ	मुख्यार सिंह यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703017	वाअ	सोहन सिंह यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703019	वाअ	रोहतास कुमार जड़वाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703277	वाअ	महेश्वरी प्रसाद यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703280	वाअ	सचिदा नंदा सिंघा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703582	वाअ	बासु देब मोदक	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
704413	वाअ	राजकपूर सिवाच	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
706585	वाअ	दलवीर सिंह संधू	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
721593	वाअ	सतीश कुमार चिकारा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
722209	वाअ	सुभाष चंद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
722212	वाअ	राजेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
725176	वाअ	प्रभात कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
725301	वाअ	नरेन्द्र कुमार दहिया	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726003	वाअ	शान्तनु कुमार मोहान्ति	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726077	वाअ	नव कुमार ब्रह्म	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726775	वाअ	तीर्थ कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726929	वाअ	गोपि चन्द खोहाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
727079	वाअ	शैबाल चक्रवर्ती	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
727226	वाअ	सुरेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736136	वाअ	संजय कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736808	वाअ	कैलाश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737038	वाअ	अरविन्द कुमार तिवारी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737457	वाअ	संजय पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737957	वाअ	रियाजुद्दीन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
738742	वाअ	धर्मेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739002	वाअ	अंजन कुमार गंतायत	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739205	वाअ	मूलेकाट्टु वेणु गिरीश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
692668	वाअ	शेरा सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
694508	वाअ	शिवकरण चौधरी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
701292	वाअ	प्रशांत प्रियदर्शी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
701738	वाअ	देवेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
701941	वाअ	जी राम जरोरा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
703275	वाअ	मो शफीक खान	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
704352	वाअ	वृज राज सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
725333	वाअ	नत्थन लाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
725868	वाअ	परमानंद सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
726345	वाअ	मगन सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
726925	वाअ	रोहिताश सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
736803	वाअ	दिवाकर पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
737104	वाअ	रंजय कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
739019	वाअ	रणजीत सिंह राणा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	12-सितम्बर-2022
703576	वाअ	नव रतन सिंह पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
725467	वाअ	प्रदीप मुखर्जी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
735093	वाअ	विमल थोमस	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
736138	वाअ	नवीन सिंह सैनी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
736503	वाअ	ओम प्रकाश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
738741	वाअ	मंगत सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
738744	वाअ	उपेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
739583	वाअ	धर्मेन्द्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्तूबर-2022
704941	वाअ	धर्मवीर मुदगिल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
737963	वाअ	शत्रुघ्न कुमार मौर्य	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
738324	वाअ	अशोक सिंह राठौड़	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
738566	वाअ	महताब आलम	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
739021	वाअ	अशोक कुमार साह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
739840	वाअ	आनंद यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
770372	वाअ	अनुराग शुक्ल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
770602	वाअ	विजय पाल सिंह रावत	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
770820	वाअ	सुमनीत सिंह जम्वाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
770824	वाअ	जय प्रकाश मिश्रा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
725871	वाअ	विजय कुमार कुँवर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
739199	वाअ	संग्राम केशरी बेहेरा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
739370	वाअ	शुभाशीष मुखोपाध्याय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
739827	वाअ	गजेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
770109	वाअ	दिनेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
770121	वाअ	धर्मेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
770359	वाअ	राजीव कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
770384	वाअ	शमशेर सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
741010	वाअ	संजीव कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
741044	वाअ	राजपाल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
741047	वाअ	सुरेंद्र कुमार यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
741053	वाअ	संजय कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
741478	वाअ	वरिंदर सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-फरवरी-2022
707887	वाअ	शम्भू नाथ यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
708227	वाअ	राम भजन यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
709310	वाअ	दिनेश कुमार शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
707879	वाअ	विजय कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
716165	वाअ	सुनील कुमार शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
717125	वाअ	मनोज कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
740304	वाअ	ओम प्रकाश	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
740924	वाअ	प्रमोद कुमार प्रधान	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
708555	वाअ	सुरेश कुमार एम पी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	30-जून-2022
686989	वाअ	बच्चन मिश्र	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687056	वाअ	अवधेश कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687356	वाअ	श्याम नन्दन साव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687569	वाअ	बाइधर सामल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
706106	वाअ	गिरीश प्रसाद	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707017	वाअ	प्रफुल्ल चन्द्र दे	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707324	वाअ	श्याम कृष्णा अवस्थी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
707471	वाअ	राजीव कुमार वशिष्ठ	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
707888	वाअ	राम यत्न प्रसाद	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
708016	वाअ	मिहिर कुमार साहु	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
708333	वाअ	राजबीर सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
708666	वाअ	अनिल कुमार सी जी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
716148	वाअ	विजय कुमार दीक्षित	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
716469	वाअ	सुनील कुमार राय	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
716893	वाअ	लालजी हरिजन	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
716964	वाअ	सतेन्द्र कुमार मलिक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
717276	वाअ	सच्चिदानन्द सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
740239	वाअ	सुप्रिय बनर्जी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
740453	वाअ	कुलजीत सिंह दलाल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
740658	वाअ	प्रहलाद मंगल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
687019	वाअ	संजय कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
709366	वाअ	पबित्र सैकिया	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
740262	वाअ	सर्वेन्द्र कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
740332	वाअ	दिनेश कुमार यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
740347	वाअ	श्रीराम यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
740370	वाअ	दीपक कुमार श्रीवास्तव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
708752	वाअ	बालगोविन्द प्रसाद	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-सितम्बर-2022
740560	वाअ	स्वामीनाथ यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-सितम्बर-2022
716487	वाअ	शिवनाथ सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
740654	वाअ	शैलेश कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
740716	वाअ	श्रवण कुमार चौहान	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
740876	वाअ	राकेश कुमार मिश्र	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
740702	वाअ	शशि कान्त राय	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
740916	वाअ	राजेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-दिसम्बर-2022
766485	वाअ	मकसुद आलम	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2021
768927	वाअ	अनन्त कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-अक्तूबर-2021
769162	वाअ	मुक्तेश्वर जेना	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
769445	वाअ	आत्मानन्द चौबे	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
769459	वाअ	जय प्रकाश नारायण	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
769470	वाअ	शैलेन्द्र कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
769769	वाअ	सुमेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
775061	वाअ	सुरेश कुमार झा	एयर फ्रेम फिटर	01-जनवरी-2022
695160	वाअ	उमा शंकर	एयर फ्रेम फिटर	01-फरवरी-2022
768940	वाअ	संजीव कुमार झा	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
769135	वाअ	राम कृपाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
769179	वाअ	राधे श्याम पान्डेय	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
769453	वाअ	ललित किशोर सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
769772	वाअ	हरेन्द्र कुमार शर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-अप्रैल-2022
679176	वाअ	अजीत सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-फरवरी-2022



सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
721075	वाअ	मोहम्मद नसरुद्दीन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
734010	वाअ	हरीश कुमार आर्य	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
696640	वाअ	सुरेन्द्र पाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जून-2022
679072	वाअ	सुभाष चन्द्र	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679453	वाअ	फूल सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679571	वाअ	सुरेंद्र सिंह ढाका	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679702	वाअ	राजेन्द्र कुमार शर्मा	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679829	वाअ	सत्येन्द्र कुमार सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
694363	वाअ	रघुवीर सिंह सैनी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695022	वाअ	कुलदीप सिंह गिल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695119	वाअ	करन सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695791	वाअ	दिनेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
695873	वाअ	अरुण यादव	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696087	वाअ	मिश्री लाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696229	वाअ	रणजीत कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696328	वाअ	राजेश कुमार गुप्ता	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696478	वाअ	जसवीर सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696623	वाअ	सुनीन्द्र सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696634	वाअ	रणधीर सिंह गोछवाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696675	वाअ	हरि नन्दन हरिऔध	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
696678	वाअ	संतोष कुमार सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
697123	वाअ	सत्यव्रत सामन्ता	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
697124	वाअ	प्रदीप कुमार मण्डल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
698043	वाअ	रमेश कुमार श्रीवास्तव	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
698351	वाअ	सुशील कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
699714	वाअ	गोवर्द्धन सिंह नथावत	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
720448	वाअ	सुरेन्द्र शाह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
731286	वाअ	ज्ञानेन्द्र सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
731505	वाअ	सुवब्रत घोष	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
733308	वाअ	चन्द्र शेखर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
733385	वाअ	शिव नारायण गुप्ता	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
733481	वाअ	इन्दु भूषण त्रिपाठी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
734004	वाअ	नरेन्द्र पाल सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
679548	वाअ	अरूण कुमार गुप्ता	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
695911	वाअ	वृजेश राय	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
696680	वाअ	राम भरत प्रसाद	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
699612	वाअ	हरभजन सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
720757	वाअ	अन्टोनी जार्ज	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
733380	वाअ	वीरेन्द्र राय	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
698524	वाअ	क्षीरोद कुमार पाण्डा	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
699715	वाअ	सुरेंद्र कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
705040	वाअ	मोल्ला बाबर अली	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
730324	वाअ	कमलेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
730987	वाअ	अनिल कुमार शर्मा	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
731642	वाअ	काना राम	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
733307	वाअ	राजेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
733477	वाअ	उमा कान्त मंडल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
733483	वाअ	बच्चू सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
733819	वाअ	योगेन्द्र सिंह यादव	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
696230	वाअ	हंसराज सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	28-अक्तूबर-2022
734373	वाअ	बलराम सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
785126	वाअ	महानंद गोप	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
785138	वाअ	सन्तोष टी के	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
785376	वाअ	रेमण्ड एन जे	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
692868	वाअ	राम नगीना राम	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694096	वाअ	सिराजुद्दीन काठीवाल	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700117	वाअ	ब्रह्मपाल सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700330	वाअ	रामानंद यादव	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701186	वाअ	ओम प्रकाश खर्ब	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701293	वाअ	भीम प्रसाद सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701566	वाअ	नरेंद्र प्रसाद राय	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701572	वाअ	पराण कुमार डेका	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701605	वाअ	दीपक चक्रवर्ती	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701607	वाअ	सुनील कुमार पाल	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
704785	वाअ	अजय कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
720064	वाअ	राज किशोर सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725763	वाअ	प्रदीप कुमार त्यागी	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
726097	वाअ	जितेन्द्र नाथ धनी	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
736458	वाअ	नन्द किशोर पति	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701503	वाअ	देवानन्द मिश्रा	केटरिंग असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703942	वाअ	हरनाम सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
726333	वाअ	शैलेश कुमार आर	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
728262	वाअ	उमा शंकर सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
700248	वाअ	उदय चन्द्र दास	केटरिंग असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
702407	वाअ	राम किशोर	केटरिंग असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
704222	वाअ	मानवेन्द्र नाथ	केटरिंग असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
725654	वाअ	दलबीर सिंह चौहान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जनवरी-2022
729560	वाअ	नबाब खान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जनवरी-2022
736251	वाअ	मुकेश चन्द कौशिक	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
736847	वाअ	रूपेश गुप्ता	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
739707	वाअ	दुर्गेश कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
772106	वाअ	संजीव त्यागी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
675332	वाअ	ज्ञानदेव यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
692200	वाअ	मनोज कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
692287	वाअ	विनोद कुमार श्यौरान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
692344	वाअ	उमाशंकर विश्वकर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693040	वाअ	रघु नाथ महन्ता	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693129	वाअ	ओम प्रकाश	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693214	वाअ	गुरमेल सिंह बेदी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693233	वाअ	गोपाल वर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693556	वाअ	विवेका नन्द सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693743	वाअ	दीवान सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693880	वाअ	चंद्रपाल सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694022	वाअ	राकेश कुमार अवस्थी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694193	वाअ	अरविन्द पात्रा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694407	वाअ	दलबीर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694494	वाअ	धनराज सारण	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694529	वाअ	सुरेश सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694533	वाअ	अवधेश कुमार त्रिवेदी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694543	वाअ	प्रितपाल सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694812	वाअ	मोहम्मद अख्तर हुसैन	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694907	वाअ	अजीत कुमार दूबे	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
698530	वाअ	गौतम दे	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700278	वाअ	तारापद साउ	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700280	वाअ	ब्रज बल्लव गंगोपाध्याय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700311	वाअ	गोपाल कृष्ण दीक्षित	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700366	वाअ	शशीकुमार बसवराजप्पा बालुर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700432	वाअ	राजेंद्र सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700450	वाअ	दिनेश प्रसाद राय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700741	वाअ	मो: आबिद होसैन	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700982	वाअ	जगदीश लाल गिल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701135	वाअ	प्रभाकर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701141	वाअ	दया चंद हरित	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701269	वाअ	रणबिजय प्रसाद	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701275	वाअ	संजय कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
701357	वाअ	अक्षय थापा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703045	वाअ	राजकुमार सैनी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703195	वाअ	आशीष कुमार सरकार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
704134	वाअ	मोर्तेज अलि मल्लिक	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
704623	वाअ	बलेन्द्र कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
726622	वाअ	सुशील कुमार बख्शी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
726699	वाअ	नारायण हरी अग्रवाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
729688	वाअ	अमरीश कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
732268	वाअ	हीरेकर महेष कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
735083	वाअ	जाफर शरीफ एस	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
735250	वाअ	राकेश राणा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
693632	वाअ	राम बालक पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
701522	वाअ	वीरपाल सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
704460	वाअ	हिमांशु पटेल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
737464	वाअ	चत्तर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
702804	वाअ	राजेश कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
703613	वाअ	श्रीनिवास अजी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
726486	वाअ	श्री रघूनाथ जेना	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
725322	वाअ	घनश्याम गौतम	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
739415	वाअ	बिनोद कुमार पाठक	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
739953	वाअ	बिपिन चन्द्र पण्डा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
770478	वाअ	प्रेम कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
693578	वाअ	मुकेश कौशिक	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
694455	वाअ	बीरेन्द्र सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
700304	वाअ	बद्री प्रसाद मिश्र	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
701238	वाअ	राकेश रंजन राय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
702995	वाअ	ओमदत्त शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
704901	वाअ	ओमपाल सिंह श्यौरान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
727186	वाअ	रामकिशन यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
729668	वाअ	अनिल कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
729681	वाअ	दिनेश कुमार सक्सेना	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
729684	वाअ	अशोक कुमार खत्री	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
735080	वाअ	राकेश शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
735712	वाअ	तनोज कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
735713	वाअ	सुभाष चन्द्र	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
738027	वाअ	जगदीश प्रसाद जाट	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
739055	वाअ	शिव कुमार वर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
770454	वाअ	संजीव कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
770463	वाअ	माहोम्द् रिज़वान सिद्धीकी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
770925	वाअ	जय शंकर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2021
735709	वाअ	रामनिवास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जनवरी-2022
736603	वाअ	मधुसूदन दास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जनवरी-2022
729600	वाअ	सुनील गिरी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
737194	वाअ	संजीव कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
737197	वाअ	संजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
737520	वाअ	महेश	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
739269	वाअ	राज कुमार दुबे	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
739496	वाअ	अनिल विश्वमभरन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
739637	वाअ	मनीष कुमार दुबे	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
727402	वाअ	राम मिलन सिंह यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
735756	वाअ	दिलीप कुमार झा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
738254	वाअ	रविकान्त सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
739627	वाअ	सुनील कुमार यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
735215	वाअ	अर्नब घोष	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
735627	वाअ	सुखपाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
736514	वाअ	संजय कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
736909	वाअ	पवन कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
738644	वाअ	चंचल कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
738865	वाअ	कविन्द्र नाथ यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
739095	वाअ	अरुण कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
738902	वाअ	मुकेश कुमार उपाध्याय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
729632	वाअ	सुदेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
693211	वाअ	हनुमान दास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
693232	वाअ	कृष्ण कुमार बानी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
693353	वाअ	अलोप्यस नेल्सन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
693971	वाअ	महेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694305	वाअ	नुपुर साहा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694413	वाअ	रोशन लाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694414	वाअ	अरविन्द कुमार वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694740	वाअ	रमेश चन्द्र मोहन्ति	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694796	वाअ	अशोक कुमार राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
694840	वाअ	संजय कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700046	वाअ	विष्णु कान्त	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700049	वाअ	सलाहुद्दीन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700135	वाअ	अब्दुल बारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700206	वाअ	बीरेन्द्र प्रसाद	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700276	वाअ	अरुण कुमार माजी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700569	वाअ	वेद प्रकाश आर्य	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700641	वाअ	गौतम राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700661	वाअ	जयन्त चटर्जी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700732	वाअ	अमरेन्द्र शाह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700881	वाअ	अश्विनी कुमार मोहन्ता	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700957	वाअ	चन्द्र भवन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
700964	वाअ	राघवेन्द्र मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701226	वाअ	अजय कुमार जिपाठी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701247	वाअ	सत्य नारायण प्रसाद	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701398	वाअ	सन्दीप भट्टाचार्जी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701509	वाअ	योगेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701899	वाअ	महादेव गाँताइत	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
702148	वाअ	विनय कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
702190	वाअ	कृष्णेन्दु दास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
702420	वाअ	चितरंजन प्रसाद सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
702757	वाअ	वासुदेवा कुरुप रमेश बाबु	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703138	वाअ	हीरा सिंह पाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703143	वाअ	अशोक कुमार पवार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703232	वाअ	मोहम्मद शहाबुद्दीन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703500	वाअ	होशियार यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703701	वाअ	लोक प्रिय नाथ	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703832	वाअ	संदीप चट्टोपाध्याय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
703844	वाअ	उत्तम कुमार बोस	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
725704	वाअ	समीर कुमार लाहा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
726382	वाअ	अशोक कुमार श्यौरान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
726517	वाअ	राज कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
726884	वाअ	सिकन्दर सिंह यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
727343	वाअ	अशोक कुमार चौहान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
727842	वाअ	रोहित सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
727850	वाअ	प्रदीप कुमार के	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
735112	वाअ	सुरेन्द्र कुमार सिंह यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
735757	वाअ	राजेश कुमार शरण	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
736516	वाअ	संजीव कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
736938	वाअ	विनय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
737246	वाअ	हरीश उपाध्याय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
738090	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
738691	वाअ	विजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
725264	वाअ	असीम कुमार घोष	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
726686	वाअ	सतीश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
728585	वाअ	लालबाबू	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
729007	वाअ	पुलक घोष	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
729490	वाअ	देवेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
736546	वाअ	पवन कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
770180	वाअ	हरीश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
701418	वाअ	जगदीश चन्द्र मालाकार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
703695	वाअ	महाशय तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
704464	वाअ	अशोक कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
727687	वाअ	चन्द्र बोस राजौरा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
728368	वाअ	फूलसिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
729595	वाअ	विनीत शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
737200	वाअ	जितेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
737506	वाअ	श्रीराम सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
737807	वाअ	राजेश शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
739914	वाअ	हरीश दूबे	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
770673	वाअ	रविन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
726634	वाअ	गिरधर शमो	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
736344	वाअ	नितिन काम्बोज	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
736543	वाअ	देवेंद्र कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
736912	वाअ	प्रत्युष कुमार श्रीवास्तव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
736932	वाअ	सुधीर कुमार शुक्ल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
737500	वाअ	बिमल सोनार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
737851	वाअ	जीवन सिंह पँवार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
738051	वाअ	विनोद कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
738238	वाअ	सजू वेलायुधन नायर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
770162	वाअ	चन्द्रकान्त दाश	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
704610	वाअ	नवीन कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
738050	वाअ	यश पाल सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
738056	वाअ	करमजीत सिंह धालीवाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
738431	वाअ	अभिजीत कुमार कर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
770389	वाअ	संजय यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
738054	वाअ	सर्वेश कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
739282	वाअ	फिरोज खान	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
739110	वाअ	देव नन्दन कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
739283	वाअ	राजीव शर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
748264	वाअ	अजीत	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
772389	वाअ	पाटील नितिन यशवंत	क्रिप्टोग्राफर	01-फरवरी-2022
772701	वाअ	दीपक कुमार भारद्वाज	क्रिप्टोग्राफर	01-मार्च-2022
774226	वाअ	पवन सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-मई-2022
770158	वाअ	देश राज राणा	क्रिप्टोग्राफर	01-जून-2022
715247	वाअ	सुब्रत पाण्डेय	क्रिप्टोग्राफर	01-अगस्त-2022
703238	वाअ	सतेन्द्र कुमार पांडेय	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
727315	वाअ	हरी बाबू शर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
725698	वाअ	अक्षय कुमार महापात्र	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
727604	वाअ	क्षेत्रवासी राउल	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
746470	वाअ	अरविन्द कुमार सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-दिसम्बर-2022
746471	वाअ	सत्य राम यादव	क्रिप्टोग्राफर	01-दिसम्बर-2022
904249	वाअ	सुनील कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
905796	वाअ	देवराज बैनर्जी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
905804	वाअ	अजय सिंह राजपुरोहित	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
918848	वाअ	मनीष शर्मा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
918857	वाअ	ओंकार अमृत जेना	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जनवरी-2022
904255	वाअ	नरेश कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-फरवरी-2022
918847	वाअ	आशीष मनकोटिया	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-फरवरी-2022
901452	वाअ	शिवदास एस	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
918850	वाअ	एस के ताजुद्दीन	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
920284	वाअ	निरंजन पात्र	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
902007	वाअ	अरविंद शर्मा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902014	वाअ	मीनकेतन नाहाक	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902983	वाअ	राकेश कुमार गुप्ता	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
905802	वाअ	विकास यादव	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902026	वाअ	कुमार जयदिप्ता मिश्र	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
918856	वाअ	गौरव कुमार सिंह	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
902024	वाअ	सूरज कुमार पी एन	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अक्तूबर-2022
902995	वाअ	संजय कुमार साहु	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अक्तूबर-2022
904245	वाअ	विपिन कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-अक्तूबर-2022
761045	वाअ	लक्ष्मीकान्त जेना	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2021
762548	वाअ	प्रमोद कुमार सावत	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-फरवरी-2022
687836	वाअ	मोहनन सी वी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
688743	वाअ	सुमेर सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
705383	वाअ	योगेन्द्र कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
709599	वाअ	सुबोध कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
761030	वाअ	दशरथ चौहान	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
761754	वाअ	कन्नू प्रसाद त्यागी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जून-2022
640181	वाअ	सुरेन्द्र बाबू तिवारी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
640506	वाअ	सुनील कुमार मिश्र	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
640625	वाअ	रणजीत पंडित	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
640857	वाअ	शिव प्रकाश यादव	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685067	वाअ	अशोक कुमार कौशिक	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685152	वाअ	सर्वेश कुमार मिश्र	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685438	वाअ	अवधेश कुमार पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685614	वाअ	भागीरथ शर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685623	वाअ	नागेन्द्र साहु	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685760	वाअ	पंचानन उपाध्याय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685875	वाअ	घनश्याम कुशवाहा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686199	वाअ	राम विलास साहु	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686467	वाअ	रजत कान्ति घोष	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686527	वाअ	देवज्योति गांगुली	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686649	वाअ	ललित मोहन सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686822	वाअ	शुभाशिस गंगोपाध्याय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
686962	वाअ	उपेन्द्र सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
687018	वाअ	अशोक कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
687050	वाअ	प्रवीण कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
687506	वाअ	अखिलेश कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
688632	वाअ	शशि कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
688759	वाअ	अवनीश कुमार चौहान	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
688874	वाअ	श्याम किशोर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022



सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
688877	वाअ	शिव कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
689095	वाअ	राकेश कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
689556	वाअ	रामवेन्द्र कुमार वर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
689728	वाअ	निरंजन अ न	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
690915	वाअ	नन्दन सिंह बिष्ट	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691328	वाअ	दर्शन कुमार बजाज	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
691697	वाअ	कृष्णा मुरारी प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
692028	वाअ	चन्द्र प्रकाश यादव	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
705728	वाअ	इरफान अली	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
706872	वाअ	रोमाला हनुमंत राव	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
707635	वाअ	नरहरि संखुआ	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
707673	वाअ	भानु कुमार जेना	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
709603	वाअ	राजीव रंजन	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
715153	वाअ	अखिलेश कुमार झा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
716918	वाअ	राशिद अली	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
717172	वाअ	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
717694	वाअ	जनेश्वर प्रसाद सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
760124	वाअ	शेख कलाम	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
760167	वाअ	मनोज कुमार झा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
760417	वाअ	मुकेश कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
760462	वाअ	स्मृति रंजन दास	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
760486	वाअ	हरि नारायण पान्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
761295	वाअ	बलराज	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
761336	वाअ	राकेश कुमार विश्वाई	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
761631	वाअ	विजय कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
761691	वाअ	चन्द्र भुषण सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
761939	वाअ	सोम नथ मोंदल	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
685016	वाअ	सुरेश सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
687119	वाअ	राजेश सैनी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
688883	वाअ	राजेश कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
689717	वाअ	जय प्रकाश सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
690129	वाअ	मनमोहन सिंह चट्टा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
691808	वाअ	कृष्णवीर सिंह बोहरा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
707514	वाअ	सुखविन्दर जीत कुमार सिद्धू	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
709424	वाअ	संजीत कुमार श्रीवास्तवा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
709600	वाअ	चन्द्र शेखर पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
760062	वाअ	मनोज कुमार मिश्र	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
760106	वाअ	जगदीप सिंह राजपूत	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
760528	वाअ	प्रदीप कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
761418	वाअ	दयाशंकर साहू	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
761849	वाअ	महेन्द्र कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
761947	वाअ	सुजीत कुमार साउ	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
762269	वाअ	संजय कुमार महान्ता	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
762283	वाअ	संजय कुमार शर्मा	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
762620	वाअ	सन्तोष घोष	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
763094	वाअ	सत्य नारायण जांगिड	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
761778	वाअ	हरि प्रसाद सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
761787	वाअ	परीक्षित कुमार मंडल	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
762043	वाअ	यदुनाथ पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
762050	वाअ	प्रीतम सिंह पूनिया	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
762309	वाअ	विनय कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
763130	वाअ	सुजीत कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
763197	वाअ	प्रदीप कुमार सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अक्तूबर-2022
687959	वाअ	खायरुल चाँद मोलला	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
760624	वाअ	शिव नाथ	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
761022	वाअ	वृज नाथ प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
762290	वाअ	संजय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
762336	वाअ	रमेश कुमार पासी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
763231	वाअ	गोपाल प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-नवम्बर-2022
766219	वाअ	चन्द्रशेखर डी कोली	इंजन फिटर	01-सितम्बर-2021
766975	वाअ	विवेका मणि त्रिपाठी	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2021
767715	वाअ	रजनीश कुमार गुप्ता	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2021
767747	वाअ	मिथिलेश कुमार तिवारी	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2021
767762	वाअ	सिकन्दर ठाकुर	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
767978	वाअ	केआर चंद्रशेखर रेड्डी	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
767996	वाअ	बलराम पंडित	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768008	वाअ	मनोज कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768019	वाअ	संदीप कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768325	वाअ	प्रदीप कुमार व्यास	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768348	वाअ	प्रभात कुमार गुप्ता	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768351	वाअ	शिव पाल सिंह	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768353	वाअ	शेख सुबानी	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768635	वाअ	आशुतोष कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768769	वाअ	सुशील कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768798	वाअ	गवांदे सुनील केशव	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768836	वाअ	मिथिलेश कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
768849	वाअ	ब्रजेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	01-जनवरी-2022
766231	वाअ	कृष्ण चन्द्र बारिक	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
768244	वाअ	नरेन्द्र कुमार झा	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
768295	वाअ	उमेश प्रसाद	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769500	वाअ	अशोक मुखोपाध्याय	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769558	वाअ	संजीव कुमार चुट्टानी	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
769568	वाअ	राम भरोसा तिवारी	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769615	वाअ	सर्जय कुमार जायसवाल	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769638	वाअ	श्रीराम	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769829	वाअ	योगेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
769835	वाअ	शी कार्तिकेयन	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
775173	वाअ	सौरभ कुमार	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
775183	वाअ	राकेश कुमार	इंजन फिटर	01-फरवरी-2022
775143	वाअ	नम्बी राज के	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
775153	वाअ	अशोक कुमार दास	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
775155	वाअ	दीपक कुमार शुक्ल	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
775178	वाअ	दीपक कुमार	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
775210	वाअ	मनोज कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
775245	वाअ	तगाराम सुथार	इंजन फिटर	01-मार्च-2022
766333	वाअ	प्रमोद कुमार	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
769684	वाअ	विपिन बिहारी सिंह	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
769864	वाअ	भूपेत कटा	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
769880	वाअ	संजय कुमार मल्लिक	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
769913	वाअ	पार्थ सारथी झा	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
775163	वाअ	दिवाकर कुमार	इंजन फिटर	01-अप्रैल-2022
769519	वाअ	दिनेश कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-मई-2022
767047	वाअ	भुटेली प्रसाद	इंजन फिटर	01-जून-2022
775199	वाअ	अरूण कुमार	इंजन फिटर	01-जून-2022
768955	वाअ	जिया उद्दीन	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
768974	वाअ	कमलेश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
768985	वाअ	मुकेश कुमार शर्मा	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
768987	वाअ	पदीप कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
769009	वाअ	गोरख नाथ पंडित	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
769025	वाअ	छोटे लाल	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
769292	वाअ	रवि रंजन	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
766598	वाअ	प्रमोद कुमार तिवारी	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
768968	वाअ	कमला कान्त मिश्रा	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
768997	वाअ	मणि भूषण मन्डू	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
769287	वाअ	संजीत कुमार साह	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
769534	वाअ	वीरेंद्र प्रताप सिंह	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
769577	वाअ	गजेन्द्र कुमार वर्मा	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775511	वाअ	अजीत कुमार	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775551	वाअ	मनोज कुमार ठाकुर	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775573	वाअ	संजय कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775651	वाअ	हरि चंद्रा प्रसाद के	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775807	वाअ	प्रसन्न कुमार जेना	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775871	वाअ	प्रवेश कुमार	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
775947	वाअ	अशोक कुमार	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
775526	वाअ	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	इंजन फिटर	01-सितम्बर-2022
775553	वाअ	विजय प्रताप	इंजन फिटर	01-सितम्बर-2022
769257	वाअ	ओमप्रकाश विश्वोई	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775635	वाअ	राकेश कुमार गौरव	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775637	वाअ	राम अनुज कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775794	वाअ	रंजीत कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775803	वाअ	सत्येन्द्र कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775842	वाअ	देवचन्द्र कुमार भारती	इंजन फिटर	01-नवम्बर-2022
775831	वाअ	राजेन्द्र पाल सिंह	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
775885	वाअ	जनारदन यादव	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
775934	वाअ	अखिलेश कुमार	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
775937	वाअ	राकेश रौशन	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
776245	वाअ	जीतेन्द्र सिंह यादव	इंजन फिटर	01-दिसम्बर-2022
728803	वाअ	प्रकाश चंद्र लेंका	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
736270	वाअ	महावीर सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
738173	वाअ	मनोज कुमार गुप्ता	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
739721	वाअ	सन्तोष ए के	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
725897	वाअ	जहन सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
726838	वाअ	बिकाश चंद्रा मण्डल	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
735156	वाअ	दिदारी कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
735690	वाअ	जयदेव सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
736969	वाअ	भीमलाल शर्मा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
736984	वाअ	सन्तोष प्रसाद	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
737629	वाअ	गजेन्द्र सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
739731	वाअ	रबींद्र नाथ सेण	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
770269	वाअ	बलजीत सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
736974	वाअ	जसवन्त सिंह यादव	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
770060	वाअ	राजेन्द्र सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
772146	वाअ	अजय कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
772472	वाअ	कुमुद रंजन	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
726105	वाअ	रघुवीर चंद	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
728802	वाअ	अक्षय कुमार सतपथी	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
692260	वाअ	प्रदीप कुमार भारद्वाज	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692537	वाअ	तपन कुमार दत्ता	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692617	वाअ	शिव बाबु यादव	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692629	वाअ	सत्य प्रकाश शुक्ला	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692640	वाअ	सिद्धेश्वर उपाध्याय	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692641	वाअ	राकेश कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
692918	वाअ	श्यामसुन्दर प्रसाद यादव	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693273	वाअ	जगजीत सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
693328	वाअ	भगत सिंह वर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693398	वाअ	साधु राम	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693549	वाअ	राम कुमार साह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693550	वाअ	स्वपन कुमार भद्र	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693626	वाअ	सरोज कुमार कमल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693940	वाअ	गोपाल कृष्ण	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693999	वाअ	रणधीर सिंह यादव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694006	वाअ	शिव प्रकाश पाण्डेय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694045	वाअ	वृजेश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694078	वाअ	नरेन्द्र पाल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694200	वाअ	उमा शंकर चक्रवर्ती	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694220	वाअ	रमेश कुमार राय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694286	वाअ	बेबी टि वि	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694433	वाअ	सत्यबीर सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694474	वाअ	मदन सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694817	वाअ	ब्रज भूषण ठाकुर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694969	वाअ	श्री महेश्वर कोच	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
695702	वाअ	सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
696756	वाअ	जसवन्त सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
698417	वाअ	सुनित कुमार सिन्हा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700255	वाअ	वीधान विसवास	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700339	वाअ	जय शंकर पाण्डेय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700557	वाअ	सुरेंद्र सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700597	वाअ	कुन्टा नरसिंह रेड्डि	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700700	वाअ	नन्दन कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700709	वाअ	विष्णु देव मंडल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700769	वाअ	अब्दुल अलिम मोंडल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701065	वाअ	अशोक कुमार सरोहा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701073	वाअ	महेश चन्द	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701083	वाअ	कृष्ण कुमार वर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701143	वाअ	संजीव कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701147	वाअ	राजपाल पूनिया	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701148	वाअ	हरकेश सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701287	वाअ	विश्व नाथ भक्त	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701515	वाअ	आदित्य कुमार पथरिया	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701711	वाअ	हरीश चंद्र	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
701921	वाअ	रविनन्दन शाही	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
702306	वाअ	ऋषि पाल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
702544	वाअ	जगदीप सिंह बैनीवाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
702746	वाअ	नारायण गौड	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
702915	वाअ	सतीश कुमार गौड	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
703364	वाअ	परशुराम राय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
703471	वाअ	अरूण कुमार त्रिपाठी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
703777	वाअ	अनिल कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
704277	वाअ	सोमदत्त बंसल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
704886	वाअ	जय प्रकाश प्रसाद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725123	वाअ	देव कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725133	वाअ	सतबीर सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725568	वाअ	राजबीर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725665	वाअ	शब्बीर हसन	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
726047	वाअ	रमेश यादव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
726713	वाअ	आनन्द कुमार चाँदवाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
726806	वाअ	उमेश्वर गिरि	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
727700	वाअ	राजेश्वर सिंह राणा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
728464	वाअ	सतीश कुमार चौहान	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
735063	वाअ	राजेन्द्र सिंह नयाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
693997	वाअ	योगेश कुमार मिश्रा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
700263	वाअ	शैख इद्रिश	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
700947	वाअ	भोला प्रसाद उपाध्याय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
701470	वाअ	हरिकुमार टी सी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703161	वाअ	अनिल कुमार गुप्ता	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703768	वाअ	विकास चंद्र मिश्रा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703819	वाअ	प्रहलाद सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
704818	वाअ	जर्नेल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
727156	वाअ	आर बालु	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
727673	वाअ	दीप सिंह शेखावत	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
703057	वाअ	सुदर्शन शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	05-अगस्त-2022
703247	वाअ	बिनोद कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
704236	वाअ	महीपाल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
704382	वाअ	देवेन्द्र धनकड़	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
727712	वाअ	सजीव कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
729334	वाअ	एन उन्नीपिल्लै	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
735123	वाअ	कृष्ण	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
725065	वाअ	विजय प्रसाद नौनी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
725941	वाअ	विनोद कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
726136	वाअ	राज नरेन्द्र सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
726194	वाअ	अरुण कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
726707	वाअ	दुवेश कुमार ओझा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
735154	वाअ	कुल्वर सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
737020	वाअ	राय सुभाष	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
770965	वाअ	विकास कौल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
704059	वाअ	अरूण कुमार शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
704665	वाअ	परिमल कुमार विश्ववास	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
704877	वाअ	शोराज सिंह खोखर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
725018	वाअ	श्याम सुन्दर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
725309	वाअ	विरेन्द्र सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
725935	वाअ	मुनि कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
728532	वाअ	राजेश कुमार नरवान	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
728778	वाअ	सुशान्त गुईन	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
736449	वाअ	कलीम अहेमद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
738940	वाअ	अशोक कुमार राघव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
739720	वाअ	हेमन्त कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
693888	वाअ	सतेन्द्र पाल सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
693890	वाअ	संजय कुमार चट्टा	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
694024	वाअ	श्याम मोहन शर्मा	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
694026	वाअ	राज नारायण सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
704833	वाअ	शाम कुमार सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
693715	वाअ	असीम कुमार दे	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
736525	वाअ	उपेन्द्र सिंह खरुलिया	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
737900	वाअ	संजय कुमार सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
739208	वाअ	सुग्रीव सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
770043	वाअ	रविन्द्र थपलियाल	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (एस)	01-जुलाई-2021
702881	वाअ	धरापाल	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
706677	वाअ	राजेश मिश्रा	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
735695	वाअ	सतपाल बिश्रोई	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
737869	वाअ	एस के मोशरफुद्दीन	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
738718	वाअ	सजित कुमार एस	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
628970	वाअ	चन्द्र प्रकाश सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629106	वाअ	संजीव कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629298	वाअ	कौशल किशोर तिवारी	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629304	वाअ	अतुल कुमार शर्मा	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629782	वाअ	रंजन कुमार श्रीवास्तव	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629804	वाअ	कृष्ण कुमार खत्री	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
702882	वाअ	जगमोहन	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704237	वाअ	धर्म राज सिंह सहरावत	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704250	वाअ	आनंदपाल	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704259	वाअ	राजेन्द्र सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704826	वाअ	अजय कुमार तिवारी	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
704980	वाअ	देवेन्द्र कुमार यादव	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705014	वाअ	असित कुमार शील	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705476	वाअ	धर्मदास बोस	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705478	वाअ	निहार रंजन पाल	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705514	वाअ	धर्म सिंह शेखावत	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
705515	वाअ	सत्यनारायण	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705517	वाअ	जसमेर सिंह कम्बोज	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705522	वाअ	शिवराम	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705565	वाअ	संतोष बाबु पि आर	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
705566	वाअ	रमेश कुमार धवन	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
706392	वाअ	बाबु लाल सर्वाधिकारी	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
726995	वाअ	चरन सिंह बिष्ट	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
728732	वाअ	रणवीर सिंह नरवाल	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
729025	वाअ	श्याम सुन्दर शर्मा	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
737063	वाअ	अजय कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
737087	वाअ	अश्वनी कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
737423	वाअ	संजीव कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
771317	वाअ	सरोज कुमार भूयाँ	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
629823	वाअ	मानवेन्द्र पटगिरि	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
737046	वाअ	प्रमेन्द्र सिंह	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
737406	वाअ	अजय कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
727180	वाअ	पूरन चन्द्र ध्यानि	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
737882	वाअ	बिपिन कुमार शर्मा	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
770571	वाअ	ए के मिश्र	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
770578	वाअ	भागीरथ मल मील	भा वा से पुलिस	01-दिसम्बर-2022
771034	वाअ	राजेश कुमार	भा वा से पुलिस	01-दिसम्बर-2022
771305	वाअ	सुब्बरयलु सुरेश	भा वा से पुलिस	01-दिसम्बर-2022
762651	वाअ	मनोज कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जनवरी-2022
685622	वाअ	दिलीप कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अप्रैल-2022
689743	वाअ	गोपाल प्रसाद गुप्ता	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अप्रैल-2022
709983	वाअ	असीम कुमार मण्डल	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अप्रैल-2022
715434	वाअ	पीयूष कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जून-2022
640603	वाअ	सुनील कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
640618	वाअ	राम बाबू	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
674892	वाअ	श्याम सुन्दर सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
685497	वाअ	शिवेन्द्र सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
685714	वाअ	राम जन्म सिंह यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
686746	वाअ	शशि बल्लभ जुयाल	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
686984	वाअ	अरुण कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
687058	वाअ	सुनील कुमार कश्यप	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
687477	वाअ	राज कुमार प्रसाद	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
687592	वाअ	असित रंजन दास	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
689769	वाअ	सर्वजीत कुमार श्रीवास्तव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
690878	वाअ	ऐदल सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
691139	वाअ	मनोज कुमार साहू	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
691198	वाअ	रामअवतार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022



सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
705344	वाअ	अरबिंद सरकार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
705664	वाअ	श्यामा कान्त मिश्र	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
705671	वाअ	अनिल कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
706166	वाअ	राकेश कुमार वर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
706831	वाअ	राम हरी शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
709703	वाअ	बिभुपद रंजन शंखुआ	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
709726	वाअ	विद्युत कुमार सेन	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716277	वाअ	प्रदीप दत्ता	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716532	वाअ	कैसर रज़ा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716548	वाअ	रवीन्द्र शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
716974	वाअ	रमा शंकर यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
717260	वाअ	दिलबाग सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
717658	वाअ	ब्रजेन्द्र कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
760319	वाअ	समर नाथ मंडल	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
682884	वाअ	सुभाष चन्द्र	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
685854	वाअ	विजय बहादुर यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
688693	वाअ	सुब्रत आईच	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
688775	वाअ	जिनेन्द्र कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
688821	वाअ	सतेन्द्र कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
689856	वाअ	राकेश रंजन	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
709514	वाअ	यश पाल शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
709515	वाअ	पीयूष चन्द मिश्रा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
715404	वाअ	राधे श्याम यादव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
760278	वाअ	सुनील कुमार मलिक	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
760731	वाअ	दिनेश प्रसाद	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
760758	वाअ	जयंत कु सरदार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
762188	वाअ	पीजूष कुमार साहा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
689866	वाअ	हरे राम कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-सितम्बर-2022
760803	वाअ	उपेन्द्र शर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-सितम्बर-2022
687761	वाअ	अनिल कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अक्तूबर-2022
762513	वाअ	किशोर कुमार वर्मा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अक्तूबर-2022
688392	वाअ	सुनील कुमार तिवारी	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
717463	वाअ	विनोद कुमार मिश्र	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
761614	वाअ	सुभाष सिंह चौहान	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
763246	वाअ	अरुण कुमार श्रीवास्तव	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
764069	वाअ	दिलीप कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-नवम्बर-2022
763823	वाअ	अनुराग पाण्डेय	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-दिसम्बर-2022
764269	वाअ	राकेश कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-दिसम्बर-2022
711603	वाअ	अरिमर्दन सिंह परिहार	मेडिकल असिस्टेंट	13-अक्तूबर-2021
711789	वाअ	विजय कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
711794	वाअ	मदन कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
711365	वाअ	सत्यवीर सिंह हरिजन	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
711732	वाअ	त्रिदीप घोष	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
711771	वाअ	राम प्रवेश कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
711784	वाअ	अभिषेक कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-मार्च-2022
656773	वाअ	रसूल याखूब पठान	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656788	वाअ	रविन्द्र कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656823	वाअ	बिजेन्द्र सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656842	वाअ	मोहम्मद अब्दुल नसीर	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656849	वाअ	रवेन्द्र सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656891	वाअ	घनश्याम सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656893	वाअ	राम जी दुबे	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656910	वाअ	शम्भु प्रसाद	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656973	वाअ	ज्ञानेन्द्र नारायण	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656981	वाअ	सतीश चन्द्र	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656999	वाअ	श्री नारायण पांडे	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710020	वाअ	गोविन्दसिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710023	वाअ	देवेन्द्र सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710031	वाअ	अरुन कुमार मंडल	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710037	वाअ	अनूपम खानरा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710054	वाअ	उमेश पाण्डेय	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710057	वाअ	नरेश कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710061	वाअ	मिथिलेश प्रसाद	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710082	वाअ	आनंद पाल सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710100	वाअ	प्रशान्त चक्रवर्ती	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710107	वाअ	रविन्द्र कुमार साहु	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710153	वाअ	मो अयुब अंसारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710184	वाअ	राम बाबू बूँटोलिया	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710260	वाअ	राजेश कुमार प्रजापति	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710307	वाअ	केशर देव चाहर	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710313	वाअ	तेजवीर सिंह पुंडीर	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710393	वाअ	ओम कंवार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710766	वाअ	इकबाल हूसैन	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711059	वाअ	कर्नल रंजीत	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711206	वाअ	शिव प्रकाश वर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711265	वाअ	मनीष कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711946	वाअ	राजा गुरू	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656882	वाअ	रमेश कुमार सरोहा	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
656925	वाअ	राम ध्यान चौधरी	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710689	वाअ	शैल कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710959	वाअ	अशोक कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
711382	वाअ	सुभाष चन्द्र	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
711421	वाअ	दिनेश चौहान	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
711873	वाअ	अरूण प्रकाश	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
711933	वाअ	अमिताभ सिंह भदौरिया	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710026	वाअ	रामनिवारन सिंह सुहाग	मेडिकल असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
710215	वाअ	देवेन्द्र कुमार सैनी	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
710276	वाअ	प्रदीप कुमार भौमिक	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
711468	वाअ	राज कुमार राय	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
711626	वाअ	मनोज कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
656677	वाअ	नरेश यादव	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
656970	वाअ	ज्योतिष अधिकारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
710349	वाअ	रमेश कुमार भार्गव	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
710805	वाअ	संजय कुमार खुराना	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
711152	वाअ	ब्रजेश कुमार शुक्ला	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
711212	वाअ	देवेन्द्र सिंह डागर	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
711255	वाअ	अमर नाथ	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
711271	वाअ	लाल बहादुर तिवारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
695599	वाअ	संजय कुमार दास	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2021
720957	वाअ	अशोक कुमार पंडित	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
732421	वाअ	दुलीचंद वत्स	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
732444	वाअ	बिक्रम सिंह सन्धु	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
720044	वाअ	कमालुदीन वाई	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
732501	वाअ	राजेश तिवारी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-मई-2022
693405	वाअ	नरेन्द्र कुमार शर्मा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694505	वाअ	राकेश सिंह चौहान	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
694831	वाअ	दीप नारायण शर्मा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
695864	वाअ	राम कुमार ठाकुर	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
695866	वाअ	राज नन्दन प्रसाद	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
696625	वाअ	वीरंजी नारायण साहु	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
696683	वाअ	दीना नाथ यादव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
696970	वाअ	महेश चन्द्र गुप्त	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
698686	वाअ	अरविन्द मनोहर सिन्हा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
699041	वाअ	कैलाश चन्द्र कुम्हार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
702220	वाअ	सुब्राता रक्षित	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
705214	वाअ	शशि भूषण तिवारी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
705849	वाअ	कृष्ण गोपाल शर्मा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
720614	वाअ	मोजीबुर रहमान	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
731245	वाअ	जे के आनन्द ईशवर राव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
699882	वाअ	विजय द्विवेदी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
731371	वाअ	राजबीर सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
731781	वाअ	नरेश कुमार शर्मा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
732137	वाअ	विजयबाबू	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
699486	वाअ	मोहम्मद शमीम	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
731135	वाअ	राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
731780	वाअ	ईश्वर सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
733745	वाअ	येशुदास के आर	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
731729	वाअ	प्रदीप कुमार अरोड़ा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
750693	वाअ	दिनेश कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-अप्रैल-2022
750991	वाअ	मनोज कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-अप्रैल-2022
751226	वाअ	हरबिलास	मिसाइल फिटर (ई)	01-अप्रैल-2022
750407	वाअ	दुलाल किशोर साव	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
750454	वाअ	संजिव कुमार पाल	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
755262	वाअ	असित मण्डल	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
750079	वाअ	रामनुज प्रसाद	मिसाइल फिटर (ई)	01-सितम्बर-2022
750088	वाअ	सिद्धनाथ सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-सितम्बर-2022
750449	वाअ	मनोज कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-सितम्बर-2022
750416	वाअ	राकेश कुमार श्रीवास्तव	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्तूबर-2022
750679	वाअ	सुरेन्द्र यादव	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्तूबर-2022
750687	वाअ	संजय डोभाल	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्तूबर-2022
750741	वाअ	नसीम अली	मिसाइल फिटर (ई)	01-अक्तूबर-2022
751007	वाअ	कृष्णा जी त्रिवेदि	मिसाइल फिटर (ई)	01-नवम्बर-2022
751235	वाअ	कुमार पंकज	मिसाइल फिटर (ई)	01-नवम्बर-2022
751029	वाअ	संजय कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-फरवरी-2022
751284	वाअ	मनोज कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-फरवरी-2022
751332	वाअ	कैबरपाल सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-फरवरी-2022
763569	वाअ	सुरेन्द्र सिंह यादव	मिसाइल फिटर (एल)	01-फरवरी-2022
763910	वाअ	अनिल सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-फरवरी-2022
763577	वाअ	अरविन्द कुमार चौबे	मिसाइल फिटर (एल)	01-मार्च-2022
750182	वाअ	रवींद्र डी मुळमुत्तल	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
750278	वाअ	शैलेन्द्र मोहन	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
750766	वाअ	काशी महतो	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
750821	वाअ	कमलेश प्रसाद	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
751341	वाअ	ओम प्रकाश केशरी	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
750191	वाअ	मनोज कुमार दूबे	मिसाइल फिटर (एल)	01-अगस्त-2022
750218	वाअ	विजय चंद्र चौधरी	मिसाइल फिटर (एल)	01-नवम्बर-2022
751358	वाअ	मुन्द्रिका शर्मा	मिसाइल फिटर (एल)	01-नवम्बर-2022
750642	वाअ	त्रि रमेश	मिसाइल फिटर (एम)	01-जनवरी-2022
750291	वाअ	राकेश चौहान	मिसाइल फिटर (एम)	01-फरवरी-2022
750605	वाअ	मधु सूदन मिश्रा	मिसाइल फिटर (एम)	01-फरवरी-2022
750645	वाअ	नरेन्द्र पाल कौशिक	मिसाइल फिटर (एम)	01-मार्च-2022
750611	वाअ	कुलदीप सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जून-2022
699766	वाअ	प्रकाश साह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
732871	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद साव	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
732872	वाअ	आशीष कुमार पाल	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
732953	वाअ	संजय कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
733083	वाअ	लाल बहादुर ठाकुर	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
750842	वाअ	मनोज कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
751607	वाअ	विजय कुमार गोस्वामी	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
751663	वाअ	संजय कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
751619	वाअ	विक्रान्त कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-अगस्त-2022
751688	वाअ	बिनोद कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-सितम्बर-2022
751626	वाअ	नरेश कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-अक्तूबर-2022
751437	वाअ	सुरेन्द्र साह	मिसाइल फिटर (एम)	01-दिसम्बर-2022
723550	वाअ	संजय मजुमदार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2021
699054	वाअ	कुमार चन्दनम्	एम टी फिटर	01-जनवरी-2022
699082	वाअ	शौकत अली	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
678677	वाअ	वेदपाल दहिया	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
698428	वाअ	अशोक कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
721967	वाअ	सत्यवान सिंह मोर	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
722229	वाअ	सुनील कुमार मिश्रा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
722261	वाअ	संतोष कुमार राय	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
730785	वाअ	शशि भूषण कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
730971	वाअ	अभिराम राय	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
731319	वाअ	मुकेश कुमार भाटी	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
696781	वाअ	मिथिलेश कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-जून-2022
699016	वाअ	मनोज कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-जून-2022
730486	वाअ	नरेन्द्र सिंह कुशवाहा	एम टी फिटर	01-जून-2022
731625	वाअ	वाडाडा राम मोहन राव	एम टी फिटर	01-जून-2022
676248	वाअ	उमा कान्त सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
676343	वाअ	कल्याण ब्रत सरकार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
677280	वाअ	महिंदर सिंह परमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
677980	वाअ	रवीश कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
695053	वाअ	जबर सिंह पाल	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
695705	वाअ	अवधेश कुमार चौधरी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
696849	वाअ	मुरारी प्रसाद सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
697320	वाअ	अजीत कुमार बारी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
697570	वाअ	तरून कुमार राय	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
697951	वाअ	जय सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
699433	वाअ	न्यूटन	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
699570	वाअ	गोपी कृष्ण	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
699603	वाअ	शंभू नाथ साह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
699605	वाअ	इशतेयाक अहमद खान	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
730788	वाअ	दीनानाथ राय	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
731441	वाअ	राम सुख	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
699056	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
721954	वाअ	प्रदीप पंगस	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
722615	वाअ	गोपाल गिरि	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
722688	वाअ	शान्तनु सिंह	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
732319	वाअ	सुशील सिंह	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
698257	वाअ	छवि नाथ सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
698421	वाअ	सैलेन कुमार पाल	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
698539	वाअ	मृण्मय हालदार	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
699677	वाअ	रघुवीर सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
722922	वाअ	बिजेन्द्र सिंह चाहर	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
699322	वाअ	प्रकाश चंद्र सिंह	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
730204	वाअ	अवनीन्द्र कुमार	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
730913	वाअ	जीवछ पंडित	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
732584	वाअ	गजेन्द्र कुमार	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
678573	वाअ	कृष्ण कुमार बर्मा	एम टी फिटर	11-अक्तूबर-2022
722618	वाअ	भवतोष सरकार	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
733090	वाअ	बुद्धाराम	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
722188	वाअ	अमित गौतम	एम टी फिटर	01-दिसम्बर-2022
731504	वाअ	राजेश कुमार मिश्रा	एम टी फिटर	01-दिसम्बर-2022
723699	वाअ	राजकुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
723704	वाअ	जलविन्द्र सिंह सैणी	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
723956	वाअ	अभिलाष सी	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
629771	वाअ	अशोक कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720153	वाअ	अमल कुमार सिन्हा	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721778	वाअ	शशी भूषण	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
722338	वाअ	गोपाल कृष्णा आचार्य	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
722709	वाअ	विजय पाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
627843	वाअ	उज्ज्वल नाथ	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628107	वाअ	उमेश प्रसाद यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628224	वाअ	सत्येन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628476	वाअ	जगदीश	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628599	वाअ	ओम प्रकाश सिन्हा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628631	वाअ	हृदानन्द महान्ता	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628774	वाअ	सतविंदर सिंह धाथे	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628810	वाअ	आनन्द प्रकाश सिंह कुशवाहा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628818	वाअ	हरिश्चन्द्र शुक्ल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628931	वाअ	सुखवीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628940	वाअ	राजन जोशी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629325	वाअ	मुख्त्यार सिंह शेरावत	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629341	वाअ	बरूण सरकार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629374	वाअ	जगदीश लाल खुराना	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
629436	वाअ	सर्वेश कुमार मिश्रा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629520	वाअ	विजेंद्र सिंह जाखड़	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629573	वाअ	राजेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629591	वाअ	उमेश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629680	वाअ	देवेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629770	वाअ	ज्ञान प्रकाश	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629810	वाअ	धर्म राज रेबारी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629838	वाअ	सत्यबीर सिंह यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705032	वाअ	निरंजन कुमार विश्वास	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705098	वाअ	कुंजु कुंजु जेम्स	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705136	वाअ	सत्येन्द्र प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705167	वाअ	मनफूल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705175	वाअ	लोकेश चंद शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705196	वाअ	नरेन्द्र कुमार तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705246	वाअ	राम भरोसे यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705544	वाअ	बलवान सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705574	वाअ	राजेश कुमार नेहरा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705575	वाअ	ओम प्रकाश यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705582	वाअ	सन्तोष कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705585	वाअ	नरेन्द्र पाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705592	वाअ	मदन पाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705629	वाअ	सुरेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705639	वाअ	सन्तोष सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705846	वाअ	रणबीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705853	वाअ	कुशल पाल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705891	वाअ	हरिशचंद्र पंडा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705900	वाअ	बलजीत लाम्बा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705905	वाअ	सुनील कुमार गुप्ता	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705932	वाअ	जॉनसन बेबी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705982	वाअ	प्रेम शंकर त्रिपाठी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706205	वाअ	गडवी हरीश कुमार आई	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706230	वाअ	राम चन्द्र पण्डा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706242	वाअ	राज सिंह यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706281	वाअ	अजयपाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706356	वाअ	हरीश कुमार कनौजिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706380	वाअ	विनोद कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
706590	वाअ	वेद प्रकाश यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720104	वाअ	पंकज मिश्रा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720246	वाअ	नरेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720296	वाअ	जितेन्द्र कुमार राठी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720418	वाअ	विश्व कर्मा मेहरानिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
720529	वाअ	जगमोहन सिंह जांगडा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720561	वाअ	शमशेर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720571	वाअ	होशियार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720681	वाअ	ओम प्रकाश	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720706	वाअ	नीलमाधव राय	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720763	वाअ	दीपक पाठक	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720778	वाअ	राज कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721049	वाअ	अरूण कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721069	वाअ	सुरेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721182	वाअ	अशोक कुमार शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721428	वाअ	मनोज कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721444	वाअ	यू आर प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721506	वाअ	रबीन्द्र प्रसाद सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721563	वाअ	सतेन्द्र पाल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721826	वाअ	राम अवतार सैनी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722023	वाअ	अनिल कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722151	वाअ	बिन्नी वी के	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722293	वाअ	अशोक कुमार धनकड	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722360	वाअ	मित्लेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722482	वाअ	सुशील कुमार पाठक	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722717	वाअ	सुनील कुमार नायर	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722844	वाअ	देवेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723331	वाअ	सविंदर सिंह गिल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723428	वाअ	रणवीर कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723736	वाअ	हवा सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723854	वाअ	मुकेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629111	वाअ	राम कृशन सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
629264	वाअ	असीम कुमार मान्ना	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
629439	वाअ	बिशन सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
705241	वाअ	अनिल कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
705878	वाअ	देवेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
720159	वाअ	भूप सिंह चौहान	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
720197	वाअ	श्याम कुमार शुक्ल	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721300	वाअ	सत्यवान बेरवाल	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721394	वाअ	औमप्रकाश दहमन	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721572	वाअ	विनोद कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721837	वाअ	जगवीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
722166	वाअ	अमीय कुमार पन्डा	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
722421	वाअ	हेमेन्द्र पाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723600	वाअ	अली अमीरूद्दीन सिद्दीकी	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723681	वाअ	प्रीतम सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022



सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
629516	वाअ	देवराज पी एस जून	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
706342	वाअ	महेन्द्र मिश्रा	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
720037	वाअ	सत्यपाल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
720111	वाअ	कृष्ण कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
720520	वाअ	शाजी वी सी वाकातारायील	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
721189	वाअ	रवीन्द्र नाथ पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723143	वाअ	सुभाष सिंह तवैर	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723161	वाअ	गुलशन यादव	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723185	वाअ	संजीव तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723266	वाअ	टहल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723275	वाअ	दिनेश कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723601	वाअ	राजीव प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723659	वाअ	विजय सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723709	वाअ	आलोक कुमार धोष	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723723	वाअ	करनैल सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723728	वाअ	जतेंदर कुमार चौहान	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723762	वाअ	के सुरेश	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723791	वाअ	निरंकार नाथ पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723803	वाअ	वसन्त कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723913	वाअ	कोनेरु दुर्गा प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
723250	वाअ	अजीत सिंह	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
723388	वाअ	हंसराज	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
749616	वाअ	मनीश कुमार शुक्ल	म्यूजिशियन	01-अगस्त-2022
749010	वाअ	एस जस्टस जॉन	म्यूजिशियन	01-सितम्बर-2022
760336	वाअ	बिजेन्द्र सिंह मलिक	फोटो फिटर	01-जनवरी-2022
760376	वाअ	सत्यपाल सिंह सूरु	फोटो फिटर	01-जून-2022
760825	वाअ	प्रमोद कुमार यादव	फोटो फिटर	01-जून-2022
761569	वाअ	कुमार भट्टाचार्य	फोटो फिटर	01-जून-2022
762478	वाअ	इमतियाज आलम	फोटो फिटर	01-जून-2022
762479	वाअ	सुभाष कुमार मेहता	फोटो फिटर	01-जुलाई-2022
782191	वाअ	अमर सिंह	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
763344	वाअ	विनीत कुमार दास	पी एम फिटर (ई)	01-अगस्त-2022
734874	वाअ	संजय कुमार	पी एम फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
785489	वाअ	विनय सिसौदिया	पी एम फिटर (एम)	01-अक्तूबर-2022
640644	वाअ	अनन्त कुमार नायक	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
686582	वाअ	दुष्यन्त कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
716179	वाअ	कुमार कौशल किशोर	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741686	वाअ	तारकेश्वर कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741692	वाअ	मासाडि पुरुषोत्तम राव	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741693	वाअ	राकेश कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741704	वाअ	अरूप चटर्जी	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
741710	वाअ	शेखर कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741725	वाअ	नृसिंह नाथ मिश्र	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741729	वाअ	अमित कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741735	वाअ	आर्तबंधु बेहेरा	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741736	वाअ	संजीव कुमार	रेडार फिटर	01-अप्रैल-2022
741737	वाअ	दिनेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-मई-2022
741745	वाअ	बिरंचि नारायन कर	रेडार फिटर	01-मई-2022
741748	वाअ	प्रशांत कुमार बिस्वाल	रेडार फिटर	01-मई-2022
741755	वाअ	बिपीन कुमार गिरी	रेडार फिटर	01-मई-2022
741758	वाअ	अरुन कुमार निराला	रेडार फिटर	01-मई-2022
741721	वाअ	बिनोद बिहारि सामल	रेडार फिटर	01-जून-2022
741759	वाअ	शशिकान्त शर्मा	रेडार फिटर	01-जून-2022
741761	वाअ	मुन्ना चौधरी	रेडार फिटर	01-जून-2022
741764	वाअ	मिथिलेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जून-2022
741876	वाअ	टी सुधाकर	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741887	वाअ	अजीत सिंह	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741889	वाअ	देवेन्द्र सिंह रावत	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741896	वाअ	ज्योति प्रकाश दास	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741899	वाअ	प्रताप कुमार पाटसाणी	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741931	वाअ	अजीत सिंह	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741936	वाअ	सुब्रमण्यम पोतला	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741955	वाअ	सेराजुल हक अंसारी	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741966	वाअ	सुशील कुमार मिश्र	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
741974	वाअ	निक्सन कुरिशुवीटिल वर्गीस	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742025	वाअ	सलीम अहमद	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742043	वाअ	लक्ष्मण प्रसाद	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742059	वाअ	धीरज कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742072	वाअ	शशि भुषण कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742102	वाअ	सौमेन गौराड	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742116	वाअ	मनोज मौर्य	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742130	वाअ	फैज़ अहमद	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742144	वाअ	अश्विनी कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742218	वाअ	कोटेश्वर राव कोल्लि	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
742226	वाअ	थल्लम नागा वेंकटा सिवा रामा राव	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
742261	वाअ	नागेश्वर राव मिंडाला	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
742263	वाअ	प्रसेनजीत दास	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
742272	वाअ	प्रेम कुमार	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
742314	वाअ	लाल अजय कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
742320	वाअ	रंजीत कुमार	रेडार फिटर	01-अक्तूबर-2022
741866	वाअ	संजय कुमार साथुआ	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
741880	वाअ	कुन्दन पाल	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
741885	वाअ	कुल भूषण झा	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
742069	वाअ	सन्तोष कुमार बरनवाल	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
742315	वाअ	संतोष कुमार	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
742344	वाअ	कौलेशवर प्रसाद	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
742364	वाअ	गोपाल कुमार	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
742359	वाअ	केशव चन्द्र डिमरी	रेडार फिटर	10-नवम्बर-2022
741904	वाअ	संजय सुभाष	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
741911	वाअ	पाती राम	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
741937	वाअ	उदय कुमार सिन्हा	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
741957	वाअ	सुशान्त कुमार विश्वाल	रेडार फिटर	01-दिसम्बर-2022
747650	वाअ	मनोज कुमार	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2021
748564	वाअ	चेन्नूरु मोहन क्रिषणया	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2021
748581	वाअ	शैलेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748584	वाअ	घनश्याम मिश्र	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748653	वाअ	जय प्रकाश सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748659	वाअ	देवव्रत मंडल	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748870	वाअ	भगवत प्रसाद	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748877	वाअ	राम नारायण सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
748893	वाअ	मोहम्मद खाजा रहमतुल्ला	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749030	वाअ	राजेश कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749118	वाअ	पीजूष भट्टाचार्यी	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749127	वाअ	गौतम कुमार	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749141	वाअ	नीरज कुमार	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749164	वाअ	अर्जुन कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749214	वाअ	मंजुनाथ राय एच एम	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749236	वाअ	सुरेश बाबू	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749393	वाअ	अरविंद कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749452	वाअ	संजय कुमार मिश्र	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749474	वाअ	राजीव कुमार पुहाण	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749484	वाअ	वृजेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749648	वाअ	चन्द्रभूषण सिंह	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749651	वाअ	सत्येन्द्र शर्मा	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
749672	वाअ	चन्द्र भूषण कुमार	रेडियो फिटर	01-जनवरी-2022
705388	वाअ	अनिल कुमार गर्ग	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748606	वाअ	गोपाल जी राय	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748609	वाअ	कुमार धर्मेन्द्र	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748617	वाअ	भूपेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748663	वाअ	प्रह्लाद प्रजापति	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748717	वाअ	शैलेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
748945	वाअ	शिव शंकर सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
749028	वाअ	अच्युतानन्द महान्त	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749047	वाअ	उमा शंकर पंडित	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749168	वाअ	ओम प्रकाश आर्य	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749186	वाअ	सुशील कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749238	वाअ	उपेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749353	वाअ	तेजवीर सिंह बिष्ट	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749356	वाअ	दलीप सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749409	वाअ	जयप्रकाश शर्मा	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749432	वाअ	सतेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749653	वाअ	धर्मेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749683	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749724	वाअ	बिनीष कुमार के के	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749738	वाअ	रशीद बेग	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749741	वाअ	प्रकाश चंद्र विस्वाल	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749764	वाअ	बिदेश कुमार	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749797	वाअ	सुशील कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
749799	वाअ	श्याम नारायण कुँवर	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
747863	वाअ	जय शंकर सिंह	रेडियो फिटर	01-मार्च-2022
748587	वाअ	देवा नन्द उपाध्याय	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748601	वाअ	मुकेश कुमार श्रीवास्तव	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748623	वाअ	अमिताभ बर्मन	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748673	वाअ	मनोहर कुमार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748686	वाअ	अनिल कुमार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748735	वाअ	सुदिष्ट कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748923	वाअ	पटान हारून खान	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
748939	वाअ	अनिल कुमार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749023	वाअ	आइलू श्रीनाथ	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749024	वाअ	गौरी शंकर भार्गव	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749171	वाअ	विनोद कुमार पाण्डेय	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749213	वाअ	शशि शंकर प्रधान	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749233	वाअ	कमलेश सिंह	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749259	वाअ	प्रलय कुमार स्वाई	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749411	वाअ	मुकुल शर्मा	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749415	वाअ	प्रकाश चंद्र बेहरा	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749503	वाअ	मनोज कुमार निराला	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749534	वाअ	शैलेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749677	वाअ	राहुल जासु	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749717	वाअ	सुदीप्तो तपादार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749795	वाअ	रमेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749796	वाअ	राकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
749810	वाअ	मुकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
749816	वाअ	बिरेन्द्र कुमार प्रसाद	रेडियो फिटर	01-अप्रैल-2022
707618	वाअ	बिष्णु चरण बेहेरा	रेडियो फिटर	01-जून-2022
747220	वाअ	संतोष कुमार	रेडियो फिटर	01-जून-2022
749234	वाअ	पुष्पल दास	रेडियो फिटर	01-जून-2022
748593	वाअ	प्रवीण कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748628	वाअ	सारथी मजुमदार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748635	वाअ	नीलेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748637	वाअ	संजय गिरिधर वालावलकर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748648	वाअ	राकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748655	वाअ	अरूण कुमार झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748661	वाअ	प्रेम चंद साह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748666	वाअ	कुमार ब्रजेन्द्र	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748668	वाअ	शरत चन्द्र बेहेरा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748679	वाअ	उदयसिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748683	वाअ	देव दुलाल नन्दी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748685	वाअ	रवि रंजन	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748693	वाअ	अनिल कुमार गुप्ता	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748707	वाअ	जगदीश प्रसाद सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748708	वाअ	लाल बहादुर यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748728	वाअ	मुहम्मद सगीर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748736	वाअ	सुजीत कुमार शर्मा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748837	वाअ	क्रिशन कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748902	वाअ	दंडा भगवान	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748920	वाअ	जय प्रकाश सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748927	वाअ	महेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
748938	वाअ	सत्येन्द्र प्रसाद	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
749021	वाअ	श्रीबत्स कुमार बेहेरा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
749049	वाअ	शैलेश कुमार धुरिया	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
749072	वाअ	दिलीप कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
749262	वाअ	भरत कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
749995	वाअ	पंकज कुमार परमभक्त	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790005	वाअ	बिमलेश कुमार झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790012	वाअ	मृत्युंजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790013	वाअ	शैलेंद्र प्रताप सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790027	वाअ	रणवीर सेनापति	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790035	वाअ	अविनाश कुमार झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790042	वाअ	दिनेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790075	वाअ	संजीव कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790085	वाअ	नितिन गर्ग	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790179	वाअ	ललित कुमार चौबे	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790229	वाअ	शैलेश कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
790281	वाअ	मोहम्मद खालिद ज़फ़र	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
790320	वाअ	रजनीश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
717163	वाअ	स्नेहाशिस मोइत्रा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
748639	वाअ	रणजीत प्रसाद	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
749070	वाअ	राजेश कुमार	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
749922	वाअ	सन्तोष कुमार साहु	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
749955	वाअ	डबल सिंह	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
749977	वाअ	विवेक कुमार दीक्षित	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
749983	वाअ	पंकज कुमार झा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790077	वाअ	सुधीर कुमार झा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790371	वाअ	वीरागोनि शशिधर गौड	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790410	वाअ	सुबोध कुमार झा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790422	वाअ	अतुल कुमार	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790478	वाअ	उपेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790510	वाअ	धीरज कुमार	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
790600	वाअ	पंकज कुमार तिवारी	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
748096	वाअ	राजेश कुमार सिन्हा	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
749172	वाअ	अनिल कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
749425	वाअ	राजा दिवाकर	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
790243	वाअ	यदु नन्दन मेहता	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
790321	वाअ	हरि प्रसाद दीक्षित	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
790331	वाअ	राम बाबू सिंह	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
790502	वाअ	शशि कान्त सिंह	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
790543	वाअ	आशीष कुमार	रेडियो फिटर	01-सितम्बर-2022
749459	वाअ	बसन्त कुमार साहू	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
749518	वाअ	एसके रियाजुद्दीन	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
749911	वाअ	प्रदिप कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
749952	वाअ	शशि प्रकाश राय	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
790029	वाअ	मनोज कुमार	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
790031	वाअ	प्रमोद कुमार तिवारी	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
790032	वाअ	अमित कुमार	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
790053	वाअ	सुरेन्द्र कुमार सहनी	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
790057	वाअ	सोहन जी ठाकुर	रेडियो फिटर	01-अक्तूबर-2022
749789	वाअ	राकेश कुमार सिन्हा	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790081	वाअ	दिनेश कुमार	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790093	वाअ	प्रभात रंजन कुमार	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790172	वाअ	संतोष कुमार दुबे	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790196	वाअ	संदीप कुमार पाण्डेय	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790289	वाअ	महातम कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
790303	वाअ	पंकज कुमार	रेडियो फिटर	01-नवम्बर-2022
749475	वाअ	संजय कुमार चौधरी	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
749514	वाअ	न्यूटन किशोर गुप्त	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
749688	वाअ	चन्दन सिंह यादव	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
749966	वाअ	बिजय कुमार बेहेरा	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790342	वाअ	राजीव कुमार चौधरी	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790378	वाअ	अभिनव जायसवाल	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790500	वाअ	उदय कान्त ठाकुर	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790518	वाअ	रणजीत कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790540	वाअ	सनिल कुमार टी	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790578	वाअ	संजीव कुमार कटियार	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790598	वाअ	भोला नाथ बर्मा	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
790637	वाअ	छोटे लाल यादव	रेडियो फिटर	01-दिसम्बर-2022
715089	वाअ	गुरमीत सिंह सैनी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
745644	वाअ	अनिल कुमार चौधरी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
654733	वाअ	गणेश कुमार चौधरी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
674388	वाअ	विजय कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
682189	वाअ	प्रमोद कुमार चौरसिया	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
685275	वाअ	सतेंद्र कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
685556	वाअ	उमेश कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
685639	वाअ	वीरेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
685856	वाअ	शिव कुमार यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
687047	वाअ	राजीव रंजन कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
690541	वाअ	अजीत कुमार यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
690877	वाअ	हरिश् चन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
691445	वाअ	राज कुमार त्यागी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
691692	वाअ	बिमल कुमार झा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
705370	वाअ	राजा राम पाण्डेय	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
705646	वाअ	गोपाल चंद्र मंडल	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
706117	वाअ	रामेश्वर दयाल	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
706834	वाअ	अमर मुम्मद	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
707364	वाअ	अखिलेश्वर पाण्डेय	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
707733	वाअ	शोभनाथ शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
715168	वाअ	वीरेश राय	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
715281	वाअ	सुमन्त मिश्र	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
716553	वाअ	दुर्गा प्रसाद चौरसिया	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718197	वाअ	देवदत्त कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718319	वाअ	यशवीर सिंह यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718468	वाअ	गुरिन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719403	वाअ	अनिल कुमार तिवारी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719510	वाअ	दयाकिशन	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745263	वाअ	मनोज कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745480	वाअ	पी सतीष	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
745487	वाअ	मानस कुमार भूयाँ	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745609	वाअ	सन्तोष पचौरी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745812	वाअ	संजीव कुमार साहु	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746428	वाअ	सुनील कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746469	वाअ	मधुवन प्रसाद	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746479	वाअ	अब्दूल नफील खॉन	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746505	वाअ	अरूण कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747144	वाअ	ज्ञानेंद्र प्रसाद रथ	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747385	वाअ	शिशिर दीक्षित	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747391	वाअ	शिव मंगल प्रसाद	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
748016	वाअ	सुरेन्द्र कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
748296	वाअ	आलोक कुमार झा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
748300	वाअ	अजय गौतम	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
748519	वाअ	बिभूति भूषण स्वाई	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
692144	वाअ	श्री मोहन	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
715013	वाअ	गजेन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
718826	वाअ	अशोक कुमार यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
719379	वाअ	अमन कुमार चौहान	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
745280	वाअ	गिरीवीर सिंह सजवान	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
746787	वाअ	श्याम नारायण सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-सितम्बर-2022
745981	वाअ	रघुवर पाण्डेय	रेडियो टेक्नीशियन	01-अक्तूबर-2022
733752	वाअ	मनोजकुमार करुवाचेरी	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2021
733368	वाअ	समर राय	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-फरवरी-2022
730441	वाअ	राकेश कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
679582	वाअ	जगदीश	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
679803	वाअ	राम स्वरूप मेहता	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
695007	वाअ	वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
695103	वाअ	मदन पाल	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696435	वाअ	सत्येन्द्र नाथ शर्मा	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696527	वाअ	दया शंकर	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696835	वाअ	प्रदीप कुमार प्रमाणिक	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696919	वाअ	परमानन्द सिंह यादव	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696996	वाअ	ऋषी केश शर्मा	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697377	वाअ	प्रताप सिंह	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697493	वाअ	तपन कुमार मैती	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697823	वाअ	द्वारिका प्रसाद	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697913	वाअ	शिव प्रसाद यादव	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
697984	वाअ	मानस भौमिक	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
698393	वाअ	काजल राँय	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
698860	वाअ	रामकिशन	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
699229	वाअ	प्रवेश कुमार शर्मा	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022



सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
699463	वाअ	मनोहर सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
699608	वाअ	हरेराम उपाध्याय	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
730577	वाअ	उमेश कुमार सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
732761	वाअ	जगदीश सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
733170	वाअ	सुशील कुमार तिवारी	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
733271	वाअ	ग्रीश कुमार	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
696604	वाअ	प्रदीप कुमार शर्मा	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-अगस्त-2022
733006	वाअ	परमिंदर सिंह	सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर	01-दिसम्बर-2022
745291	वाअ	कोविलकुन्टला मोहम्मद मुबारक बाशा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जनवरी-2022
746924	वाअ	कमल कुमार मण्डल	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जनवरी-2022
715720	वाअ	असीम कुमार सरकार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-फरवरी-2022
718981	वाअ	राजेश दूबे	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-फरवरी-2022
747448	वाअ	अनिल कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-फरवरी-2022
639875	वाअ	छाजू राम	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
639940	वाअ	बशिष्ठ सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
639950	वाअ	घनश्याम कुमार इन्दोरिया	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640004	वाअ	जुनैद अली खॉन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640009	वाअ	वीरेन्द्र कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640017	वाअ	विशन सिंह बिष्ट	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640118	वाअ	अनिल कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640130	वाअ	महेद्र सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640134	वाअ	विशन दयाल यादव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640593	वाअ	शेख मोम्हद मुस्तफा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640659	वाअ	गौतम साहा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640768	वाअ	शिव राम राय	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640769	वाअ	शिवा कान्त झा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640953	वाअ	संजय कुमार सिन्हा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640968	वाअ	शाजी मुरियनकावुन्कल चाकौ	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
715098	वाअ	राम मेहर	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
715141	वाअ	कृष्णा नंद प्रसाद	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
715202	वाअ	भास्कर मिश्र	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
715203	वाअ	बुध बहादुर	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
715366	वाअ	श्री बाबुल राजवंशी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716687	वाअ	विनय कुमार सक्सेना	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716690	वाअ	श्याम नंदन प्रसाद सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716735	वाअ	सुजित कुमार दत्ता	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717300	वाअ	अरूण कुमार द्विवेदी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717340	वाअ	सुब्बा सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717481	वाअ	राजेन्द्र कुमार प्रसाद	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717509	वाअ	गुरमेल सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
717900	वाअ	कमलेश कुमार पान्डेय	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
718689	वाअ	सतबीर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719462	वाअ	विनोद कुमार सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719659	वाअ	बद्रीनाथ द्विवेदी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
747441	वाअ	रामबीर	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
639941	वाअ	अमीरुज्जमा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	20-जुलाई-2022
640518	वाअ	सुधीर कुमार विश्वकर्मा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
716343	वाअ	सत्येन्द्र कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
716399	वाअ	विनय कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
716780	वाअ	मुहम्मद हुसैन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
718706	वाअ	देवरातो नाथ	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
719085	वाअ	श्याम मोहन सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
719757	वाअ	रामफल सिंह श्योराण	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
746737	वाअ	सुब्रमण्यन लक्ष्मी नरसिम्हन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
747711	वाअ	इंद्र जीत यादव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
746456	वाअ	इन्द्र वीर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
747940	वाअ	देवेन्द्र बिस्वाल	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
640589	वाअ	स्वपन कुमार विश्वास	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
715096	वाअ	ओम प्रकाश	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
767082	वाअ	धर्म नाथ शुक्ला	वेपन फिटर	01-जुलाई-2021
767802	वाअ	मुन्ना कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2021
695897	वाअ	परमा नन्द सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
729870	वाअ	महेन्द्र कुमार दास	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
765995	वाअ	जयभगवान सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
767430	वाअ	दीपक कुमार	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
767782	वाअ	संजय कुमार मिश्र	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
768377	वाअ	संजय कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
768389	वाअ	राकेश सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
768392	वाअ	अजित कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-जनवरी-2022
675090	वाअ	राधा कृष्ण उपाध्याय	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
768867	वाअ	सत्य पाल सिंह	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
768872	वाअ	प्रमोद कुमार गिरि	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769377	वाअ	दिनेश कुमार	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769691	वाअ	मणीन्द्र कापरी	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769698	वाअ	राजेश प्रसाद गुप्ता	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769733	वाअ	पवन कुमार	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769742	वाअ	संजय कुमार	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
769989	वाअ	संजीव कुमार मित्रा	वेपन फिटर	01-फरवरी-2022
732180	वाअ	कुमार मधुसूदन	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022
735977	वाअ	राजेश कुमार पाल	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022
767445	वाअ	राम सागर यादव	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
768397	वाअ	संजीत कुमार	वेपन फिटर	01-अप्रैल-2022
699083	वाअ	विभाकर जोतिस्वरूप	वेपन फिटर	01-जून-2022
727912	वाअ	रतन पाल यादव	वेपन फिटर	01-जून-2022
728170	वाअ	मो मामुन रशीद	वेपन फिटर	01-जून-2022
732385	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद	वेपन फिटर	01-जून-2022
766753	वाअ	प्रकाश चन्द्र सामन्त्राय	वेपन फिटर	01-जून-2022
767112	वाअ	मोहम्मद कैसरुद्दीन	वेपन फिटर	01-जून-2022
678830	वाअ	विमलेश कुमार त्रिवेदी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
678836	वाअ	महावीर सिंह यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
679546	वाअ	मनजीत सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
679589	वाअ	जय गोपाल सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
695687	वाअ	हर्ष नारायण मिश्र	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
695712	वाअ	जगदीश प्रसाद यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696375	वाअ	श्री राम यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696549	वाअ	शिरीष कुमार त्रिपाठी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696571	वाअ	धनराज सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696840	वाअ	अवधेश कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
696947	वाअ	जगदीश	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697086	वाअ	प्रेम चंद्र	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697223	वाअ	सच्चिदानन्द सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697350	वाअ	दशरथ दुबे	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
697352	वाअ	अशोक कुमार कापरी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698109	वाअ	श्रवण कुमार स्वामी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698232	वाअ	इन्द्रदेव सिंह यादव	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698412	वाअ	रंजन कुमार मंडल	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
698980	वाअ	प्रदीप कुमार भूईयाँ	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
699491	वाअ	वीरभान	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
699899	वाअ	जयन्त देबनाथ	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
728148	वाअ	एम डी शमसुल हुदा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
728966	वाअ	बीरसैन	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
730240	वाअ	राजीव गुप्ता	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
730593	वाअ	रणजीत राय	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
730783	वाअ	सुरेन्द्र प्रसाद राय	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
730953	वाअ	रणजित सरकार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
731422	वाअ	अमरेश कुमार शर्मा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
732332	वाअ	प्रदीप शर्मा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
736086	वाअ	अब्दुल कादिर	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
679439	वाअ	भूपेन्द्र कौशिक	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
696117	वाअ	जगवीर सिंह	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
728978	वाअ	नरेन्द्र कुमार पांचाल	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
729175	वाअ	बसन्त कुमार चतुर्वेदी	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्य	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
729990	वाअ	बिनोद कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
731652	वाअ	रंजनानंद झा	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
729174	वाअ	राजेन्द्र प्रसाद	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
730344	वाअ	हरिओम शर्मा	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
765200	वाअ	राजेश कुमार तिवारी	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
765204	वाअ	सूर्येश्वर पाण्डेय	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
769057	वाअ	कन्हैया प्रसाद सिंह	वेपन फिटर	01-सितम्बर-2022
728975	वाअ	राम चरित कुशवाहा	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
731665	वाअ	एम डी तौफिक खॉन	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
731720	वाअ	शिवनाथ महतो	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
735024	वाअ	राजेश कुमार	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
765928	वाअ	सुबोध कुमार मिश्र	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
766397	वाअ	समर डे	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
699558	वाअ	सुभाष प्रसाद	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
730387	वाअ	विश्वनाथ बादयकर	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
731482	वाअ	आषीस मजुमदार	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
766363	वाअ	सतीश चंद्र	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
767452	वाअ	जगत सिंह	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
767462	वाअ	शशिधर नरसिंम्हा	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
767790	वाअ	प्रशान्त कुमार सामन्त	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
768675	वाअ	जय शंकर झा	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
768105	वाअ	गौरी शंकर प्रसाद	वेपन फिटर	01-दिसम्बर-2022
769045	वाअ	सुरजीत कुमार	वेपन फिटर	01-दिसम्बर-2022
769383	वाअ	दीपक कुमार यादव	वेपन फिटर	01-दिसम्बर-2022
776286	वाअ	पंकज कुमार सूद	वेपन फिटर	01-दिसम्बर-2022
733200	वाअ	राजेश कुमार	वर्कशाप फिटर (बी)	01-फरवरी-2022
732729	वाअ	अरविन्द पाल शेखर	वर्कशाप फिटर (बी)	01-जून-2022
697933	वाअ	जय प्रकाश चौहान	वर्कशाप फिटर (बी)	01-जुलाई-2022
734170	वाअ	मनोरन्जन पाणिग्राही	वर्कशाप फिटर (बी)	01-दिसम्बर-2022
732893	वाअ	सुसान्त कुमार दाश	वर्कशाप फिटर (सी)	01-अगस्त-2022
679117	वाअ	श्री राम यादव	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
679825	वाअ	मुनीन्द्र प्रसाद सिन्हा	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
695731	वाअ	मोहम्मद सिराजुल हक अंसारी	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
696541	वाअ	सुरेश कुमार गुप्ता	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
696783	वाअ	रामदरश सिंह यादव	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
696993	वाअ	राजेश कुमार पाठक	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
697015	वाअ	योगेन्द्र सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
699781	वाअ	राज बहादुर सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
699866	वाअ	भगवान दास	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
730063	वाअ	तापस कान्ति दास	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
733399	वाअ	अरूण कुमार पंडित	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
734242	वाअ	राधेश्याम पंडित	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
733400	वाअ	अनन्त नारायण द्विवेदी	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अगस्त-2022
695890	वाअ	महेश प्रसाद यादव	वर्कशाप फिटर (एम)	01-सितम्बर-2022
734382	वाअ	अमर नाथ शाह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अक्तूबर-2022
696651	वाअ	अनिल कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-नवम्बर-2022
785174	वाअ	रमेश कुमार मिश्र	वर्कशाप फिटर (एम)	01-दिसम्बर-2022

कुल 1677 (एक हजार छे सौ सतहत्तर) नाम

(मूल सार्जेंट से मूल जूनियर वारंट अफसर )

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
702565	जूवाअ	रविन्द्र कुमार महतो	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2021
770368	जूवाअ	देवेश यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-सितम्बर-2021
703726	जूवाअ	वीरेन्द्र चौबे	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2021
721757	जूवाअ	पटनायकुनी नरेंद्र बाबू	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
727040	जूवाअ	राधेश्याम राय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
773232	जूवाअ	कुलदीप	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
773566	जूवाअ	राकेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
773571	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार कौशल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
774165	जूवाअ	संतोष कुमार गुप्ता	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
774482	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जनवरी-2022
693345	जूवाअ	ओंकार सिंह मटिया	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
737926	जूवाअ	सुरेश कुमार वर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
774493	जूवाअ	एन्टोनी जयसन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-फरवरी-2022
706761	जूवाअ	मोहन ठाकुर भारद्वाज	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मार्च-2022
774514	जूवाअ	मनोज कुमार सिन्हा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मार्च-2022
694336	जूवाअ	रामसरन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
694618	जूवाअ	धर्म किशोर शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
770829	जूवाअ	अरुण कुमार तिवारी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
795485	जूवाअ	मुन्ना कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
795493	जूवाअ	शैलेन्द्र प्रसाद सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
795507	जूवाअ	संतोष कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अप्रैल-2022
694624	जूवाअ	वीरेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मई-2022
772271	जूवाअ	पवन कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-मई-2022
703015	जूवाअ	राज कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
704845	जूवाअ	कृष्ण कुमार तिवारी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
736702	जूवाअ	नवीन प्रकाश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
774500	जूवाअ	सुनिल कुमार झा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
774828	जूवाअ	राजेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जून-2022
693758	जूवाअ	जगदीश्वर सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694757	जूवाअ	प्रेमरंजन त्रिपाठी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
694835	जूवाअ	प्रेम कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700351	जूवाअ	सुनील कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
700726	जूवाअ	सतीश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701382	जूवाअ	गया प्रसाद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701698	जूवाअ	सत्यवीर सिंह यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701706	जूवाअ	महावीर सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
701757	जूवाअ	ओमपाल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702280	जूवाअ	राम कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702428	जूवाअ	पवन कुमार दास	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
702707	जूवाअ	हरि पद संतरा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703018	जूवाअ	त्रिजय सिंह यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703219	जूवाअ	रमेश चन्द्र दास	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
703952	जूवाअ	सुरेश बाबू यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
704178	जूवाअ	उमेश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
704375	जूवाअ	बुद्ध प्रकाश शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
704645	जूवाअ	चन्देश्वर प्रसाद सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
704683	जूवाअ	बिजय सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
725873	जूवाअ	हीरा मोहन सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
725984	जूवाअ	ईश्वर चन्द वर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726253	जूवाअ	मोहम्मद जहाँगीर आलम	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
726783	जूवाअ	कृष्णकुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736632	जूवाअ	देवव्रत चौधुरी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736742	जूवाअ	अखिलेश मिश्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736752	जूवाअ	अनिल कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736754	जूवाअ	शंभू कान्त झा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736799	जूवाअ	विवेकानन्द दाश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
736810	जूवाअ	आनन्द कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737096	जूवाअ	बिरेन्द्र कुमार यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737103	जूवाअ	रविन्दर कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737110	जूवाअ	बिजु पुत्तनपुरक्कल् कुन्जप्पन्	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737731	जूवाअ	संजीव भारद्वाज	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737745	जूवाअ	तपन कुमार प्रसाद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737747	जूवाअ	रमा कान्त सक्सेना	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737748	जूवाअ	मनोज कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
737927	जूवाअ	हेमन्त रॉय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
738354	जूवाअ	मनोज कुमार सावन्त	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
738761	जूवाअ	संजय कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739201	जूवाअ	जय प्रकाश शावर्ण	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739387	जूवाअ	संजय कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739392	जूवाअ	तुलसी दास पाणिग्राहि	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
739576	जूवाअ	संजय कौशिक	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739807	जूवाअ	संतोष तिवारी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739822	जूवाअ	सुबोध कुमार जेना	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
739839	जूवाअ	हरी बाबू	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770111	जूवाअ	राजीव कुमार दुबे	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770123	जूवाअ	किशन पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770126	जूवाअ	मो अराफात	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770380	जूवाअ	अरूण कुमार राय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770383	जूवाअ	सौरभ शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770590	जूवाअ	राकेश सोनी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770603	जूवाअ	दीपक शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770607	जूवाअ	दीनदयाल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770614	जूवाअ	मो नईमुद्दीन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770828	जूवाअ	आलोक कुमार श्रीवास्तव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
770844	जूवाअ	प्रतीक चौहान	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771059	जूवाअ	कुट्टासेरी राजेश	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771065	जूवाअ	पवनन पी वी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771074	जूवाअ	अजय सिवाच	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771075	जूवाअ	मुन्ना कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771076	जूवाअ	ज़ेवेंयर जोषेविन टी आर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771080	जूवाअ	राजेश यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771083	जूवाअ	नलिन कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771345	जूवाअ	विनय कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771368	जूवाअ	बीरेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771667	जूवाअ	अभिमन्यु सेनापति	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771975	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771980	जूवाअ	प्रवीन कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771984	जूवाअ	दया राम सोनकर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
771991	जूवाअ	सुशान्त कुमार भोला	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-जुलाई-2022
694998	जूवाअ	रविन्द्र नाथ पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
703485	जूवाअ	सुदीप सरकार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
725472	जूवाअ	चंदन नाग	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
737976	जूवाअ	मुकेश पाल	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
738560	जूवाअ	मो जाबिर हुसैन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
739025	जूवाअ	अमेदाराम गोदारा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
739192	जूवाअ	सोनाम ग्याछो भुटीया	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
739825	जूवाअ	लक्ष्मीश्वर सिंह कुशवाहा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772268	जूवाअ	बि जगदीश्वरा राव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772272	जूवाअ	सुदीप चम्माला	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772276	जूवाअ	सुनिल सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
772278	जूवाअ	बिनय कुमार श्वाइँ	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772287	जूवाअ	ज़ीशान खान	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772608	जूवाअ	रजिन्दर कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772609	जूवाअ	शैलेश कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772615	जूवाअ	शिव कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772916	जूवाअ	श्याम सुंदर किशोर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772918	जूवाअ	दुदेकुला पपन्नागारि अशोक	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
772937	जूवाअ	संजय कुमार दुबे	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अगस्त-2022
725448	जूवाअ	अशोक कुमार देबनाथ	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-सितम्बर-2022
772940	जूवाअ	सुभाष चन्द्र पाण्डेय	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-सितम्बर-2022
773231	जूवाअ	गणेश कुमार मॉझी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्टूबर-2022
773558	जूवाअ	राकेश रामाचन्द्रन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्टूबर-2022
773567	जूवाअ	ललित कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्टूबर-2022
773582	जूवाअ	राजु कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्टूबर-2022
773865	जूवाअ	मनीष कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-अक्टूबर-2022
694206	जूवाअ	हरिबन्धु साहू	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
704387	जूवाअ	हरि प्रकाश कौशिक	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
724463	जूवाअ	संजीव कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
771670	जूवाअ	नागेस्वर राव टी वी एस	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
773864	जूवाअ	अनिल कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
773878	जूवाअ	बबलु कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774177	जूवाअ	सुनील कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774485	जूवाअ	अनिल कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774515	जूवाअ	विकाश कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774813	जूवाअ	शशि भूषण शर्मा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774814	जूवाअ	रमन कुमार झा	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774832	जूवाअ	बिरेन्द्र कुमार ठाकुर	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774838	जूवाअ	सूवेदार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774846	जूवाअ	राकेश कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774853	जूवाअ	महमूद आलम	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
774855	जूवाअ	प्रवीण कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
795172	जूवाअ	रजनीश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
795181	जूवाअ	रजनीश कुमार रंजन	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-नवम्बर-2022
795481	जूवाअ	के मधु सुदन राव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
795482	जूवाअ	हिमांशु शेखर चौबे	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
795486	जूवाअ	संदीप कुमार त्रिवेदी	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
795495	जूवाअ	शोभराज यादव	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
795509	जूवाअ	जीतेन्द्र प्रताप	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
795513	जूवाअ	मोहम्मद असिफाक अहमद	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022
796098	जूवाअ	सतीश कुमार	जनरल ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैन्ड	01-दिसम्बर-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
948142	जूवाअ	जसप्रीत सिंह	प्रशासन असिस्टेंट (जी डी)	02-जनवरी-2021
937117	जूवाअ	श्रीजित आर जे	प्रशासन असिस्टेंट (जी डी)	01-जनवरी-2022
948663	जूवाअ	अतुल कुमार	प्रशासन असिस्टेंट (जी डी)	01-जनवरी-2022
937920	जूवाअ	रविन्द्र	प्रशासन असिस्टेंट (जी डी)	01-जुलाई-2022
743516	जूवाअ	रंधीर कुमार शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2021
743551	जूवाअ	कणसे दिपक हृणमंत	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
743552	जूवाअ	उमा शंकर	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
743560	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
743565	जूवाअ	सरोज कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
743566	जूवाअ	एम वेंकट कृष्णा मूर्ति	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जनवरी-2022
743602	जूवाअ	प्रदीप कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743649	जूवाअ	सुनिल कुमार एम	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743675	जूवाअ	मुनीश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743696	जूवाअ	रंजय सिंह कुशवाहा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743820	जूवाअ	बृज राज पाण्डेय	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743834	जूवाअ	मनोज कुमार अवस्थी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
743843	जूवाअ	अमरेश कुमार गिरि	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
744057	जूवाअ	राजेश कुमार जानू	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
744078	जूवाअ	पंकज सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अप्रैल-2022
741801	जूवाअ	बच्चा बाबु	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जून-2022
743581	जूवाअ	सुनील कुमार तिवारी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743624	जूवाअ	हरेराम यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743625	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743634	जूवाअ	नरेन्द्र कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743639	जूवाअ	अमजद खान	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743652	जूवाअ	सुरेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743659	जूवाअ	राकेश बिहारी सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743668	जूवाअ	गनेश कुमार गुप्ता	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743670	जूवाअ	मनीष कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743687	जूवाअ	राजेश टी आर	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743689	जूवाअ	सात्विक शर्मा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743693	जूवाअ	अमित याज्ञनिक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743695	जूवाअ	सुरेश दुग्गीराला	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743702	जूवाअ	सुशील कुमार बत्स	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743870	जूवाअ	अरविंद कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743881	जूवाअ	आशीष कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743887	जूवाअ	शशि भूषण	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743888	जूवाअ	मृन्मय पाल चौधूरी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744054	जूवाअ	सीता राम यादव	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744056	जूवाअ	उपेन्द्र पाल	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
744067	जूवाअ	अश्विनी कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744082	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744406	जूवाअ	सर्वजीत कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744408	जूवाअ	प्रदीप कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744414	जूवाअ	दिपक कुमार महापात्र	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744419	जूवाअ	राजीव कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744420	जूवाअ	गिरीश चन्द्र	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744423	जूवाअ	सुमन कुमार घोष	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744424	जूवाअ	महेन्द्र सिंह साहू	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
744429	जूवाअ	शेख शमशाद आलम मेंहदी	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-जुलाई-2022
743865	जूवाअ	मनोज कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744399	जूवाअ	देवेन्द्र कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744433	जूवाअ	सुशांत कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744435	जूवाअ	राजकुमार सिंह आजाद	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744446	जूवाअ	मनजीत	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744458	जूवाअ	परमजीत सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744756	जूवाअ	शत्रुंजय कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744769	जूवाअ	अजित कुमार सिंह	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744770	जूवाअ	शाहनवाजुल हक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744774	जूवाअ	कपिल तरगोत्रा	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अगस्त-2022
744775	जूवाअ	नवीन	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-सितम्बर-2022
744778	जूवाअ	राजीव रंजन	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-सितम्बर-2022
744798	जूवाअ	इन्द्रजीत कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
744809	जूवाअ	संतोष कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
744820	जूवाअ	शैलेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
743844	जूवाअ	मयनुल हक	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
744792	जूवाअ	मणि शंकर मणि	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
744800	जूवाअ	निशान्त कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
744821	जूवाअ	मोपर्थी थामसंन	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
744836	जूवाअ	अनुज कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
744840	जूवाअ	दिनेश कुमार	एयर डिफेंस सिस्टम आपरेटर	01-नवम्बर-2022
777559	जूवाअ	उदय कुमार मंडल	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2021
777586	जूवाअ	नितिन निश्चल अवस्थी	एयर फ्रेम फिटर	01-फरवरी-2022
777748	जूवाअ	आनन्द कुमार जोशी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
777773	जूवाअ	ज्ञान रंजन मिश्रा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
777988	जूवाअ	बृजानन्द यादव	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
777994	जूवाअ	कृष्ण सिंह शेखावत	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
777998	जूवाअ	अमित कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778006	जूवाअ	रविन्द्र पंडित	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778007	जूवाअ	उदय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
778008	जूवाअ	मनोज कुमार भारद्वाज	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778016	जूवाअ	शंकरपण साहु	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778019	जूवाअ	मनोज कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778021	जूवाअ	कुशपाल सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778022	जूवाअ	अजय कुमार शर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778036	जूवाअ	अभिषेक कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778037	जूवाअ	आशीष कुमार त्यागी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778043	जूवाअ	बिनोद कुमार चौधरी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778055	जूवाअ	राकेश वर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778059	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778069	जूवाअ	संजु सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778070	जूवाअ	महावीर प्रसाद मिश्रा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778074	जूवाअ	त्रिपिन कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778077	जूवाअ	रघुनंदन गुज्जारू	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778080	जूवाअ	ज्योति प्रकाश निराला	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778089	जूवाअ	मोहम्मद फिरोज	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778090	जूवाअ	ज्योतिष चन्द्र मंडल	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778091	जूवाअ	रणजीत कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778096	जूवाअ	राकेश कुमार सेठी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778099	जूवाअ	पपु कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778100	जूवाअ	राजेश पासवान	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778105	जूवाअ	अभय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778106	जूवाअ	रोहित कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778108	जूवाअ	राहुल कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778114	जूवाअ	प्रसन्न कुमार नाएक	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778115	जूवाअ	अखिलेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778116	जूवाअ	गौतम कुमार द्विवेदी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778120	जूवाअ	पि हरि बाबु	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778125	जूवाअ	राजेश राय	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778126	जूवाअ	संजय सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778127	जूवाअ	पंकज कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778128	जूवाअ	लालजी सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778135	जूवाअ	अवनीश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778136	जूवाअ	मुहम्मद अब्दुल्लाह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778141	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778142	जूवाअ	अजीत कुमार िसंहा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778144	जूवाअ	निरंजन राय	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778149	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778150	जूवाअ	कुमार अनुभव	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778155	जूवाअ	कुमार अग्निहोत्र	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
778156	जूवाअ	अरविंद कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778167	जूवाअ	विवेकानंद	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778171	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778176	जूवाअ	मनीष कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778184	जूवाअ	मनोरंजन कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778387	जूवाअ	आलोक ज्ञानेन्दु	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778390	जूवाअ	देवेश कुमार झा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778391	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778393	जूवाअ	संजीव कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778394	जूवाअ	चंदन कुमार भारद्वाज	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778395	जूवाअ	दिलीप कुमार राय	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778398	जूवाअ	सतीश गिडुतूरि	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778405	जूवाअ	संजय वर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778409	जूवाअ	एम महेन्दर	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778414	जूवाअ	नितिन धूलिया	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778419	जूवाअ	अज़हर आलम	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778421	जूवाअ	गोविन्द सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778434	जूवाअ	मूड्डल धर्मारव	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778438	जूवाअ	आशुतोष कुमार त्रिपाठी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778440	जूवाअ	हरीष कुमार के जी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778441	जूवाअ	पंकज कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778450	जूवाअ	मनोज कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778457	जूवाअ	राजेश रंजन	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778459	जूवाअ	मेडिसेट्टि राजेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778470	जूवाअ	रजनीश कुमार पाण्डेय	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778472	जूवाअ	अरुण कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778480	जूवाअ	मोहित कुमार त्रिवेदी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778490	जूवाअ	चंद्र भूषण प्रसाद	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778491	जूवाअ	हेमेन्द्र कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778492	जूवाअ	लालु लुक्कोस	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778506	जूवाअ	अरुण गुलेरिया	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778507	जूवाअ	सौरभ चक्रवर्ती	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778508	जूवाअ	श्रीप्रकाश सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778509	जूवाअ	संजीव कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778517	जूवाअ	विनय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778525	जूवाअ	संजीव झा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778531	जूवाअ	ललित नारायण	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778533	जूवाअ	परीक्षित महतो	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778534	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार यादव	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778540	जूवाअ	बिकाश कुमार भट्टाचार्य	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
778543	जूवाअ	दिनेश चन्द्र जोशी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778548	जूवाअ	लक्ष्मण राव रेल्लि	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778553	जूवाअ	अभिलाष टि नायर	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778555	जूवाअ	धनजय कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778556	जूवाअ	राज कुमार शर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778558	जूवाअ	जाधव वैभव धरमाजी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778559	जूवाअ	पिंकू सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778562	जूवाअ	कौशलेन्द्र सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778563	जूवाअ	वैज नाथ पाल	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778564	जूवाअ	नीरज कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778567	जूवाअ	पुरन चंद्रा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778579	जूवाअ	ओक्रम रविचन्द्र सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778580	जूवाअ	मुकेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778584	जूवाअ	मुकेश कुमार रावत	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778585	जूवाअ	देवाशीश सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778587	जूवाअ	पवन कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778588	जूवाअ	दीपक सिंह सेंगर	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778592	जूवाअ	खलीकुर रहमान अंसारी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778598	जूवाअ	नितिश सत्यन	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778601	जूवाअ	प्रेमनाथ कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778621	जूवाअ	शिरीश बाजपेयी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778628	जूवाअ	आदेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778635	जूवाअ	जीवन कुमार नडगना	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778638	जूवाअ	कमलेश कुमार	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778639	जूवाअ	राजेश कुमार सिंह	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778649	जूवाअ	रंजीत कुमार नेमालापुरी	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778653	जूवाअ	प्रमोद कुमार विश्वकर्मा	एयर फ्रेम फिटर	01-जुलाई-2022
778163	जूवाअ	अविनाश गौरव	एयर फ्रेम फिटर	01-सितम्बर-2022
786276	जूवाअ	धनी राम यादव	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786286	जूवाअ	लादू लाल चनिया	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786287	जूवाअ	सुमित कुमार ठाकुर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786288	जूवाअ	नीरज कुमार सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786291	जूवाअ	संदीप सिंह दलाल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786395	जूवाअ	प्रमोद कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786407	जूवाअ	दीपन सिंह नेगी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786415	जूवाअ	सुजीत कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
786706	जूवाअ	प्रदीप कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786708	जूवाअ	प्रभाकर कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786711	जूवाअ	दीपक कुमार साहु	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786714	जूवाअ	बबलु महतो	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
786721	जूवाअ	प्रवीण कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786726	जूवाअ	अभिषेक कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786733	जूवाअ	सप्तर्षी मुखर्जी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786734	जूवाअ	मनीष तिवारी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786736	जूवाअ	रुपेश रंजन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786748	जूवाअ	संजय चौधरी	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786755	जूवाअ	प्रभात कुमार राय	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786756	जूवाअ	गिरीष के आर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786759	जूवाअ	चन्द्र मोहन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786763	जूवाअ	सौभाग्य रंजन साहु	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786764	जूवाअ	संतोष कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786765	जूवाअ	रवि कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786770	जूवाअ	मोहम्मद तनवीर खॉन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786787	जूवाअ	योगेन्द्र सिंह	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786791	जूवाअ	आलोक कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786792	जूवाअ	जितेन्द्र नाथ सामल	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786794	जूवाअ	आलोक कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
787027	जूवाअ	राज कुमार प्रभाकर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
787033	जूवाअ	दीपक जादौन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
787035	जूवाअ	पंकज कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-जुलाई-2022
786771	जूवाअ	रामजी शरण वैद्य	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
787042	जूवाअ	के आर रामाचंद्रन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-अगस्त-2022
786790	जूवाअ	रतन गिर	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787049	जूवाअ	अमित कुमार बाजवान	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787053	जूवाअ	मुनेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787058	जूवाअ	एस के मिस्वाउददीन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787059	जूवाअ	प्रणवीर सिंह नैन	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787065	जूवाअ	राकेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787071	जूवाअ	ओम प्रकाश	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787072	जूवाअ	कमल किशोर रजक	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787076	जूवाअ	अनिष कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787079	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787083	जूवाअ	द्रवेश कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787085	जूवाअ	कौशिक दे	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787086	जूवाअ	स्वरूप मजुमदार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
787077	जूवाअ	सुनील कुमार	एयरफील्ड सेफ्टी आपरेटर	21-अक्तूबर-2022
693470	जूवाअ	सतीश कुमार राजपूत	केटरिंग असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
692570	जूवाअ	वीरेंद्र सिंह यादव	केटरिंग असिस्टेंट	01-मई-2022
689372	जूवाअ	सुदेश पाल	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
699447	जूवाअ	मुकेश कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
700347	जूवाअ	बिजय कृष्णा पाण्डेय	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
720336	जूवाअ	धरम देव यादव	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
726468	जूवाअ	मोहम्मद वसीम	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
736692	जूवाअ	नरेन्द्र कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
736693	जूवाअ	अशोक कुमार यादव	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738185	जूवाअ	मनोज कुमार त्यागी	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
739793	जूवाअ	संजय मिश्र	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771326	जूवाअ	सूजा राम	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771332	जूवाअ	संजीव कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771949	जूवाअ	प्रभाष कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771958	जूवाअ	जयकरन सिंह भदौरिया	केटरिंग असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
700244	जूवाअ	अभिजीत घोष	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
739560	जूवाअ	मोहम्मद सफी आलम	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
772581	जूवाअ	निशीकान्त पण्डा	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
773179	जूवाअ	श्रीजित श्रीविलासम् रामचद्रन नायर	केटरिंग असिस्टेंट	01-सितम्बर-2022
700820	जूवाअ	बसंत साहा	केटरिंग असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
773183	जूवाअ	संजय कुमार	केटरिंग असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
773181	जूवाअ	रविन्द्र सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
694057	जूवाअ	श्याम धर वर्मा	केटरिंग असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
773520	जूवाअ	परशुराम सिंह	केटरिंग असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
773363	जूवाअ	दुर्गा दत्ता होता	अकाउंटिंग क्लर्क	27-जून-2021
796759	जूवाअ	अनिल कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2021
770470	जूवाअ	मनोज धावेकर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-फरवरी-2022
701265	जूवाअ	मनोज कुमार साह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
729618	जूवाअ	संदीप कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
737491	जूवाअ	अशाक कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
737780	जूवाअ	गजेन्द्र सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
770480	जूवाअ	रमेश चौधरी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
772643	जूवाअ	षिजु मिट्टुत्तुल्लिमठत्तिल फ्रान्सिस	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
774889	जूवाअ	बिजय कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
795811	जूवाअ	प्रकाश कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अप्रैल-2022
692860	जूवाअ	सुनील कुमार शुक्ला	अकाउंटिंग क्लर्क	01-मई-2022
773716	जूवाअ	रवि कुमार चौरसिया	अकाउंटिंग क्लर्क	01-मई-2022
738621	जूवाअ	रामा शंकर सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जून-2022
771800	जूवाअ	प्रदीप कुमार मिश्रा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जून-2022
774900	जूवाअ	आनंद कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जून-2022
692857	जूवाअ	अशोक कुमार त्रिपाठी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694009	जूवाअ	कृष्ण लाल गुप्ता	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694010	जूवाअ	राम प्रकाश	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
694746	जूवाअ	चौधरी भाष्कर चंद्र	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
696869	जूवाअ	शिवेन्द्र कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
700232	जूवाअ	पांडव कुमार साह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703374	जूवाअ	अनिल कुमार मिश्रा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
703657	जूवाअ	निशचल कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
704466	जूवाअ	निताय प्रसाद दास	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
704679	जूवाअ	शुभाशीष डे	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
726620	जूवाअ	नरिन्द्र कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
726629	जूवाअ	त्रिनोद कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
729669	जूवाअ	दयानंद	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
729696	जूवाअ	प्रेम चन्द्र राजपूत	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
729717	जूवाअ	नरेन्द्र चन्द	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
736252	जूवाअ	महेश कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
736837	जूवाअ	राजीव मंडल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
736860	जूवाअ	प्रदीप कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
737161	जूवाअ	दिनेश प्रसाद	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
737788	जूवाअ	राकेश सुहाग	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
738029	जूवाअ	मुकेश कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
738602	जूवाअ	अंशू लाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
738820	जूवाअ	मोहम्मद आब्दुल मान्नान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
738834	जूवाअ	अनिल कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
739068	जूवाअ	अवध बिहारी सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
739431	जूवाअ	रंजीत कुमार यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
739442	जूवाअ	सत्यपाल सिंह रावत	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
739943	जूवाअ	रवेन्द्र सिंह अत्री	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
739969	जूवाअ	शक्ति शरण सिन्हा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770260	जूवाअ	प्रवेन्द्र कुमार भाटी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770261	जूवाअ	नरेन्द्र सिंह चौधरी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770458	जूवाअ	बृजेश निर्वान	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770471	जूवाअ	प्रफुल कुमार बेहेरा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770472	जूवाअ	ध्रुव कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
770629	जूवाअ	उपेन्द्र कुमार दत्त	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
771118	जूवाअ	शुभेंद्र कुमार त्रिपाठी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
771211	जूवाअ	संजय कुमार गुप्ता	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
771491	जूवाअ	इंद्र प्रकाश	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
771803	जूवाअ	संतोष कुमार केशरी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
772108	जूवाअ	मुकेश कुमार जैन	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
772110	जूवाअ	भीर्वा राम मंडाड	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
772749	जूवाअ	प्रितम पनकर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
773358	जूवाअ	आनन्द कुमार उपाध्याय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
773371	जूवाअ	संदीप बाजपेयी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
773710	जूवाअ	नीलेश कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
774002	जूवाअ	बिपेन्द्र राय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
774004	जूवाअ	राजीव कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-जुलाई-2022
704904	जूवाअ	अनिल कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
771206	जूवाअ	पंकज कुमार दास	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
771706	जूवाअ	अजय कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
771707	जूवाअ	अजय कुमार यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अगस्त-2022
772027	जूवाअ	विकास कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
772345	जूवाअ	प्रशांत कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
772972	जूवाअ	राजकुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
773249	जूवाअ	सुकीर्ति नौटियाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
773626	जूवाअ	राज कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
773630	जूवाअ	मनोज कुमार पाण्डेय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-सितम्बर-2022
773898	जूवाअ	संजय कुमार प्रसाद	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
774634	जूवाअ	सुशान्त कुमार नायक	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
774636	जूवाअ	मुन्ना राम	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
795004	जूवाअ	रणजीत कुमार यादव	अकाउंटिंग क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
774197	जूवाअ	बिपेन्द्र कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795012	जूवाअ	ब्रजेन्द्र कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795013	जूवाअ	दीपक कुमार सुकुमारन	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795015	जूवाअ	संतोष कुमार खर्गा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795302	जूवाअ	अजय कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795909	जूवाअ	प्रेम कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
795917	जूवाअ	विजय कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
796174	जूवाअ	दिनेश कुमार चौधरी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
796475	जूवाअ	ओम प्रकाश राय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
796650	जूवाअ	सुरेन्द्र कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
796766	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
797070	जूवाअ	सुनील कुमार जोशी	अकाउंटिंग क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774520	जूवाअ	संजय कुमार ओझा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774894	जूवाअ	चितरंजन कुमार	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
797071	जूवाअ	सतबीर भारद्वाज	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
797082	जूवाअ	सुनील कुमार राय	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
797084	जूवाअ	कूतुरु जय कृष्णा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
900080	जूवाअ	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
900087	जूवाअ	ज्योति रंजन मिश्र	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
900091	जूवाअ	निथौजम देवकुमार सिंह	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
900098	जूवाअ	श्याम लटवाल	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
900100	जूवाअ	अनिल कुमार ठाकुर	अकाउंटिंग क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
773984	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जनवरी-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
774297	जूवाअ	राम प्रवेश कुमार यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774530	जूवाअ	कृष्ण कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774532	जूवाअ	राजीव कुमार यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774550	जूवाअ	संजय बरूआँ	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774557	जूवाअ	नशर नियाज़	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774559	जूवाअ	महेश पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774572	जूवाअ	योगेश कुमार जत्वार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774584	जूवाअ	रतीश डी वी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774927	जूवाअ	रमेश तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774941	जूवाअ	अजय कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
774980	जूवाअ	विकास कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
795229	जूवाअ	अजय कौंडल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
795246	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार गुप्ता	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-फरवरी-2022
693912	जूवाअ	मोहन लाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मार्च-2022
774280	जूवाअ	संतोष तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
795559	जूवाअ	संजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
795566	जूवाअ	अजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
795605	जूवाअ	दिनेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
795842	जूवाअ	विवेक कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
796138	जूवाअ	गिरजा शंकर जोशी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अप्रैल-2022
737556	जूवाअ	वीरेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	20-अप्रैल-2022
796278	जूवाअ	राजीव रंजन	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
796281	जूवाअ	विवेक वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-मई-2022
774549	जूवाअ	प्रितेश कुमार श्रीवास्तव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
795221	जूवाअ	शशि भूषण सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
795574	जूवाअ	सुभेन्दु कुमार कर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796433	जूवाअ	रोहित शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796450	जूवाअ	राकेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796461	जूवाअ	अभिषेक डोगरा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796570	जूवाअ	कुलदीप अत्री	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796720	जूवाअ	मनीष कुमार वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796724	जूवाअ	लक्ष्मी शंकर राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
796738	जूवाअ	पि राजू रतीश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जून-2022
689164	जूवाअ	अनिल कुमार मन्ना	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
725034	जूवाअ	रणवीर सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
725216	जूवाअ	संजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
725708	जूवाअ	रमेश कुमार साव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
726076	जूवाअ	सजल भट्टाचार्य	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
727397	जूवाअ	बलजीत शर्मा पाराशर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
728504	जूवाअ	गौरी शंकर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
735179	जूवाअ	चन्द्र किशोर शेखर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
736288	जूवाअ	विजय कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
736598	जूवाअ	असित कुमार घोष	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
737254	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
737497	जूवाअ	राजेश कुमार तिवारी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
737557	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
737560	जूवाअ	होशियार सिंह यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
738252	जूवाअ	उज्ज्वल कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
738263	जूवाअ	फूलाराम	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
739134	जूवाअ	भुल्लुर मिश्रा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
739304	जूवाअ	मनोज कुमार महतो	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
739500	जूवाअ	विनोद कुमार विश्वास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
739646	जूवाअ	प्रकाश प्रसाद	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
739672	जूवाअ	आलोक कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770173	जूवाअ	अमिय रंजन नायक	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770209	जूवाअ	फरसा राम विश्वाई	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770397	जूवाअ	जितेन्द्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770418	जूवाअ	ललित कुमार नायक	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770429	जूवाअ	ऋषि कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770444	जूवाअ	सोनवीर सिंह यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770690	जूवाअ	सतविंदर सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770695	जूवाअ	रजनीश राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770705	जूवाअ	त्रिजय कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770714	जूवाअ	मौहम्मद फय्याज	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
770935	जूवाअ	राजेश कुमार वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771132	जूवाअ	अवनीश कुमार त्रिपाठी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771143	जूवाअ	जितेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771155	जूवाअ	राकेश्वर प्रसाद	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771156	जूवाअ	शिव कुमार प्रसाद	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771178	जूवाअ	राहुल मिश्रा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771470	जूवाअ	संजीव कुमार पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771477	जूवाअ	प्रदीप कुमार कं	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771725	जूवाअ	अजमेर आलम	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771731	जूवाअ	अनिल कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
771747	जूवाअ	शशि भूषण शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
772039	जूवाअ	राकेश यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-जुलाई-2022
701630	जूवाअ	लाल सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
726583	जूवाअ	जनार्दन पाण्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
729627	जूवाअ	राम पाल यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
771169	जूवाअ	महेन्द्र कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
772056	जूवाअ	त्रिनोद कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772095	जूवाअ	मनोज कुमार एस आई	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772358	जूवाअ	दीना नाथ मण्डल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772380	जूवाअ	अमीत कुमार पात्रो	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772419	जूवाअ	हर प्रसाद मिश्रा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772428	जूवाअ	बिपिन कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772685	जूवाअ	सन्तोष कुमार पान्डेय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772696	जूवाअ	जिबी पाँडियापिल्लिल पौलोस	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772708	जूवाअ	सोनू वर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
772716	जूवाअ	रणधीर सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अगस्त-2022
694237	जूवाअ	रामचंद्र मांझी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
700665	जूवाअ	सोमेश चंद्र डे	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
771737	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
773022	जूवाअ	रणजीत कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-सितम्बर-2022
693975	जूवाअ	निरंजन सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
700457	जूवाअ	गोपाल लाल यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
739511	जूवाअ	बिजु मोहम्मद खानि नबीज़ा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773057	जूवाअ	पवन कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773274	जूवाअ	अभिषेक पोरवाल	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773289	जूवाअ	राकेश कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773330	जूवाअ	संजिव कुमार शतपथी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773335	जूवाअ	सत्यनारायण यादव	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773637	जूवाअ	बिकाऊ महतो	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773644	जूवाअ	कमलेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773652	जूवाअ	रूपेश पंडित	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773679	जूवाअ	ध्रुव कुमार मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773690	जूवाअ	कुमार प्रेम	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773940	जूवाअ	वी रवि शंकर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773949	जूवाअ	दिपंकर विश्वास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-अक्तूबर-2022
773952	जूवाअ	समर कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
773986	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
773992	जूवाअ	त्रिनोद कुमार साह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774221	जूवाअ	रवि शंकर मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774228	जूवाअ	विनय कुमार राय	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774253	जूवाअ	अजय कुमार चौधुर	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774288	जूवाअ	योगेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774289	जूवाअ	नारायण चन्द्र साहा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774536	जूवाअ	रितेश पंवार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774539	जूवाअ	सुरेन्द्र सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
774551	जूवाअ	विजय कुमार गाँधी	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
774554	जूवाअ	गौतम विश्वास	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-नवम्बर-2022
693724	जूवाअ	सुनील कुमार शर्मा	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
694791	जूवाअ	सुधीर कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774570	जूवाअ	कन्हैया कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774594	जूवाअ	शैलेश कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774595	जूवाअ	सुधांशु कुमार	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774926	जूवाअ	राजीव सिंह चौहान	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774984	जूवाअ	राजीव रंजन मिश्र	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774985	जूवाअ	अरुण कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
774987	जूवाअ	राम कृष्ण गोखले	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
795272	जूवाअ	राजेश कुमार सिंह	जनरल ड्यूटी क्लर्क	01-दिसम्बर-2022
792929	जूवाअ	विशाल सिंह	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
793598	जूवाअ	अरुण लाल	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
793681	जूवाअ	विजय प्रकाश	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
903927	जूवाअ	माली गिरीष धृपद	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
904280	जूवाअ	राजीव कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
915349	जूवाअ	सत्येन्द्र त्यागी	क्रिप्टोग्राफर	01-जनवरी-2022
792394	जूवाअ	देवेश	क्रिप्टोग्राफर	01-अप्रैल-2022
792917	जूवाअ	सचिन कुमार शर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-अप्रैल-2022
792925	जूवाअ	कलीम इंदल शेख	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
792970	जूवाअ	नीरज यादव	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
793244	जूवाअ	पिन्ना ओबुलेश	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
793590	जूवाअ	शकती कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
793677	जूवाअ	सुवीर वर्मा	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
902224	जूवाअ	सुनील कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
902272	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
902301	जूवाअ	धनेश कुमार प्रजापत	क्रिप्टोग्राफर	01-जुलाई-2022
793604	जूवाअ	विनीत कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-सितम्बर-2022
794170	जूवाअ	भोमा राम	क्रिप्टोग्राफर	01-सितम्बर-2022
903297	जूवाअ	राजेश कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-सितम्बर-2022
903819	जूवाअ	मुकेश कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-सितम्बर-2022
793595	जूवाअ	संदीप कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
793621	जूवाअ	मुलचंद कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
793702	जूवाअ	अंशुल कुमार गुप्ता	क्रिप्टोग्राफर	01-अक्तूबर-2022
794077	जूवाअ	जावेद हुसैन रब्बानी	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
794088	जूवाअ	सफिक अहमद	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
794119	जूवाअ	दिलीप कुमार	क्रिप्टोग्राफर	01-नवम्बर-2022
794140	जूवाअ	राकेश पंवार	क्रिप्टोग्राफर	01-दिसम्बर-2022
794889	जूवाअ	राजन समबयाल	क्रिप्टोग्राफर	01-दिसम्बर-2022
784797	जूवाअ	रामशरण कुमार चंचल	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
794809	जूवाअ	विक्रम रामदास धपाडे	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902812	जूवाअ	तारक नाथ साधु	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
904688	जूवाअ	अविनाश	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
907233	जूवाअ	संदीप राज	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
916855	जूवाअ	विकाश कुमार राय	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
921962	जूवाअ	चंदन कुमार	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970488	जूवाअ	माइकल दास	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970489	जूवाअ	अमर रेजा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970490	जूवाअ	संदीप राय	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970491	जूवाअ	दत्तात्रेय भादूडी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970492	जूवाअ	अनिमेष दास	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970493	जूवाअ	शुभांकर मित्रा	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970494	जूवाअ	जॉय गोस्वामी	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970495	जूवाअ	मीर रियाजुद्दीन	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970496	जूवाअ	दीपंकर गार्डिन	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970497	जूवाअ	ध्रुवज्योति राँय	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970498	जूवाअ	अमुल्य जाना	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970499	जूवाअ	महेश शिवानंद हिरेमठ	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
970500	जूवाअ	विप्लव विश्वास	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
798450	जूवाअ	सुधीर सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798454	जूवाअ	राम तुवेक्या पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798455	जूवाअ	विमलेश कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798462	जूवाअ	अनादि कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798467	जूवाअ	कृष्ण दत्त	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798468	जूवाअ	अजय कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798472	जूवाअ	राकेश तिवारी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798857	जूवाअ	राजू कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798859	जूवाअ	अरविंद कुमार पांडेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798865	जूवाअ	उमेश प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798873	जूवाअ	चन्दन कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798880	जूवाअ	विवेक नेगी	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798885	जूवाअ	मनीष कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798888	जूवाअ	प्रेम रंजन कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798892	जूवाअ	मनोज कुमार राठौर	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798894	जूवाअ	आलोक कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798896	जूवाअ	उपेन्द्र कुमार	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798903	जूवाअ	सन्तोष कुमार चौरसिया	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
798909	जूवाअ	शत्रुघन प्रसाद	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
799371	जूवाअ	राज मोहन कुमार पाण्डेय	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022
799374	जूवाअ	बुद्धि राम सिंह	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
798476	जूवाअ	ओम प्रकाश बबलु	इलैक्ट्रिकल फिटर	01-अगस्त-2022
777599	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2021
778190	जूवाअ	पंकज कुमार राय	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778196	जूवाअ	राजेश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778204	जूवाअ	देवेन्द्र कौशिक	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778218	जूवाअ	कृष्ण देव प्रसाद	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778219	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778222	जूवाअ	अमितेश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778233	जूवाअ	तारकेश्वर शर्मा	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778246	जूवाअ	रमाकांत शर्मा	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778249	जूवाअ	कृष्ण मुरारी मिश्रा	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778254	जूवाअ	जगराज सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778255	जूवाअ	नीरज कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778259	जूवाअ	रंजीत कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778260	जूवाअ	मनीश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778261	जूवाअ	मनोज कुमार यादव	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778262	जूवाअ	नीरज कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778265	जूवाअ	टी ए एन मुर्ति बोडेटी	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778272	जूवाअ	अम्बरीष कुमार तिवारी	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778278	जूवाअ	धनजय कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778280	जूवाअ	राज कुमार राजेश	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778282	जूवाअ	आदित्य कुमार पान्डेय	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778288	जूवाअ	सकलेश कुमार सुमन	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778294	जूवाअ	दिनेश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778295	जूवाअ	वल्लूरी सैम कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778661	जूवाअ	राणा प्रताप सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778681	जूवाअ	उदय प्रताप सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778682	जूवाअ	ब्रजेश	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778691	जूवाअ	अभिषेक कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778695	जूवाअ	शाकिर अली	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778700	जूवाअ	प्रहलाद तिवारी	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778712	जूवाअ	सतीश कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778720	जूवाअ	श्रीनु कोटिनि	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778724	जूवाअ	राजीव कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778738	जूवाअ	कृष्ण चंद्र कोला	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778741	जूवाअ	प्रदीप प्रसाद	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778742	जूवाअ	त्रिलोक सिंह ऐरी	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778745	जूवाअ	एम लोकेश	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778754	जूवाअ	राजेन्द्र यादव	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778755	जूवाअ	केशव कांत	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
778756	जूवाअ	संजय कुमार गुप्ता	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778758	जूवाअ	डांगे संग्राम तुकाराम	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778765	जूवाअ	मनोज कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778768	जूवाअ	अशोक कुमार गयाली	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778771	जूवाअ	विष्णु गोपन के जी	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778772	जूवाअ	राजवर्धन सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778775	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778777	जूवाअ	अमरेश कुमार सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778780	जूवाअ	विकाश सिंह	इंजन फिटर	01-जुलाई-2022
778263	जूवाअ	पुण्यात्मा पाठक	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
778785	जूवाअ	सुरेश कुमार	इंजन फिटर	01-अगस्त-2022
737664	जूवाअ	राज नारायण शुक्ल	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2021
774353	जूवाअ	रमेश चंद्र	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2021
693559	जूवाअ	गौड़ी शंकर झा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795312	जूवाअ	शम्भू कुमार झा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795339	जूवाअ	रंजीत कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795345	जूवाअ	उपेन्द्र राय	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795354	जूवाअ	नीरज कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795356	जूवाअ	रमण महापात्र	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
795657	जूवाअ	प्रमोद कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
693648	जूवाअ	दरशन सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795664	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795671	जूवाअ	अनुज कुमार शर्मा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795689	जूवाअ	रणधीर कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795690	जूवाअ	राकेश रंजन	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795925	जूवाअ	विजय कुमार सिंह	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795961	जूवाअ	राजेश के	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795965	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार धीरज	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
795972	जूवाअ	चन्द्र शेखर सेनापति	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
796191	जूवाअ	सत्यार्थ मिश्रा	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
796200	जूवाअ	विक्रम कुमार राय	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
796338	जूवाअ	नीली वेंकट शिवा कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
796486	जूवाअ	सत्य रंजन	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
796490	जूवाअ	अजीष टी	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
796601	जूवाअ	महेश कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
796775	जूवाअ	दिलीप कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-मार्च-2022
739753	जूवाअ	धर्मपाल	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
770759	जूवाअ	राजेश एस	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
771232	जूवाअ	मुजफ्फर खान	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
772765	जूवाअ	संजय कुमार	इंक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
771233	जूवाअ	वीर सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
773405	जूवाअ	अवनिन्द्र गोस्वामी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
774339	जूवाअ	बलराज सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
795333	जूवाअ	उमेश कुमार ओझा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
795379	जूवाअ	अजय कुमार यादव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
795983	जूवाअ	कुन्दन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जून-2022
693764	जूवाअ	जय गोविन्द शुक्ल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
700884	जूवाअ	रतन कुमार बिस्वाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
703155	जूवाअ	भगवान दास शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
703168	जूवाअ	नरेश कुमार आंतिल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725173	जूवाअ	राम दयाल साह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725580	जूवाअ	करनैल सिंह चौधरी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725715	जूवाअ	शुभेन्दु मुखोपाध्याय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725721	जूवाअ	सुरेन्द्र कुमार भारती	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
725950	जूवाअ	अकीक अहमद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
727586	जूवाअ	रण सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
727675	जूवाअ	मनोज कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
727838	जूवाअ	ज्योतिरेश्वर प्रसाद सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
728335	जूवाअ	कमल ठाकुर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
728483	जूवाअ	चन्दी पाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
728501	जूवाअ	युद्धवीर सिंह देशवाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
729499	जूवाअ	गिरजा शंकर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
735145	जूवाअ	जगदीश चन्द्र	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
737264	जूवाअ	सतीश चन्द्र ओझा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
737588	जूवाअ	अशोक कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
737663	जूवाअ	सुशील कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738152	जूवाअ	बीरबल सिंह पुण्डीर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738495	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738521	जूवाअ	त्रिभुवन पंत	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738525	जूवाअ	प्रबुद्ध कुमार विश्वास	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
738536	जूवाअ	राजेश कुमार शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
739782	जूवाअ	ललन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
739999	जूवाअ	जवाहर लाल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770053	जूवाअ	विश्वजीतकुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770059	जूवाअ	संजीव कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770332	जूवाअ	सत्यभान सिंह नरूका	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770487	जूवाअ	कमलेश कुमार राय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770501	जूवाअ	भुआल कुमार ठाकुर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770519	जूवाअ	प्रवीण कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770743	जूवाअ	शरद कुमार निर्मल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
770749	जूवाअ	मनमोहन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
770760	जूवाअ	इन्द्रजीत पाण्डे	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771016	जूवाअ	गणेश प्रसाद साहू	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771028	जूवाअ	किशन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771234	जूवाअ	धर्मेन्द्र सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771833	जूवाअ	बोदन लाल शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771881	जूवाअ	अभिषेक कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
771895	जूवाअ	राज कुमार त्रिवेदी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772136	जूवाअ	सुभाष चंद्र शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772193	जूवाअ	सुधीष कुमार वि पी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772200	जूवाअ	बबलु तिवारी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772482	जूवाअ	मुरारी भगत	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772496	जूवाअ	कुलदीप	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772542	जूवाअ	अरुण कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772773	जूवाअ	मुकेश कुमार बडोला	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
772807	जूवाअ	शेख अतावुल रहीमान	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773097	जूवाअ	बिनय कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773101	जूवाअ	सचिन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773110	जूवाअ	कल्याण गुप्ता	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773116	जूवाअ	मोहम्मद अबदुल अहद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773121	जूवाअ	मृन्मय गोस्वामी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773384	जूवाअ	नरेंद्र नारायण सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773401	जूवाअ	त्रिनोद कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773463	जूवाअ	लाल बाबू प्रसाद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773727	जूवाअ	रमेश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773740	जूवाअ	अजीत कुमार झा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773749	जूवाअ	अरविंद कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
773750	जूवाअ	सरदार अख्तर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774022	जूवाअ	रत्नेश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774032	जूवाअ	अनिल कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774055	जूवाअ	मुकुल बिस्ट	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774057	जूवाअ	बिनय कुमार ओझा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774061	जूवाअ	संजीव कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774330	जूवाअ	ललन प्रसाद राय	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
774354	जूवाअ	लोकेश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
795979	जूवाअ	अविनाश कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
737281	जूवाअ	विवेकानन्द पाठक	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
770063	जूवाअ	शशी भूषण मिश्रा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
770988	जूवाअ	दिग्विजय सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
771261	जूवाअ	आशीष पाल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
772174	जूवाअ	एस अरिवाझगन	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
772811	जूवाअ	राजेश कुमार पंकज	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
773073	जूवाअ	प्रशांत कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
773742	जूवाअ	रंजन कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
774671	जूवाअ	सुभोजीत मुखर्जी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
774684	जूवाअ	ओम प्रकाश तिवारी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
774685	जूवाअ	रोशन कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
774688	जूवाअ	प्रेमचंद्र चौधरी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
774719	जूवाअ	जय प्रकाश सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
795047	जूवाअ	संतोष कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
795062	जूवाअ	प्रभात कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
795064	जूवाअ	कमलेश कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
795085	जूवाअ	प्रभु दयाल प्रसाद	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
694815	जूवाअ	कौशल सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
736668	जूवाअ	सत्य प्रकाश गोस्वामी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
795341	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
795344	जूवाअ	राज कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
795353	जूवाअ	मोहम्मद सरफराज अहसन	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
795386	जूवाअ	विजय कुमार शर्मा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
795667	जूवाअ	लौरिम्बम कान्ता सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
738994	जूवाअ	राम मूरत यादव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
795928	जूवाअ	अजीत सामंत शीरू	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796203	जूवाअ	त्रिनोद कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796211	जूवाअ	सुधांशु कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796494	जूवाअ	मोहम्मद अलताफ	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796609	जूवाअ	आमोद कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796792	जूवाअ	विजय तिवारी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796798	जूवाअ	राहुल कुमार	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
796805	जूवाअ	अशोक कुमार ठाकुर	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
797101	जूवाअ	सुधीर कुमार दीक्षित	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
797104	जूवाअ	राकेश कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
797111	जूवाअ	अजीत कुमार श्रीवास्तव	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
797121	जूवाअ	शशि भूषण मिश्रा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
797103	जूवाअ	जय देव सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797132	जूवाअ	हरीश कौशिक	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797145	जूवाअ	पी के प्रफुल	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797154	जूवाअ	अनिल कुमार सैनी	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797160	जूवाअ	आलोक उत्तम	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797171	जूवाअ	संतोष दुबे	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797179	जूवाअ	समीर रंजन नाथ	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
797220	जूवाअ	संजय सिंह कुशवाहा	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797227	जूवाअ	अनिल कुमार सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
797249	जूवाअ	मनोज सिंह	इक्विपमेंट असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
918672	जूवाअ	पोखर मल सामोता	ईसा	01-जुलाई-2022
935588	जूवाअ	दीपक कुमार	ईसा	01-जुलाई-2022
914384	जूवाअ	सोनू कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-फरवरी-2022
779231	जूवाअ	उपेन्द्र दुबे	फ्लाइट इंजीनियर	01-अप्रैल-2022
914474	जूवाअ	रोहित कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-अप्रैल-2022
914041	जूवाअ	प्रेमजीत कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
914235	जूवाअ	जागेश कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
914853	जूवाअ	राजेश रंजन	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
914866	जूवाअ	दीपक मिश्रा	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
930700	जूवाअ	उत्पल बोरा	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
931095	जूवाअ	योगेश कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
932577	जूवाअ	मनोज कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-जुलाई-2022
931110	जूवाअ	अवनीश कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	01-सितम्बर-2022
930461	जूवाअ	भूषण कुमार	फ्लाइट गनर	01-जनवरी-2022
914637	जूवाअ	अनूप	फ्लाइट गनर	01-अप्रैल-2022
779744	जूवाअ	चन्दन कुमार सिन्हा	फ्लाइट गनर	01-जुलाई-2022
913559	जूवाअ	अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	फ्लाइट गनर	01-जुलाई-2022
930535	जूवाअ	जयेश केवि	फ्लाइट गनर	01-जुलाई-2022
932645	जूवाअ	अनूप शर्मा	फ्लाइट गनर	01-नवम्बर-2022
901373	जूवाअ	गौतम कुमार घोष	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अप्रैल-2022
902698	जूवाअ	अनीष मेनन	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अप्रैल-2022
900397	जूवाअ	त्रिनोद कुमार	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
900398	जूवाअ	लक्ष्मण सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
900400	जूवाअ	कुलदीप सिंह यादव	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
900401	जूवाअ	रंजय कुमार सिंह	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902968	जूवाअ	रत्नेश राज	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-जुलाई-2022
902969	जूवाअ	निहार रंजन मोहापात्रा	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
902971	जूवाअ	अखिलेश्वर मिश्रा	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
903667	जूवाअ	विजय यादव	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-अगस्त-2022
903677	जूवाअ	मोहन	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-सितम्बर-2022
903682	जूवाअ	पंकज जोशी	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-सितम्बर-2022
903683	जूवाअ	एस शिवाकुमार	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
903690	जूवाअ	पंकज काण्डपाल	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
903695	जूवाअ	रवि शंकर जोशी	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
903716	जूवाअ	संतोष कुमार येचरला	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-नवम्बर-2022
903671	जूवाअ	एम डी बाहिदूर रहमान	ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर	01-दिसम्बर-2022
774445	जूवाअ	सतीश कुमार रम्भु	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2021

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
796828	जूवाअ	राजेश कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2021
771594	जूवाअ	सप्तर्षी सेनगुप्ता	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
774125	जूवाअ	अभिमन्यु चौहान	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
774764	जूवाअ	त्रिनोद आनंदन	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
795130	जूवाअ	अजय सिंह	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
796239	जूवाअ	अनिल कुमार	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
796390	जूवाअ	शशांक शेखर सिंह	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
796535	जूवाअ	अरूण के पी	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
796636	जूवाअ	मनोज कुमार चौहान	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
796637	जूवाअ	सचिन कुमार झा	भा वा से पुलिस	01-अप्रैल-2022
737398	जूवाअ	बिजय प्रसाद जयसवाल	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
795446	जूवाअ	राकेश कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
796817	जूवाअ	अनूप कुमार बाजपेई	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
796830	जूवाअ	राकेश कुमार	भा वा से पुलिस	01-जून-2022
736464	जूवाअ	सतेंदर सिंह भसीन	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
737055	जूवाअ	मनोज कुमार पुरी	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
771590	जूवाअ	राजेश पूकाट	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
771607	जूवाअ	रोहित कोपानी	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
771928	जूवाअ	बिभूति कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
771935	जूवाअ	मनोज कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
772546	जूवाअ	बृजेश कुमार मिश्र	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
772569	जूवाअ	ओम प्रकाश विशनोई	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
773151	जूवाअ	बलजिंदर सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
773803	जूवाअ	दीपक कुमार यादव	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
773821	जूवाअ	अनिल कुमार पाण्डेय	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
774452	जूवाअ	जयन्त कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
774781	जूवाअ	मंतोष कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
795763	जूवाअ	अरूण कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
796053	जूवाअ	रोनी मैथ्यू	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
796370	जूवाअ	मदन लाल	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
796389	जूवाअ	गुरमनसितल सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
796645	जूवाअ	धर्मेन्द्र सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
796648	जूवाअ	अखिलेश कुमार पाण्डेय	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797262	जूवाअ	जयंत कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797271	जूवाअ	अरूण कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797272	जूवाअ	सचिन कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797273	जूवाअ	मीतू सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797285	जूवाअ	पंकज कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797290	जूवाअ	विजय कुमार	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022
797291	जूवाअ	जितेन्द्र यादव	भा वा से पुलिस	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
703964	जूवाअ	जयन्त दास	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
797277	जूवाअ	अजीत मिश्रा	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
797304	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
797314	जूवाअ	संतोष कुमार गुप्ता	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
797318	जूवाअ	सत्यम तिवारी	भा वा से पुलिस	01-अगस्त-2022
797295	जूवाअ	आशीष कुमार	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
900250	जूवाअ	रंजीत कुमार त्रिपाठी	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
900251	जूवाअ	कमल कुमार त्रिपाठी	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
900256	जूवाअ	धनंजय कुमार पाण्डेय	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
900282	जूवाअ	ए शाहिद	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
900284	जूवाअ	सन्तोष कुमार एस	भा वा से पुलिस	01-सितम्बर-2022
795457	जूवाअ	आशुतोष तिवारी	भा वा से पुलिस	01-अक्तूबर-2022
900275	जूवाअ	विद्यानिधि मिश्र	भा वा से पुलिस	01-अक्तूबर-2022
900388	जूवाअ	बांका बिहारि पाणि	भा वा से पुलिस	01-अक्तूबर-2022
772215	जूवाअ	नायर विनोद कुमार वासुदेवन	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
797280	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
900283	जूवाअ	मुदूसिर हमीद	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
900383	जूवाअ	अमित मिश्रा	भा वा से पुलिस	01-नवम्बर-2022
902871	जूवाअ	इन्द्र देव	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
902888	जूवाअ	मंटु कुमार	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
904159	जूवाअ	प्रभाकर पाण्डेय	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
904173	जूवाअ	प्रदीप कुमार	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
904504	जूवाअ	विकास राघव	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
904514	जूवाअ	दीपक कुमार	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
905090	जूवाअ	संजीत दहिया	भा वा से गरुड	01-जुलाई-2022
905106	जूवाअ	योगेन्द्र कुमार	भा वा से गरुड	01-अगस्त-2022
798262	जूवाअ	त्रिनाथ प्रसाद सामन्तराय	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798286	जूवाअ	त्रिलोचन साहु	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798490	जूवाअ	प्रदीप कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798499	जूवाअ	नितेश कुमार सिन्हा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798508	जूवाअ	सुनील कुमार राय	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798513	जूवाअ	अविनाश कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798521	जूवाअ	शशि राज	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798523	जूवाअ	जयराम रामम	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798525	जूवाअ	शशांक शेखर सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798526	जूवाअ	बिरेन्द्र कुमार सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798541	जूवाअ	विवेक चन्द्र	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798733	जूवाअ	सुजित कुमार मिश्रा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798742	जूवाअ	ए राजाराम	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798748	जूवाअ	प्रदीप कुमार दास	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
798764	जूवाअ	विशाल कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798782	जूवाअ	हृदयेश तिवारी	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798784	जूवाअ	कल्पेश कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798786	जूवाअ	राम जन्म राम	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798789	जूवाअ	रजनीश कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798795	जूवाअ	दलवीर सिंह	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798808	जूवाअ	कुलदीप पाराशर	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798812	जूवाअ	निरंजन कुमार ठाकुर	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798814	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798817	जूवाअ	अमित कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798820	जूवाअ	श्रीप्रकाश गुप्ता	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798833	जूवाअ	आनन्द कुमार झा	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798835	जूवाअ	मुकेश कुमार तिवारी	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798836	जूवाअ	धनंजय कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798841	जूवाअ	अमित कुमार चौरसिया	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-जुलाई-2022
798530	जूवाअ	हेमन्त हिना	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
798745	जूवाअ	देव कुमार	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
798809	जूवाअ	पंकज सिंह चौहान	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
798815	जूवाअ	रवि प्रकाश पटेल	इंस्ट्रूमेंट फिटर	01-अगस्त-2022
711915	जूवाअ	सोमनाथ घोष	मेडिकल असिस्टेंट	01-सितम्बर-2021
712236	जूवाअ	मोहम्मद अरमान अन्सारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2021
712242	जूवाअ	रवीन्द्र सिंह यादव	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
712244	जूवाअ	उदय प्रताप सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जनवरी-2022
710396	जूवाअ	जसमेर सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
712247	जूवाअ	बबन कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-फरवरी-2022
656454	जूवाअ	सत्य नारायण दास	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
656869	जूवाअ	सुभाष चन्द	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
710610	जूवाअ	जीवन प्रकाश सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
710879	जूवाअ	रविन्द्रनाथ विश्वास	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
710938	जूवाअ	मिर्तुनजय शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
711916	जूवाअ	राजेश कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
712052	जूवाअ	सन्तोष कुमार पाचुनायर पुलियारील	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
712118	जूवाअ	त्रिजय कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अप्रैल-2022
710581	जूवाअ	मुहम्मद इमरान	मेडिकल असिस्टेंट	01-जून-2022
710678	जूवाअ	राजागोपाल के	मेडिकल असिस्टेंट	01-जून-2022
711870	जूवाअ	पंकज कुमार मिश्र	मेडिकल असिस्टेंट	01-जून-2022
656853	जूवाअ	अशोक कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656867	जूवाअ	उमेद सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656969	जूवाअ	रविन्द्र नाथ घोष	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710088	जूवाअ	बिबेकानन्द चट्टोपाध्याय	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
710122	जूवाअ	ओम प्रकाश तिवारी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710123	जूवाअ	कुमार अरविन्द	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710372	जूवाअ	रमेश कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710585	जूवाअ	जयप्रकाश जखमोला	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710723	जूवाअ	अशवनी कुमार श्रीवास्तव	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710857	जूवाअ	अनिल कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710893	जूवाअ	संजय प्रसाद	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710913	जूवाअ	सतीश आनन्द	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
710953	जूवाअ	मदन मोहन शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711058	जूवाअ	ब्रह्म लाल साव	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711154	जूवाअ	सुधा सेखर पार्वती	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711208	जूवाअ	जी वेंकटेश	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711306	जूवाअ	हेमन्त कुमार झा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711440	जूवाअ	संजीव कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711473	जूवाअ	बिजय पाल नाथ	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711629	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711713	जूवाअ	संजय कुमार श्रीवास्तव	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711764	जूवाअ	ज्ञानेन्द्र कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711779	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711795	जूवाअ	ताजदार आलम	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711839	जूवाअ	प्रदिप कुमार सेनापति	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711844	जूवाअ	विजय सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711852	जूवाअ	राकेश कुमार सैनी	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711890	जूवाअ	मनोज कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711899	जूवाअ	जगमाल	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711938	जूवाअ	प्रेम मिश्रा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
711941	जूवाअ	गोपाल तांती	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712013	जूवाअ	चन्द्र शेखर गुप्ता	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712014	जूवाअ	रमेश कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712018	जूवाअ	गनेश सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712024	जूवाअ	राजीव कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712061	जूवाअ	तरटे उमेश आनंदा	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
712120	जूवाअ	भास्कर पट्टाभिरमन्	मेडिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
656672	जूवाअ	बिकाश कुमार राय	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
656921	जूवाअ	अनिल कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
710601	जूवाअ	पूरन सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
711443	जूवाअ	परब दामोदर चंद्रकांत	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712121	जूवाअ	रामानुज प्रसाद	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712127	जूवाअ	जेकब जॉर्ज	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712150	जूवाअ	सुनील कुमार यादव	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
712152	जूवाअ	अनुज कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712166	जूवाअ	दिनेश कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712178	जूवाअ	दीपेश चक्रवर्ती	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
712188	जूवाअ	हितेश कुमार द्विवेदि	मेडिकल असिस्टेंट	01-अगस्त-2022
711433	जूवाअ	राम चन्द्रन नायर विनोद कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
712199	जूवाअ	ओम प्रकाश सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
712204	जूवाअ	धनंजय कुमार	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
712205	जूवाअ	सनोज कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-अक्तूबर-2022
710786	जूवाअ	त्रिलोक सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712210	जूवाअ	नरेश सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712220	जूवाअ	धर्मेन्द्र	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712229	जूवाअ	मंजुल दीक्षित	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712235	जूवाअ	अशोक कुमार वर्मा	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712238	जूवाअ	खुर्शीद आलम	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712246	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	मेडिकल असिस्टेंट	01-नवम्बर-2022
712252	जूवाअ	भगवान प्रधान	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
712254	जूवाअ	अखिलेश गिरी	मेडिकल असिस्टेंट	01-दिसम्बर-2022
786813	जूवाअ	मोहित कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786816	जूवाअ	रंजीव सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786817	जूवाअ	संजीव कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786819	जूवाअ	अविश कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786820	जूवाअ	कुन्दन सिन्हा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786824	जूवाअ	इब्राहिम खलिलुल्ला खान	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786829	जूवाअ	शेखर कुमार शर्मा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786832	जूवाअ	संजीव कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786833	जूवाअ	शेषनाथ त्रिपाठी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786834	जूवाअ	राजन कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786836	जूवाअ	विवेक चौबे	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786837	जूवाअ	बंटी मिश्रा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786838	जूवाअ	राजेश कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786839	जूवाअ	संतोष कुमार यादव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786840	जूवाअ	सनल एस एस	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786841	जूवाअ	कपिलदेव मिश्रा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786842	जूवाअ	संदीप गुसाई	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786843	जूवाअ	वीरेन्द्र कुमार पंडित	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786846	जूवाअ	विजय कुमार सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786847	जूवाअ	राकेश कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786848	जूवाअ	अजय कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786849	जूवाअ	मनीष ठाकुर	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786854	जूवाअ	मंगल सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
786855	जूवाअ	श्याम सिंह परमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786856	जूवाअ	सिनु के	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786857	जूवाअ	गुलशन कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786858	जूवाअ	केशव कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786863	जूवाअ	मदन सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786864	जूवाअ	संजीव कुमार प्रसाद	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786869	जूवाअ	रंजन कुमार मौर्य	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786900	जूवाअ	उमेश सिंह जी राणा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
786902	जूवाअ	अमित प्रकाश	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787125	जूवाअ	इमामुद्दीन अंसारी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787126	जूवाअ	प्रशांत कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787128	जूवाअ	राजेन्द्र कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787130	जूवाअ	राशीष कश्यप	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787131	जूवाअ	राकेश रंजन सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787133	जूवाअ	तरुण कुमार	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787137	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार ओझा	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787138	जूवाअ	गोपाल कुमार साव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787139	जूवाअ	अभय कुमार सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787143	जूवाअ	अजीत कुमार द्विवेदी	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787150	जूवाअ	सौरभ भद्र	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787151	जूवाअ	ओम प्रकाश यादव	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
787155	जूवाअ	सुनील सिंह	मेटियोरोलजिकल असिस्टेंट	01-जुलाई-2022
798375	जूवाअ	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798377	जूवाअ	सन्तोष कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798383	जूवाअ	अजय कुमार वर्मा	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798601	जूवाअ	चिंगांगबम रोमेन मीतैई	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798602	जूवाअ	ई रामप्रसाद	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798603	जूवाअ	विपिन कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798620	जूवाअ	पाटील अमरकुमार अशोक	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798621	जूवाअ	दुर्गा प्रसाद	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798622	जूवाअ	धमाल निलेश विलासराव	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798624	जूवाअ	संतोष कुमार	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798625	जूवाअ	चन्द्रमणि पाण्डेय	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798633	जूवाअ	अरुण कुमार यादव	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798636	जूवाअ	मयेंगबम सानातोंवा सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798637	जूवाअ	राजेश कार्की	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798639	जूवाअ	त्रिजयपाल सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798641	जूवाअ	प्रदीप कुमार साहु	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
799386	जूवाअ	देशराज सिंह	मिसाइल फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
798126	जूवाअ	उमाशंकर कौशिक	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2021

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
798385	जूवाअ	प्रदीप कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798387	जूवाअ	गजेन्द्र सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798389	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार झा	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798390	जूवाअ	विशाल तिवारी	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798392	जूवाअ	उमाकांत पात्रा	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798395	जूवाअ	वीर सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798397	जूवाअ	सुरेन्द्र प्रताप यादव	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798408	जूवाअ	वीरेन्द्र कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798409	जूवाअ	विनोद राजेंद्र निषाद	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798412	जूवाअ	प्रशांत चतुर्वेदी	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798413	जूवाअ	रितुराज	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798416	जूवाअ	सुरेन्द्र सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798417	जूवाअ	मनोजीत साहा	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798421	जूवाअ	रितेश आनन्द	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798424	जूवाअ	अतनु पाल	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798442	जूवाअ	महेश पाल प्रजापति	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798446	जूवाअ	हरि प्रसाद	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798447	जूवाअ	दीपक कुमार शुक्ला	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798643	जूवाअ	जी कूरमा राव	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798645	जूवाअ	राम कृष्ण सलादी	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798652	जूवाअ	अजीत कुमार सिंह	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798656	जूवाअ	ज्योतिर्मय पालीत	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798664	जूवाअ	नवल किशोर यादव	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798667	जूवाअ	रवीश कुमार	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798673	जूवाअ	अजित त्रि	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798674	जूवाअ	पैडि राजू यंडामुरी	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798676	जूवाअ	मूल चंद्रशेखर राव	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798683	जूवाअ	थॉमसेन खाइदेम	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798685	जूवाअ	चन्द्र किशोर	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798686	जूवाअ	हरि बाबु मंडला	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
799359	जूवाअ	मुकेश कुमार झा	मिसाइल फिटर (एल)	01-जुलाई-2022
798422	जूवाअ	कुमार नन्दन	मिसाइल फिटर (एल)	01-अगस्त-2022
798670	जूवाअ	गल्ला श्याम प्रसाद	मिसाइल फिटर (एल)	01-अगस्त-2022
798647	जूवाअ	धनराज पी डी	मिसाइल फिटर (एल)	01-अक्तूबर-2022
797998	जूवाअ	योगेश कुमार कौशिक	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798347	जूवाअ	पूरन सिंह किरौला	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798351	जूवाअ	नितिन जैन	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798354	जूवाअ	हरप्रीत सिंह	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798355	जूवाअ	शिवेन्द्र त्रिपाठी	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798359	जूवाअ	अभिषेक जायसवाल	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
798360	जूवाअ	ऋतुराज चन्द्र सिन्हा	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798361	जूवाअ	नागेन्द्र कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798364	जूवाअ	पंकज मिश्रा	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798368	जूवाअ	हरिदासु रविन्द्र स्वामि	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798369	जूवाअ	योगेन्द्र कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798370	जूवाअ	अस्वनी कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798371	जूवाअ	रमजान शेख	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798554	जूवाअ	राजीव कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798556	जूवाअ	श्रीकान्त एम	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798559	जूवाअ	बजरंगी लाल	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798563	जूवाअ	अवनीश कुमार तिवारी	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798568	जूवाअ	कम्बटी शिवा शंकर	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798569	जूवाअ	राकेश कुमार चौरसिया	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798576	जूवाअ	राज कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798577	जूवाअ	श्रीजेष एम एस	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798580	जूवाअ	गिरीष कुमार एम डी	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798588	जूवाअ	अरविंद ए	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798594	जूवाअ	अमर कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798597	जूवाअ	श्रीराज आर	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
798599	जूवाअ	जय प्रकाश कुमार	मिसाइल फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
781079	जूवाअ	नागेंद्र कुमार यादव	एम टी फिटर	01-जुलाई-2021
721969	जूवाअ	नारायण दत्त	एम टी फिटर	01-फरवरी-2022
782119	जूवाअ	कार्तिक के एस	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782120	जूवाअ	जय प्रकाश निराला	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782133	जूवाअ	अंकुर	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782135	जूवाअ	सुरेश कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782138	जूवाअ	रवि प्रकाश सिन्हा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782152	जूवाअ	अमित राज	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782180	जूवाअ	राहुल जाँगिड	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782181	जूवाअ	मिथलेश कुमार सैनी	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782460	जूवाअ	प्रभात कुमार पट्टनायक	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782522	जूवाअ	नीरज कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782526	जूवाअ	मुकेश शर्मा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782527	जूवाअ	कुमुद रंजन कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782535	जूवाअ	अशोक कुमार दाश	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782542	जूवाअ	परमिन्द्र सिंह	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782975	जूवाअ	दिनेश विश्वकर्मा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782981	जूवाअ	विजय कुमार झा	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782992	जूवाअ	गौरव गौतम	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
782998	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
783018	जूवाअ	प्रशान्त कुमार	एम टी फिटर	01-अप्रैल-2022
780920	जूवाअ	अभिनन्दन कुमार	एम टी फिटर	01-जून-2022
782161	जूवाअ	प्रदीप सिंह	एम टी फिटर	01-जून-2022
783016	जूवाअ	बिनोद कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783293	जूवाअ	गौरव भारद्वाज	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783294	जूवाअ	चंदन कुमार भगत	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783298	जूवाअ	कृष्णा प्रसाद	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783302	जूवाअ	अमन अभिषेक	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783303	जूवाअ	बलवन्त कुमार साह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783305	जूवाअ	मनोज कुमार त्रिपाठी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783309	जूवाअ	अमृतेश झा	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783311	जूवाअ	बिजेन्द्र कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783312	जूवाअ	नन्दकिशोर चौधरी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783317	जूवाअ	राकेश	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783319	जूवाअ	बृजेश कुमार तिवारी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783320	जूवाअ	सुधाकर कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783322	जूवाअ	विद्यादत्त पाठक	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783323	जूवाअ	अजय कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783328	जूवाअ	राजीव गौतम	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783337	जूवाअ	शमीम	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783353	जूवाअ	संदीप वाण्येय	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783360	जूवाअ	सोना जी	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783372	जूवाअ	रजनीश	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783376	जूवाअ	अजय कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783379	जूवाअ	मुकेश कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783385	जूवाअ	संजीत कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783387	जूवाअ	अनंत सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783388	जूवाअ	श्रवण कुमार मंडल	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783390	जूवाअ	नागीन कुमार बेहेरा	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783395	जूवाअ	निलेश कुमार मिश्री	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783400	जूवाअ	राजेश कुमार मौर्या	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783404	जूवाअ	सूरज कुमार	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783405	जूवाअ	राजकमल शिरोमणि	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783411	जूवाअ	रघुवंश सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783414	जूवाअ	पंकज कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-जुलाई-2022
783418	जूवाअ	एम अनित कुमार	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
783420	जूवाअ	विशाल कुमार	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
783421	जूवाअ	अमोद कुमार	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
783427	जूवाअ	राजीव रंजन कुमार	एम टी फिटर	01-अगस्त-2022
783431	जूवाअ	रविन्द्र कुमार	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
783433	जूवाअ	कुमार टीपू	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783434	जूवाअ	राजीव कुमार	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783437	जूवाअ	राहुल सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783438	जूवाअ	संजीव कुमार दीपक	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783445	जूवाअ	दीपक कुमार	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783448	जूवाअ	बिटू कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783456	जूवाअ	चंद्र सिंह ईन्दा	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783463	जूवाअ	प्रशांत सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783470	जूवाअ	रतन कुमार	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783477	जूवाअ	सचिन कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-सितम्बर-2022
783425	जूवाअ	गुंजन कुमार मिश्रा	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783488	जूवाअ	अमित शर्मा	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783489	जूवाअ	मनोरंजन कुमार	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783490	जूवाअ	गोपाल कुमार विद्यार्थी	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783492	जूवाअ	प्रदीप कुमार	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783497	जूवाअ	मनोज लाल	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783504	जूवाअ	प्रदीप कुमार सिंह	एम टी फिटर	01-अक्तूबर-2022
783501	जूवाअ	पंकज कुमार	एम टी फिटर	01-नवम्बर-2022
722422	जूवाअ	कपिल कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2021
724728	जूवाअ	रंजीत कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2021
628274	जूवाअ	प्रभात कुमार मंगराज	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
628980	जूवाअ	नरेश चंद्रा	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
723805	जूवाअ	एम जोसफ केन्नेडी	एम टी ड्राईवर	01-जनवरी-2022
629128	जूवाअ	दिनेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
724912	जूवाअ	विशाल सिंह कुशवाहा	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
780174	जूवाअ	शिवु शनमुखन शिजिनिवास	एम टी ड्राईवर	01-फरवरी-2022
628244	जूवाअ	हरिंद्र प्रसाद साव	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
629510	जूवाअ	बादल कुमार दे	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
629705	जूवाअ	राजकुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
705641	जूवाअ	ईश्वर चंद	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
706750	जूवाअ	सतेन्द्र सिंह सरौ	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720631	जूवाअ	रमेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720641	जूवाअ	जय राम यादव	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720682	जूवाअ	भूपेन्द्र पति तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
720720	जूवाअ	अत्रिनाथ कुमार राठौर	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721672	जूवाअ	रमेश प्रसाद सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
721724	जूवाअ	मोहम्मद जमील	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
722198	जूवाअ	संजय कुमार मौर्य	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
722217	जूवाअ	हवा सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
722566	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
722867	जूवाअ	गंगाधर बेहेरा	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
722993	जूवाअ	प्रेम आनन्द सिंह पुनिया	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
723473	जूवाअ	राजेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
723594	जूवाअ	अनवर हुसेन	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
723608	जूवाअ	दीपक दूबे	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
724065	जूवाअ	मनोज कुमार कुँवर	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
724737	जूवाअ	अबदुल हमीद	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
724740	जूवाअ	अनुप कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
724898	जूवाअ	मुकेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
780177	जूवाअ	प्रवीन कुमार जैन	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
780410	जूवाअ	राम कुमार राम	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
780878	जूवाअ	अरविंद कुमार मिश्रा	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
781349	जूवाअ	सरवनन एम वीराचामी	एम टी ड्राईवर	01-अप्रैल-2022
628287	जूवाअ	सुनंदा कुमार पण्डा	एम टी ड्राईवर	01-मई-2022
628778	जूवाअ	हरी चंद कम्बोज	एम टी ड्राईवर	01-मई-2022
705051	जूवाअ	सुरेन्द्र प्रकाश कौशिक	एम टी ड्राईवर	01-मई-2022
629574	जूवाअ	श्री भगवान सहरावत	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
691581	जूवाअ	सरोज कुमार धर	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
720878	जूवाअ	धन्ना राम सैनी	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
721036	जूवाअ	सुभाष सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
721396	जूवाअ	सतीश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
721429	जूवाअ	दिनेश कुमार तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
721816	जूवाअ	सूबे सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
721922	जूवाअ	अब्दुल रसाक एम एम	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
722284	जूवाअ	शान्ति रंजन महान्ति	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
722708	जूवाअ	श्याम वीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
722740	जूवाअ	सुरेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
723530	जूवाअ	अवध किशोर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
723624	जूवाअ	राजीव कुमार राठी	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
724036	जूवाअ	अरविन्द कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
724534	जूवाअ	बलवान सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
724641	जूवाअ	अनिल कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
780872	जूवाअ	मुशिद आलम	एम टी ड्राईवर	01-जून-2022
628992	जूवाअ	झंकार कुंडू	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629238	जूवाअ	सतपाल सिंह खोखरा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
629474	जूवाअ	बलवान सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705063	जूवाअ	त्रिजय कुमार शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705079	जूवाअ	शेख अबदुल कलाम	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705228	जूवाअ	प्रेम पाल सिंह रुहल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
705550	जूवाअ	उमेश प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
706293	जूवाअ	अशोक कुमार गुप्ता	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720052	जूवाअ	श्री भगवान	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720240	जूवाअ	जोगेंदर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720733	जूवाअ	कन्हैया लाल यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720734	जूवाअ	भगत सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720812	जूवाअ	राज सिंह मेहता	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720851	जूवाअ	राकेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
720918	जूवाअ	मिथलेश शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721265	जूवाअ	अर्जुन सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721354	जूवाअ	गोरधन राठी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721368	जूवाअ	फेरोज़ हुसैन	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721619	जूवाअ	पेमचंद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721684	जूवाअ	संजीव कुमार मलिक	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
721770	जूवाअ	राज कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722054	जूवाअ	अभिलेश कुमार चौधरी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722352	जूवाअ	राकेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722644	जूवाअ	अनिल कुमार यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722698	जूवाअ	हरदीप सिंह शेखावत	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722874	जूवाअ	योगेंद्र	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
722884	जूवाअ	सुभाष चंद्र चौरसिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723013	जूवाअ	राम लाल	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723015	जूवाअ	राजेन्द्र कुमार प्रजापत	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723136	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723142	जूवाअ	प्रदीप कुमार जेना	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723160	जूवाअ	कुमार गौतम	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723166	जूवाअ	रंजित कुमार शॉ	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723183	जूवाअ	सुरेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723198	जूवाअ	मनजीत सिंह कादयॉन	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723199	जूवाअ	राम कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723203	जूवाअ	भवदीप कुमार शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723283	जूवाअ	खुशीराम मीना	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723345	जूवाअ	जसवीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723365	जूवाअ	आनन्द कुमार गुप्ता	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723368	जूवाअ	सुभाष चंद्र माथुर	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723371	जूवाअ	विनय कुमार साहु	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723448	जूवाअ	ओमवीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723505	जूवाअ	राम निवास सिंह आजाद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723511	जूवाअ	जितेन्द्र यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723519	जूवाअ	नरसिंह राम चौधरी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723687	जूवाअ	विनीत कुमार सिंह भदौरिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
723693	जूवाअ	आलोक कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723697	जूवाअ	भारतेन्दु	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723710	जूवाअ	भगत सिंह रजवार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723745	जूवाअ	मौ शुएब सिद्दीकी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723889	जूवाअ	अनिल कुमार प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723916	जूवाअ	दीपक कुमार जैन	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723948	जूवाअ	हरेन्द्र सिंह चौहान	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
723969	जूवाअ	सतीश कुमार राय	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724103	जूवाअ	जय प्रकाश	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724114	जूवाअ	जयेष सी के	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724162	जूवाअ	धर्म सिंह कुशवाह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724164	जूवाअ	हनुमान सौंकरिया	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724179	जूवाअ	अशोक कुमार नाथ	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724306	जूवाअ	हीरा सिंह रावत	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724391	जूवाअ	दिलीप कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724393	जूवाअ	अवधेश यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724396	जूवाअ	अरूण कुमार यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724457	जूवाअ	बिपिन कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724529	जूवाअ	रामनिवास भारंगर	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724574	जूवाअ	नरेशकुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724602	जूवाअ	समर कुमार साहा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724614	जूवाअ	केशर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724640	जूवाअ	मनिन्द्र कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724643	जूवाअ	पंकज कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724650	जूवाअ	अशोक कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724656	जूवाअ	अवधेश कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724720	जूवाअ	प्रदीप एस	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724725	जूवाअ	निरज कुमार नवीन	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724746	जूवाअ	देवेन्द्र प्रसाद चौधरी	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724756	जूवाअ	बादशाह यादव	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724767	जूवाअ	विजय सिंह ठाकुर	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724768	जूवाअ	ब्यास सिन्हा	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724779	जूवाअ	सत्य प्रकाश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
724790	जूवाअ	निरंजन कुमार	एम टी ड्राईवर	01-जुलाई-2022
628561	जूवाअ	छत्र पाल	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
720315	जूवाअ	उत्तम कुमार पात्र	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721652	जूवाअ	राकेश कुमार पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723105	जूवाअ	नरेन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723337	जूवाअ	कुलबीर सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723340	जूवाअ	प्रमोद कुमार ओझा	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
723568	जूवाअ	श्रीपति पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723884	जूवाअ	शशिकांत यादव	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
723962	जूवाअ	रमाकांत यादव	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724796	जूवाअ	अमर कुमार शुक्ल	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724799	जूवाअ	विजय कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724906	जूवाअ	पुनीत पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724946	जूवाअ	सरवर आलम अंसारी	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724948	जूवाअ	महेश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724954	जूवाअ	मोहम्मद नियाजुद्दीन	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724965	जूवाअ	मुरारी कुमार प्रसाद	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724991	जूवाअ	जय प्रकाश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
724998	जूवाअ	उमेश कुमार भारती	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
780021	जूवाअ	प्रवीण कुमार चौबे	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
780046	जूवाअ	रवि कान्त चौहान	एम टी ड्राईवर	01-अगस्त-2022
721802	जूवाअ	सूरज देव प्रसाद	एम टी ड्राईवर	०५-अगस्त-2022
628903	जूवाअ	भरत पाण्डेय	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
705546	जूवाअ	ब्रह्मनंद यादव	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
780168	जूवाअ	रंजीत कुमार	एम टी ड्राईवर	01-सितम्बर-2022
628412	जूवाअ	सोहन सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
684685	जूवाअ	रमेश चन्द्र शाक्य	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
705171	जूवाअ	इंद्र सिंह धत्रवाल	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
705535	जूवाअ	महीपाल भाटी	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780181	जूवाअ	नीरज कुमार सरोज	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780188	जूवाअ	एन शिधर राव	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780202	जूवाअ	धनजय शंकर वर्मा	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780220	जूवाअ	सलीश पी के	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780230	जूवाअ	सतीश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780342	जूवाअ	सत्येन्द्र सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780407	जूवाअ	अजीत कुमार शर्मा	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780532	जूवाअ	पवन कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780558	जूवाअ	अजीत कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780569	जूवाअ	सुनील कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780574	जूवाअ	विनय कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
780628	जूवाअ	अजीत कुमार	एम टी ड्राईवर	01-अक्तूबर-2022
629278	जूवाअ	राजेश सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
720994	जूवाअ	राणा पप्पू कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
722101	जूवाअ	शैजू के ए	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780658	जूवाअ	निरंजन कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780692	जूवाअ	विशाल कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780821	जूवाअ	गजेन्द्र कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
780857	जूवाअ	नागेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780892	जूवाअ	सुशील कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780941	जूवाअ	शैलेश कुमार परासर	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
780958	जूवाअ	रवि भूषण तिवारी	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781011	जूवाअ	श्री प्रकाश गुप्ता	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781040	जूवाअ	रणविजय कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781056	जूवाअ	अरविन्द कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781058	जूवाअ	अजित कुमार सुमन	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781109	जूवाअ	वाइ सतीश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781145	जूवाअ	सुसान्त कुमार बलियारसिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781170	जूवाअ	उमाकान्त नायक	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781172	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781258	जूवाअ	संजय कुमार पाठक	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781340	जूवाअ	नीरज कुमार	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781354	जूवाअ	उमा शंकर प्रसाद सिंह	एम टी ड्राईवर	01-नवम्बर-2022
781391	जूवाअ	राजीव कुमार	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
781426	जूवाअ	उमेश कुमार	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
781430	जूवाअ	रंजन कुमार सिंह	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
781493	जूवाअ	मनीष कुमार	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
781567	जूवाअ	अनीष कुमार एन	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
781572	जूवाअ	दीपु गोपिनाथ	एम टी ड्राईवर	01-दिसम्बर-2022
790164	जूवाअ	गणेश कुमार पाल	म्यूजिशियन	01-जनवरी-2022
749622	जूवाअ	दिलीप कुमार बेरा	म्यूजिशियन	01-अगस्त-2022
749624	जूवाअ	मोहम्मद नूर जमाल हुसैन	म्यूजिशियन	01-अगस्त-2022
791739	जूवाअ	श्री प्रनव कुमार बेहेरा	म्यूजिशियन	01-नवम्बर-2022
761180	जूवाअ	प्रदीप प्रभाकर त्रिपाठी	फोटो फिटर	01-जनवरी-2022
762157	जूवाअ	उपेन्द्र कुमार	फोटो फिटर	01-जून-2022
762812	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	फोटो फिटर	01-जून-2022
762854	जूवाअ	जोगिन्द्र कुमार	फोटो फिटर	01-जून-2022
764886	जूवाअ	उमेश कुमार सिंह	फोटो फिटर	01-जून-2022
797538	जूवाअ	नरेन्द्र कुमार वर्मा	फोटो फिटर	01-जुलाई-2022
919505	जूवाअ	कुलदेव सिंह	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-मई-2022
920562	जूवाअ	गजराज सिंह	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
921891	जूवाअ	गौरव डागुर	पारा जम्पिंग इंस्ट्रक्टर	01-जून-2022
764854	जूवाअ	रवि प्रकाश जायसवाल	पी एम फिटर (ई)	01-मई-2022
764826	जूवाअ	चन्द्र शेखर महान्त	पी एम फिटर (ई)	01-जून-2022
764950	जूवाअ	चन्द्र मोहन मौर्य	पी एम फिटर (ई)	01-जून-2022
764395	जूवाअ	लोकेश कुमार	पी एम फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
764829	जूवाअ	मुकेश कुमार श्रीवास्तव	पी एम फिटर (ई)	01-जुलाई-2022
764837	जूवाअ	आजाद कुमार भट्टमिश्रा	पी एम फिटर (ई)	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
764997	जूवाअ	संजय कुमार	पी एम फिटर (ई)	01-दिसम्बर-2022
798928	जूवाअ	राकेश कुमार सिंह	पी एम फिटर (ई)	01-दिसम्बर-2022
786470	जूवाअ	भूपेन्द्र कुमार	पी एम फिटर (एम)	01-अप्रैल-2022
786486	जूवाअ	रंजन कंठी मजुमदार	पी एम फिटर (एम)	01-अप्रैल-2022
786344	जूवाअ	वि एस एन आर विजय कुमार अद्धेपल्लि	पी एम फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
786349	जूवाअ	रवि बाबा	पी एम फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
786351	जूवाअ	रणजीत कुमार उपाध्याय	पी एम फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
786909	जूवाअ	प्रवेश कुमार तिवारी	पी एम फिटर (एम)	01-दिसम्बर-2022
786964	जूवाअ	रंजित रामकृष्णन	पी एम फिटर (एम)	01-दिसम्बर-2022
744088	जूवाअ	मंजेश कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744462	जूवाअ	अतुल कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744463	जूवाअ	विकाश विश्वकर्मा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744473	जूवाअ	तेजवीर सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744475	जूवाअ	राकेश कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744484	जूवाअ	दीपक कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744486	जूवाअ	रीतेश कुमार शरण	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744490	जूवाअ	जय पाल	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744494	जूवाअ	राहुल कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744505	जूवाअ	गयादीन पाल	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744513	जूवाअ	प्रवीण कुमार पाठक	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744519	जूवाअ	प्रवीण कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744524	जूवाअ	आशुतोष कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744537	जूवाअ	सुनील कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744540	जूवाअ	रवि रंजन	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744547	जूवाअ	दिगंबर कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744556	जूवाअ	दीपक कुमार शर्मा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744560	जूवाअ	कुमार अमित	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744565	जूवाअ	राजीव प्रकाश गुप्ता	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744569	जूवाअ	वरुण कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744584	जूवाअ	अरविन्द कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744592	जूवाअ	गौरव कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744594	जूवाअ	सुमन कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744595	जूवाअ	विशाल	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744597	जूवाअ	शिव कुमार तिवारी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744599	जूवाअ	शैलेन्द्र कुमार ओझा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744613	जूवाअ	रंजन कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744619	जूवाअ	दीपक कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744621	जूवाअ	अमित कुमार चौरसिया	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744622	जूवाअ	राज कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744640	जूवाअ	सुनील पान्डे	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
744641	जूवाअ	नवाब अली	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744651	जूवाअ	अश्विन कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744654	जूवाअ	राम किशोर कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744655	जूवाअ	मुकेश कुमार द्विवेदी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744657	जूवाअ	मिलन जी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744666	जूवाअ	सुमित कुमार गुप्ता	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744667	जूवाअ	दीपक कुमार राजा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744670	जूवाअ	समर प्रताप सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744672	जूवाअ	तिरुक्कोल्लुरु विनोद कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744673	जूवाअ	निराला	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744674	जूवाअ	कमलजीत कुमार सिन्हा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744678	जूवाअ	के पॉल राजशेखरन	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744679	जूवाअ	संजय कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744681	जूवाअ	सत्येन्द्र कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744685	जूवाअ	आनंद किशोर	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744689	जूवाअ	जय प्रकाश नारायण गुप्ता	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744705	जूवाअ	बब्लु कुमार ठाकुर	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744710	जूवाअ	अविनाश कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744715	जूवाअ	मनोज कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744724	जूवाअ	सचिन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744739	जूवाअ	मृत्युंजय कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744744	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744746	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744754	जूवाअ	भूपेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744848	जूवाअ	राजीव रंजन कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744852	जूवाअ	अम्बर सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744853	जूवाअ	सत्यप्रकाश कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744856	जूवाअ	स्नेह कुमार गुप्ता	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744858	जूवाअ	अरुण कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744859	जूवाअ	विवेक मोहन यादव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744863	जूवाअ	अजय कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744865	जूवाअ	विनय कुमार यादव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744867	जूवाअ	त्रिजय लाम्बा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744868	जूवाअ	जिया आलम	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744878	जूवाअ	नरेन्द्र कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744885	जूवाअ	मोनु प्रसाद मुण्डा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744887	जूवाअ	प्रणव कुमार प्रवीण	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744889	जूवाअ	शिवम पाण्डेय	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744901	जूवाअ	मोहम्मद शोकथ ए	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744904	जूवाअ	आशीष कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
744906	जूवाअ	के किशोर यर्रमसेट्टि	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744907	जूवाअ	अमित कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744913	जूवाअ	सुबे सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744914	जूवाअ	प्रवीण कुमार गोपिनाथु	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744917	जूवाअ	खुमुजम सुरजित सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744924	जूवाअ	सुजित कुमार सी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744932	जूवाअ	विनय कुमार श्रेष्ठ	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744939	जूवाअ	पंकज कुमार छेत्री	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744940	जूवाअ	धनंजय कुमार सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744946	जूवाअ	यथर्वेन्द्र प्रताप सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744956	जूवाअ	राजीव रंजन कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744961	जूवाअ	संजेश सिंह भदौरिया	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744968	जूवाअ	नैला कामेस्वरा राव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744969	जूवाअ	प्रताप कुमार चौबे	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744970	जूवाअ	लवकुश	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744971	जूवाअ	सुधाकान्त मिश्रा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744973	जूवाअ	वीरमणि कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744977	जूवाअ	प्रमोद सिंह भन्डारी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744981	जूवाअ	अरविन्द कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744989	जूवाअ	दिनेश यादव	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744997	जूवाअ	राजीव रंजन कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906001	जूवाअ	संदीप थपलियाल	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906006	जूवाअ	भास्कर ध्यानी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906007	जूवाअ	भास्कर बनर्जी	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906012	जूवाअ	नितिन उत्तम	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906014	जूवाअ	अविनाश पाण्डेय	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906019	जूवाअ	लखिनाना भानुप्रताप	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906020	जूवाअ	अमित राज	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906033	जूवाअ	समर पाल सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906035	जूवाअ	रामोजी राव मल्ला	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906037	जूवाअ	धर्मा राव अंगा	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906039	जूवाअ	रामरूप सिंह	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906042	जूवाअ	रितेश कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906043	जूवाअ	आलोक कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906050	जूवाअ	प्रमोद कुमार शुक्ला	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
906278	जूवाअ	त्रिलोकी कुमार	रेडार फिटर	01-जुलाई-2022
744186	जूवाअ	अमित कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
744465	जूवाअ	अनिल कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
744488	जूवाअ	राजीव कुमार रंजन	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
744536	जूवाअ	मुकेश कुमार ठाकुर	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
906282	जूवाअ	प्रशान्त कुमार तिवारी	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
906296	जूवाअ	अविनाश कुमार दत्त	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
906297	जूवाअ	प्रमोद कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
906301	जूवाअ	दिवाकर झा	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
906302	जूवाअ	पंकज कुमार	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
906307	जूवाअ	कुमार आनंद	रेडार फिटर	01-अगस्त-2022
744902	जूवाअ	राजेश कुमार	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
744934	जूवाअ	धिरज सिंह	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
744985	जूवाअ	पंकज कुमार कुशवाहा	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
906003	जूवाअ	प्रदीप कुमार	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
906005	जूवाअ	आडलअरसन आर	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
906286	जूवाअ	कानेटि शान्ता रत्ना राजु	रेडार फिटर	01-सितम्बर-2022
744947	जूवाअ	प्रशान्त कुमार त्रिपाठी	रेडार फिटर	01-नवम्बर-2022
792827	जूवाअ	भरत	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2021
793109	जूवाअ	सलिनंदर सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2021
748446	जूवाअ	चक्का भस्करा राव	रेडियो फिटर	01-फरवरी-2022
793122	जूवाअ	दुर्गेश कुमार शुक्ला	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793296	जूवाअ	जय प्रकाश तिवारी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793300	जूवाअ	अविनाश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793311	जूवाअ	फर्णांद्र भूषण	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793316	जूवाअ	आलोक कुमार ठाकुर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793317	जूवाअ	दीपक कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793318	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793321	जूवाअ	निशिकान्त बाई	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793323	जूवाअ	पुरंजय विद्यार्थी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793326	जूवाअ	एस श्रिनिवास	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793335	जूवाअ	सुभाष कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793337	जूवाअ	विनोद कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793339	जूवाअ	अजीत कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793342	जूवाअ	अजित कुमार साह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793345	जूवाअ	लोकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793349	जूवाअ	संतोष कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793350	जूवाअ	श्याम सुन्दर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793354	जूवाअ	अरविन्द कुमार मुर्मू	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793356	जूवाअ	अविनाश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793363	जूवाअ	मो फरीद खान	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793366	जूवाअ	त्रिजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793368	जूवाअ	छोटेलाल शर्मा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793369	जूवाअ	सुनील कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793372	जूवाअ	अजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
793375	जूवाअ	कृष्ण कान्त दुबे	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793378	जूवाअ	प्रेम रंजन कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793383	जूवाअ	कुमार गौरव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793385	जूवाअ	सुजीत कुमार चौधरी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793391	जूवाअ	नूर मौहम्मद	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793392	जूवाअ	राजपाल यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793395	जूवाअ	पवन कुमार केशरी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793396	जूवाअ	रणजीत कुमार रंजन	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793397	जूवाअ	परमेश कुमार साव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793398	जूवाअ	रवीन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793413	जूवाअ	अभय सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793416	जूवाअ	उमा शंकर भारद्वाज	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793417	जूवाअ	हरिभूषण कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793418	जूवाअ	तिरुमला रेड्डी रमेश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793419	जूवाअ	सुधाकर शर्मा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793425	जूवाअ	सुमीत कुमार दास	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793426	जूवाअ	सुभाष कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793427	जूवाअ	विकास कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793430	जूवाअ	कर्ण कुमार सुरज	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793432	जूवाअ	सतीश कुमार वर्मा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793433	जूवाअ	राजीव रंजन	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793435	जूवाअ	शमशेर बहादुर सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793436	जूवाअ	अरुण मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793438	जूवाअ	नरेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793444	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793446	जूवाअ	मुकुल कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793449	जूवाअ	रवि शंकर सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793450	जूवाअ	अशोक कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793456	जूवाअ	साकेत सुमन	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793460	जूवाअ	नीरज कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793468	जूवाअ	अतुल राजवैद्य	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793471	जूवाअ	उपेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793474	जूवाअ	राज कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793475	जूवाअ	सुनील कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793483	जूवाअ	त्रिजयपाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793490	जूवाअ	मनोरंजन कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793491	जूवाअ	नन्द किशोर झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793492	जूवाअ	विजय प्रताप सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793505	जूवाअ	अमित कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793510	जूवाअ	पंकज कुमार झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
793511	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793513	जूवाअ	विश्वजीत आनन्द	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793519	जूवाअ	अभिषेक सिंह राठौर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793520	जूवाअ	अशुतोष कुमार पाण्डेय	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793521	जूवाअ	मधुवन मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793525	जूवाअ	संजीव कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793526	जूवाअ	मुकेश कुमार झा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793528	जूवाअ	मनोरंजन कुमार पाण्डेय	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793536	जूवाअ	अरुण कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793537	जूवाअ	राजू कुलकर्णी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793538	जूवाअ	राजेश कुमार सुमन	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793711	जूवाअ	नरेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793714	जूवाअ	अवधेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793718	जूवाअ	कुलदीप कुमार त्रिवेदी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793720	जूवाअ	मनोज कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793722	जूवाअ	अभिषेक कुमार ठाकुर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793723	जूवाअ	सुरेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793725	जूवाअ	आनन्द प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793729	जूवाअ	सुजीत कुमार पण्डा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793733	जूवाअ	राकेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793739	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793741	जूवाअ	जसवन्त सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793745	जूवाअ	प्रदीप	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793747	जूवाअ	सुनील कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793748	जूवाअ	उमेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793750	जूवाअ	सौरभ कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793751	जूवाअ	बांदल भाऊसाहेब सुर्यकांत	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793753	जूवाअ	मुहम्मद थमीम पी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793757	जूवाअ	संजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793760	जूवाअ	नीरज परिहार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793763	जूवाअ	जितेन्द्र प्रताप सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793764	जूवाअ	प्रसाद के वी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793765	जूवाअ	सुनील कुमार राय	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793769	जूवाअ	राम कृपाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793772	जूवाअ	गोविन्द बल्लभ जोशी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793773	जूवाअ	प्रदीप कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793776	जूवाअ	रवि रंजन कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793779	जूवाअ	सत्यपाल सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793780	जूवाअ	राजीव मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793784	जूवाअ	इजजुरौथु मुरली	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
793785	जूवाअ	राकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793791	जूवाअ	मुकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793793	जूवाअ	दुर्गेश कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793796	जूवाअ	अशरफ अंसारी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793802	जूवाअ	किशोर कुमार कुन्चा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793803	जूवाअ	दीपक मिश्रा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793805	जूवाअ	निरंजन कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793806	जूवाअ	आशुतोष कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793815	जूवाअ	रणदेव सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793823	जूवाअ	सन्दीप कुमार पिलानिया	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793825	जूवाअ	सुजित कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793827	जूवाअ	विजय सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793834	जूवाअ	विकास कुमार यादव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793838	जूवाअ	अमित कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793844	जूवाअ	राज किरन पाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793847	जूवाअ	राकेश कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793849	जूवाअ	सुधीर कुमार चौहान	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793858	जूवाअ	अमित कुमार गुप्ता	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793860	जूवाअ	पंडित नीलकमल निराला	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793864	जूवाअ	अजीत कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793865	जूवाअ	मुहम्मद शाहिद	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793869	जूवाअ	मोहम्मद फिरोज खान	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793872	जूवाअ	यशवंत कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793880	जूवाअ	बिमल कुमार मंडल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793883	जूवाअ	सचिन नायक	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793888	जूवाअ	हरिओम सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793890	जूवाअ	राज कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793891	जूवाअ	सुमेश एस नायर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793893	जूवाअ	दीपेश यू	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793897	जूवाअ	अनुप कुमार गुप्ता	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793903	जूवाअ	नरसिम्हा मुरथी बर्ला	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793909	जूवाअ	उमेन्द्र कुमार त्रिपाठी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793919	जूवाअ	निरंजन महाराणा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793935	जूवाअ	शान्ति भूषण	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793938	जूवाअ	त्रिजय कुमार मंडल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793939	जूवाअ	तविटि नायडु करि	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793940	जूवाअ	नायडु बाबु बैलापूडि	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793943	जूवाअ	अजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793944	जूवाअ	नन्दकिशोर मंडल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793945	जूवाअ	संजय कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
793947	जूवाअ	श्रीजित एम	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793950	जूवाअ	शेर बहादुर सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793951	जूवाअ	शैलेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793952	जूवाअ	अनिष के ए	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793953	जूवाअ	ऋषि कान्त	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793955	जूवाअ	सोमदत्त शर्मा	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793961	जूवाअ	रविश कुमार रजक	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793963	जूवाअ	अंजनी कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793967	जूवाअ	क्षितिज कुमार पंकज	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793968	जूवाअ	सुनील कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793969	जूवाअ	आशीष कुमार चौरसिया	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793974	जूवाअ	रतीष जी नायर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793980	जूवाअ	चेतन पँवार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793985	जूवाअ	वाहेद अली अहमद	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793986	जूवाअ	शान्तनु रुद्र पाल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793991	जूवाअ	ऐस ऐस ऐन प्रसाद देव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793992	जूवाअ	पारस कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793993	जूवाअ	रामाकान्त सिंह	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793996	जूवाअ	अनुज श्रीवास्तव	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794000	जूवाअ	सुमीत कुमार	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794003	जूवाअ	प्रनब दास	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794005	जूवाअ	नवल किशोर	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794006	जूवाअ	अमर नाथ	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794007	जूवाअ	मोहन राव डुम्पल	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794010	जूवाअ	प्रेम प्रकाश	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794012	जूवाअ	दिलीप कुमार सरंगी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794018	जूवाअ	आशुतोष कुमार तिवारी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794019	जूवाअ	रमेश चन्द्र सेठी	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
794025	जूवाअ	समीर कुमार रथ	रेडियो फिटर	01-जुलाई-2022
793126	जूवाअ	रविन्द्र	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
793387	जूवाअ	पंकज कुमार मंडल	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
793534	जूवाअ	महेन्द्र प्रताप भारती	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
793792	जूवाअ	सुधीर साह	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
793853	जूवाअ	अर्जुन कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
793896	जूवाअ	राहुल कुमार	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
794004	जूवाअ	आनंद कपूर	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
794016	जूवाअ	अनिल कुमार झा	रेडियो फिटर	01-अगस्त-2022
719215	जूवाअ	गजेन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2021
745026	जूवाअ	अनिल कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2021
746362	जूवाअ	अम्बिका रमण ठाकुर	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2021

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
687025	जूवाअ	कसिम अंसारी	रेडियो टेक्नीशियन	01-फरवरी-2022
691977	जूवाअ	सुरेन्द्र शुक्ला	रेडियो टेक्नीशियन	01-फरवरी-2022
745691	जूवाअ	जोस जि	रेडियो टेक्नीशियन	01-फरवरी-2022
719260	जूवाअ	राजकुमार सिंह यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
719943	जूवाअ	शिव कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
719976	जूवाअ	शशि कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
745039	जूवाअ	रजनश कुमार शाक्य	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
746249	जूवाअ	संजीव कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
746788	जूवाअ	प्रमोद कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
747916	जूवाअ	बासुदेव साहु	रेडियो टेक्नीशियन	01-अप्रैल-2022
685446	जूवाअ	संजय कुमार श्रीवास्तव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
687339	जूवाअ	अरविन्द कुमार गुप्ता	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
706950	जूवाअ	उमा शंकर दीक्षित	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
718205	जूवाअ	देवीदयाल यादव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
718341	जूवाअ	सुवेन्द्र कुमार त्रिपाठी	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
718897	जूवाअ	जोस के एस	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
719243	जूवाअ	मुकेश कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
745985	जूवाअ	कुमार अभयजीत सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
745993	जूवाअ	देव कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
746137	जूवाअ	सतवीर सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
746163	जूवाअ	रविन्द्र कुमार शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
748742	जूवाअ	अजित कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जून-2022
687178	जूवाअ	चमन प्रकाश शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
717373	जूवाअ	सत्यपाल	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
717717	जूवाअ	मौहम्मद नासिर	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718007	जूवाअ	जितेन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718008	जूवाअ	रामकुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718026	जूवाअ	ऋषि पाल शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718027	जूवाअ	किशन पाल सिंह राघव	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718850	जूवाअ	अनिल कुमार शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718913	जूवाअ	नरेंद्र कुमार मिश्र	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719177	जूवाअ	राजेन्द्र सिंह मलिक	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719179	जूवाअ	विजेन्द्र	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719225	जूवाअ	नरेश कुमार भारद्वाज	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719500	जूवाअ	अरूण कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719517	जूवाअ	हाशिम अली	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719554	जूवाअ	गोपाल सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719565	जूवाअ	राम भजन चौहान	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719568	जूवाअ	अनुप कुमार परिडा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719576	जूवाअ	देवकान्त देवघरिया	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
719651	जूवाअ	बच्चन बाबू	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719915	जूवाअ	राजेन्द्र सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719929	जूवाअ	अमर नाथ राजपूत	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
719945	जूवाअ	मृत्युंजय प्रसाद मौर्य	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745001	जूवाअ	राम कृपाल चौबे	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745538	जूवाअ	छोटेलाल सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745577	जूवाअ	रमेश चंद्र प्रकाश	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745623	जूवाअ	अवधेश गौतम	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745734	जूवाअ	किशोर चंद्र प्रधान	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745781	जूवाअ	मनोज कुमार शर्मा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745789	जूवाअ	शहजादा	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745796	जूवाअ	बिप्लव दे	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
745975	जूवाअ	श्रवण कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746160	जूवाअ	सुनील चन्द्र हलदर	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746262	जूवाअ	अजय कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746407	जूवाअ	सुरेंद्र कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746699	जूवाअ	सुर्यन सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
746991	जूवाअ	सुनील गुप्ता	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747184	जूवाअ	संतोष कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747414	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
747911	जूवाअ	धर्मेन्द्र कुमार दूबे	रेडियो टेक्नीशियन	01-जुलाई-2022
718947	जूवाअ	जय प्रकाश झा	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
745586	जूवाअ	अभय कुमार राजपूत	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
746245	जूवाअ	तरुण कुमार बाली	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
746917	जूवाअ	ज्ञानेश कुमार शुक्ल	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
747192	जूवाअ	प्रमोद कुमार सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
748048	जूवाअ	सुखबीर सिंह पूनियाँ	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
748256	जूवाअ	कदम दीपक किसन	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
748280	जूवाअ	मोहम्मद जहाँगीर अहमद	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
748755	जूवाअ	दुर्गा प्रसाद साहु	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
792421	जूवाअ	प्रमोद कुमार नायक	रेडियो टेक्नीशियन	01-अगस्त-2022
686718	जूवाअ	गिरि राज शरण सिंह	रेडियो टेक्नीशियन	01-सितम्बर-2022
748249	जूवाअ	विजय कुमार मनोरे	रेडियो टेक्नीशियन	01-सितम्बर-2022
686927	जूवाअ	अशोक कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
716841	जूवाअ	प्रतापादित्य घोष	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
745697	जूवाअ	ई एल सुनील कुमार	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
747906	जूवाअ	कौकब आलम	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
792423	जूवाअ	मनमोहन पाणिग्राही	रेडियो टेक्नीशियन	01-नवम्बर-2022
786316	जूवाअ	मंगल प्रसाद	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786321	जूवाअ	विजय प्रकाश प्रजापति	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
786452	जूवाअ	राजीव कुमार झा	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786455	जूवाअ	सतीश कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786462	जूवाअ	पिंटू कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786611	जूवाअ	मो कैसर हयात	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786614	जूवाअ	प्रसुन गांगुली	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786617	जूवाअ	विजय नन्द	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786619	जूवाअ	मनीष कुमार सिंह	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786622	जूवाअ	हर्षवर्धन वाष्णोय	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786628	जूवाअ	रनदेव प्रधान	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अप्रैल-2022
786312	जूवाअ	शत्रुघ्न प्रसाद	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786323	जूवाअ	राजेश कुमार मिश्रा	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786454	जूवाअ	बिनोय जया कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786612	जूवाअ	अरिन्दम मल्लिक	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786625	जूवाअ	अर्नब दासगुप्ता	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786626	जूवाअ	मनोज कुमार सिंह	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786872	जूवाअ	अमीत कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786887	जूवाअ	प्रदीप कुमार दुबे	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786889	जूवाअ	राजेश रंजन	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786890	जूवाअ	अमित कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-जुलाई-2022
786464	जूवाअ	अश्विन कुमार	सेफ्टी इन्फ्रिपमेंट वर्कर	01-अगस्त-2022
719485	जूवाअ	नवीन कुमार तिवारी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2021
640980	जूवाअ	धर्मवीर हुड्डा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
716775	जूवाअ	रमेश कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
717881	जूवाअ	रवीन्द्र नाथ ओहदार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
718662	जूवाअ	अरविन्द कुमार शर्मा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
719465	जूवाअ	संजय कुमार यादव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
790433	जूवाअ	अनिल कुमार सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
792160	जूवाअ	हुईद्रोम गोरजीत सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अप्रैल-2022
717090	जूवाअ	गिरीश कुमार गौड़	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जून-2022
718983	जूवाअ	देवेन्द्र कुमार कर्ण	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जून-2022
748537	जूवाअ	प्रवीन झा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जून-2022
790688	जूवाअ	अजय कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जून-2022
640667	जूवाअ	तापस साहा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640774	जूवाअ	विश्वेश्वर द्विवेदी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
640978	जूवाअ	बलराज सिंह ढांडा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
706963	जूवाअ	पवन कुमार हुद्दा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716374	जूवाअ	चंद्र शेखर द्विवेदी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716713	जूवाअ	अशोक कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716938	जूवाअ	स्वपन कुमार साउ	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717018	जूवाअ	दिलीप कुमार कुण्डु	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
717478	जूवाअ	विरेन्द्र सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717518	जूवाअ	श्री कुमार के एन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717833	जूवाअ	नरेन्द्र सिंह गिल	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
717926	जूवाअ	शमु शिंदे	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
718692	जूवाअ	जितेन्द्र कुमार त्यागी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
718976	जूवाअ	विकास त्रिपाठी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719271	जूवाअ	योगेन्द्र सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719431	जूवाअ	रजिन्दर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719760	जूवाअ	राजपाल यादव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
719782	जूवाअ	अरुण महतो	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745046	जूवाअ	हरेन्द्र कुमार साह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745071	जूवाअ	कुबेर कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745115	जूवाअ	दिनेश प्रसाद	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745352	जूवाअ	साँवर मल कुम्हार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745686	जूवाअ	एस अमरदेव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745845	जूवाअ	हरपाल सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
745878	जूवाअ	बिनोद कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
746168	जूवाअ	राम शरन सिंह चौहान	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
746178	जूवाअ	मामराज	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
746181	जूवाअ	पाण्डेय पारस नाथ	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
746673	जूवाअ	उत्तम सेन	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
746834	जूवाअ	उदय भान सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
747443	जूवाअ	महेश कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-जुलाई-2022
716021	जूवाअ	गोविन बोरा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
747719	जूवाअ	नरेन्द्र	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
748217	जूवाअ	राम रतन रमण	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
748220	जूवाअ	संजय कुमार झा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
748552	जूवाअ	शशि भान	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
748976	जूवाअ	बिजेंदर सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
749307	जूवाअ	संजीव कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
749310	जूवाअ	राजीव कुमार श्रीवास्तव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
749316	जूवाअ	अजय प्रताप सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
749326	जूवाअ	राम कृष्ण राय	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
790109	जूवाअ	महेश कुमार यादव	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
790127	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अगस्त-2022
639977	जूवाअ	प्रिथ्वी रज शर्मा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
640275	जूवाअ	शिव प्रसाद मोहंता	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
790134	जूवाअ	राजेश भारती	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
790145	जूवाअ	संतोष कुमार सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
790447	जूवाअ	नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
790448	जूवाअ	मो. जुवैर आलम	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-सितम्बर-2022
791011	जूवाअ	यशवन्त कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
791014	जूवाअ	जयंत बेनर्जी	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
792449	जूवाअ	त्रिजय कुमार	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
792451	जूवाअ	अमजद खान	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
792454	जूवाअ	गौतम सिन्हा	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-अक्तूबर-2022
639998	जूवाअ	सुभाष चंद गौतम	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
792161	जूवाअ	वांछेमयूम दीपक सिंह	टेलिफोनिस्ट आरटी आपरेटर	01-नवम्बर-2022
777964	जूवाअ	चंद्र प्रकाश	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778317	जूवाअ	रोशन जायसवाल	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778321	जूवाअ	प्रशान्त कुमार शिवा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778324	जूवाअ	गोविंद कुमार झा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778327	जूवाअ	बसंत कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778349	जूवाअ	प्रमोद कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778360	जूवाअ	अमित कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778363	जूवाअ	किल्लि मुसलमना	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778364	जूवाअ	देवेश सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778372	जूवाअ	मोहम्मद कैश सिद्दीकी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778384	जूवाअ	सुनील कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778795	जूवाअ	सौरभ शुक्ल	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778796	जूवाअ	कुँवर राज सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778806	जूवाअ	करुण कुमार रेड्डीपल्ली	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778809	जूवाअ	राकेश शर्मा	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778815	जूवाअ	नरेंद्र कुमार वेजंड्ला	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778818	जूवाअ	लक्ष्मी कान्त पाठक	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778820	जूवाअ	हरदीप सिंह नेगी	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778822	जूवाअ	श्याम सुन्दर	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778825	जूवाअ	संजय कुमार सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778827	जूवाअ	वांघेम प्रशंता सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778828	जूवाअ	सुनील कुमार	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778833	जूवाअ	दुखहरण साह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778837	जूवाअ	राजीव कुमार रंजन	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778841	जूवाअ	सेराम निथेम सिंह	वेपन फिटर	01-जुलाई-2022
778369	जूवाअ	योगेन्द्र सिंह	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
778373	जूवाअ	त्रिजय कुमार	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
778832	जूवाअ	सुमन कुमार	वेपन फिटर	01-अगस्त-2022
778322	जूवाअ	रोहित कुमार राय	वेपन फिटर	01-अक्तूबर-2022
778338	जूवाअ	अशोक कुमार	वेपन फिटर	01-नवम्बर-2022
734069	जूवाअ	भूपेश कुमार	वर्कशाप फिटर (बी)	01-अगस्त-2022
785916	जूवाअ	सतेन्द्र सिंह	वर्कशाप फिटर (बी)	01-सितम्बर-2022



सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल पदोन्नति की तारीख
785273	जूवाअ	सैयद ताहिर हुसैन	वर्कशाप फिटर (सी)	01-जुलाई-2022
785666	जूवाअ	सौरभ कुमार	वर्कशाप फिटर (सी)	01-अगस्त-2022
785687	जूवाअ	अम्रेन्द्र कुमार	वर्कशाप फिटर (सी)	01-अगस्त-2022
786230	जूवाअ	कुमार चंदन	वर्कशाप फिटर (सी)	01-दिसम्बर-2022
785424	जूवाअ	विवेक कुमार पाठक	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अप्रैल-2022
697711	जूवाअ	पी लक्ष्मा रेड्डी	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जून-2022
732942	जूवाअ	लखन लाल	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जून-2022
734124	जूवाअ	बलजीत कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जून-2022
734035	जूवाअ	रंजित सुतार	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734131	जूवाअ	मुकेश कुमार सिन्हा	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734480	जूवाअ	रजा रम सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734488	जूवाअ	मुकेश कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734609	जूवाअ	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734964	जूवाअ	बेचु साह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
734968	जूवाअ	मृत्युंजय कुमार मिश्रा	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
785556	जूवाअ	राधेश्याम प्रसाद	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
785573	जूवाअ	कुमार राजु	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
785574	जूवाअ	सुरेन्द्र महतो	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
786297	जूवाअ	अविनाश कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
786300	जूवाअ	राम बाबू वर्मा	वर्कशाप फिटर (एम)	01-जुलाई-2022
732469	जूवाअ	प्रार्थेन्द्र लाल दास	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अगस्त-2022
733731	जूवाअ	रविन्द्र कुमार सिंह	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अगस्त-2022
786298	जूवाअ	राजेश रौशन कुमार	वर्कशाप फिटर (एम)	01-अगस्त-2022

कुल 2093 (केवल दो हजार तिरान्वे) नाम

वसंता जे. बोवड़े

अवर सचिव

नौसेना शाखा  
जनवरी 21 कोर्स

संख्या 134 दिनांक 19 अगस्त 2023—राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्रालय मे शॉर्ट सर्विस कमिशन के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर भारतीय नौसेना की विभिन्न शाखाओं में पत्र संख्या एमएफ/1506/डीईएस/खंड-आईआई/03 दिनांक 07 अक्तूबर 21 द्वारा नियुक्त किया गया है:—

कार्यकारी शाखा (हवाई यातायात नियंत्रक)		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
विशाल सिंह	10328-Y	28/06/21
महक बीआला	10329-Z	28/06/21
सिमरनप्रीत कौर	10330-A	28/06/21

कार्यकारी शाखा (ऑब्जर्वर)		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
खुशबू चौधरी	10331-B	28/06/21
धवल नागर	10332-F	28/06/21
रजत नितिन कदम	10333-H	28/06/21
रामा ए	10334-K	28/06/21
तन्वी गुरु	10335-N	28/06/21
ख्याति मोहन	10336-R	28/06/21
कार्यकारी शाखा (पायलट एम आर )		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
तुषार मलिक	10337-T	28/06/21
अनमोल अग्निहोत्री	10338-W	28/06/21
साक्षी रागिनी	10339-Y	28/06/21
कार्यकारी शाखा (पायलट एम आर के अलावा )		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
निर्मल कुमार	10340-Z	28/06/21
पंकज सोलंकी	10341-A	28/06/21
आयुष द्विवेदी	10342-B	28/06/21
एम अदित्या	10343-F	28/06/21
मानवदीप सिंह	10344-H	28/06/21
लोहित अरविंद गिरि	10345-K	28/06/21
शिक्षा शाखा		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
जुही	70818-Z	28/06/21
नंदिनी ठाकुर	70819-A	28/06/21
निकिता संदीप गोरे	70820-B	28/06/21
प्रफुल्ल बालकृष्ण मोहिते	70821-F	28/06/21
कविन्दर सिंह	70822-H	28/06/21
मनीष कुमार मिश्रा	70823-K	28/06/21
कल्पना राणा	70824-N	28/06/21
शरण्य जी मराठे	70825-R	28/06/21
मानवी शेखावत	70826-T	28/06/21
पारुल सिंह	70827-W	28/06/21
प्रसीथा पी	70828-Y	28/06/21
सिमरन ठाकुर	70829-Z	28/06/21

स्वाति कुमारी	70830-A	28/06/21
निविथा जाने ए	70831-B	28/06/21
<b>कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर)</b>		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
नैनीका रौतेला	10346-N	28/06/21
माहीन गरुकुई	10347-R	28/06/21
सौरभ सिंह	10348-T	28/06/21
हर्षित घोटिया	10349-W	28/06/21
राजर्षि पॉल	10350-Y	28/06/21
अनु मोहन आर	10351-Z	28/06/21
दिव्य जोन ड्कौतो	10352-A	28/06/21
शर्मिला यूआरएस एसआर	10353-B	28/06/21
दीपांजली	10354-F	28/06/21
आवृति भट्ट	10355-H	28/06/21
अवन्तिका दुराईस्वामी	10356-K	28/06/21
<b>कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण कैडर)</b>		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
गुददेती मुशांत	10357-N	28/06/21
अभिषेक सेन	10358-R	28/06/21
श्रीपोनमलार पी	10359-T	28/06/21
नीलम राणा	10360-W	28/06/21
<b>तकनीकी शाखा (सामान्य सेवा) (वैधुत)</b>		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
केविन सोलोमन अरवा	53501-T	28/06/21
मोहित वर्मा	53502-W	28/06/21
उधितियांशु उज्ज्वल	53503-Y	28/06/21
अनुराग मलवार	53504-Z	28/06/21
साई स्वरूप केपी	53505-A	28/06/21
भुवन एच सी	53506-B	28/06/21
ऋत्विक राम	53507-F	28/06/21
साई प्रसाद कोया	53508-H	28/06/21
<b>तकनीकी शाखा (सामान्य सेवा) अभियांत्रिक</b>		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
वरुण स्वामी	44365-B	28/06/21
हर्षवर्धन सिंह राठोर	44366-F	28/06/21

जयेश दिनेश सुथार	44367-H	28/06/21	
नीरज कुमार	44368-K	28/06/21	
आयुष राज	44369-N	28/06/21	
आकाश दीप मुखिया	44370-R	28/06/21	
रवि कुमार	44371-T	28/06/21	
विक्रान्त पठानिया	44372-W	28/06/21	
प्राज्ञा श्रिंगी	44373-Y	28/06/21	
देवांश रोलयाना	44374-Z	28/06/21	
हरी शंकर एस	44375-A	28/06/21	
सुर्यकांत	44376-B	28/06/21	
अनिकेत कुदारावल्ली	44377-F	28/06/21	
सुमित संजय चौगले	44378-H	28/06/21	
मोहम्मद यासिर रियाज़	44379-K	28/06/21	
कुश प्रनाओ	44380-N	28/06/21	
कौशिक रामचंद्रन	44381-R	28/06/21	
अरुण आर	44382-T	28/06/21	
रवि एल	44383-W	28/06/21	
अज़ीम जहीरअहमद बेल्लारी	44384-Y	28/06/21	
कंचेरला अरुण तेजा	44385-Z	28/06/21	
अमन आकाश त्यागी	44386-A	28/06/21	
वीरा वेंकटा साई अविनाश पोन्नादा	44387-B	28/06/21	
अतुल कृष्णा एस	44388-F	28/06/21	
चंद्र मोहन शर्मा	44389-H	28/06/21	
सुयश पाल सिंह	44390-K	01/07/21	
तकनीकीशाखा (तकनीकी सूचना )			
क्रम	अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
	तुषार जिभाउ शेलर	10361-Y	28/06/21
	अभिनंदन शुक्ला	10362-Z	28/06/21
	विनय पंधारीनाथ शिंदे	10363-A	28/06/21
	विशाल शर्मा	10364-B	28/06/21
	अजय कुमार के एस	10365-F	28/06/21
तकनीकी शाखा (सामान्य सेवा )			
	अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
	शिवम युवराज अहिरे	10366-H	12/07/21
	मिहिर मोहन देशपांडे	10367-K	12/07/21

डोंगचे बापू	10368-N	12/07/21
करण दून्यनेश्वर ठाकरे	10369-R	12/07/21
पी ऋषभ कुमार	10370-T	12/07/21
अश्विन चन्द्रसेखर सागर	10371-W	12/07/21
नितीश कुमार तिवारी	10372-Y	12/07/21
अभिषेक शर्मा	10373-Z	12/07/21
सुमित पाटवा	10374-A	12/07/21
रवनीत सिंह	10375-B	12/07/21
हितार्थ नीलेश दानी	10376-F	12/07/21
शौर्य प्रताप सिंह राइकवर	10377-H	12/07/21
कर्तिकेय कौशिक	10378-K	12/07/21
रामावत सुनील नायक	10379-N	12/07/21
पार्थ सिंह	10380-R	12/07/21
सुमन दलाई	10381-T	12/07/21
संजीव यादव	10382-W	12/07/21
अनिकेत मोहन पवार	10383-Y	12/07/21
अर्चित यादव	10384-Z	12/07/21
प्रतीक अनूप ओझा	10385-A	12/07/21
गुरुदत्त पी माल्लया	10386-B	12/07/21
अनीश सुरेश	10387-F	12/07/21
अक्षय एस	10388-H	12/07/21
अदित्या कटारिया	10389-K	12/07/21
अशर शामिख	10390-N	12/07/21
गगनदीप सिंह सूद	10391-R	12/07/21
कार्यकारी शाखा (हाइड्रो)		
अधिकारी का नाम	निजी संख्या	कमीशन की तिथि
संप्रीत सिंह	10392-T	12/07/21

कमल कुमार  
उप निदेशक

NAVY BRANCH  
CORRIGENDUM

सं 135, दिनांक 19 अगस्त 2023—

1. Reference is made to The Gazette of India published on 29<sup>th</sup> Oct 2018(Chaitra 19, 1944) with registered no. DL-(N)-04/0007/2003-05 under Part I-Section 4.

2. The following amendment may be carried out at page no 2213 as follows :—

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर )-सब लेफ्टिनेंट

जुलाई 2013 कोर्स

FOR: श्रीष्टि ठाकुर (07617-K)

READ: सृष्टि ठाकुर (07617-K)

KAMAL KUMAR  
Deputy Director

सेना सचिव शाखा

सं. 136 दिनांक 19.08.2023. राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 42310 मेजर जनरल वी एस रानाडे को 01 अगस्त 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजिमेंट ओफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42387 ले जनरल एस एस महल, वी एस एम को 15 जुलाई 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 60 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47662 मेजर जनरल विक्रम कुमार को 01 अगस्त 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 64 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47064 मेजर जनरल मनोज नटराजन, एस सी, को 01 सितम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द बिहार रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41465 ले जनरल अजय सिंह, ए वी एस एम, को 08 अगस्त 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 71 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48510 ब्रिगेडियर संदीप सिंह को 31 अगस्त 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 66 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48182 ब्रिगेडियर पी एस दहिया को 25 अगस्त 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 48 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44736 मेजर जनरल संजय मैनी को 08 सितम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 90 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41025 ले जनरल टी एस ए नारायणन को 01 अक्टूबर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर आफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44919 मेजर जनरल ए वी रमेश को 01 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ कमांडेंट ऑफ द कोर आफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43216 मेजर जनरल बी पी सिंह को 01 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर आफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41599 ले जनरल आर के एस कुशवाहा को 01 अक्टूबर 2020 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर आफ ए ओ सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42753 ले जनरल सी बंसी पोनप्पा, ए वी एस एम, वी एस एम, को 01 नवम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 04889 मेजर जनरल प्रशांत भारद्वाज, वी एस एम\*\*, को 22 अक्टूबर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42294 मेजर जनरल एस झा को 04 नवम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ 15 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44477 मेजर जनरल विजय सिंह, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 17 होर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47002 मेजर जनरल जे एस मंगत, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 62 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

डी आर 10339 ले जनरल एन के साहू, वी एस एम, को 12 अक्टूबर 2020 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ ए डी कोर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47002 मेजर जनरल जे एस मंगत, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 69 आर्म्ड रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42777 मेजर जनरल रवि आर पाटिल, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजिमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42838 मेजर जनरल पी आर मुरली को 01 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजिमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41521 ले जनरल हर्ष गुप्ता, ए वी एस एम, वाई एस एम, वी एस एम को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ सी एम पी, एस एल, (आर ओ)/जनरल सर्विस ऐंड जैग के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 40703 ले जनरल हरपाल सिंह, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ इंजिनियर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41488 ले जनरल राजीव चौधरी, वी एस एम, को 01 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ बी आर ओ के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42475 ले जनरल सवनीत सिंह, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम, को 01 फरवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ गढवाल राईफल एंड गढवाल स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44065 मेजर जनरल मनजिंदर सिंह, वाई एस एम, वी एस एम, को 01 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द मद्रास रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 46214 ब्रिगेडियर मयंक अवस्थी को 01 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 65 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43667 ले जनरल के एस बरार को 25 दिसम्बर 2020 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 53 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42389 ले जनरल बी एस राजू, ए वी एस एम, वाई एस एम को 01 फरवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द जाट रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43252 मेजर जनरल के एच गवास को 04 जनवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिग्नल्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42794 ले जनरल एम वी सुचिन्द्र कुमार, वाई एस एम\*\*, वी एस एम को 01 मार्च 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द आसाम रेजीमेंट एंड अरुणाचल स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 54781 ब्रिगेडियर सुमित राणा को 26 फरवरी 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 7 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42542 ले जनरल एम के मागो, वाई एस एम, एस एम\*\* को 01 अप्रैल 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44098 मेजर जनरल संदीप महाजन, वी एस एम को 01 अप्रैल 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एस सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48094 मेजर जनरल के वी जौहर, वी एस एम को 01 अप्रैल 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 68 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44475 ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट को 01 अप्रैल 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 89 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 51929 ब्रिगेडियर नवनीत नरैन को 01 अप्रैल 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 20 लांसर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 52376 ब्रिगेडियर रोहित मेहरोत्रा को 23 मार्च 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द 72 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 04920 ले जनरल सुनिल कान्त, एस एम, वी एस एम को 30 मार्च 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 04918 ले जनरल संदीप मुखर्जी को 30 मार्च 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43658 मेजर जनरल हरी सिंह, वी एस एम को 11 मई 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ बंगाल सैपर्स एंड मिलिट्री सर्वे के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42538 ले जनरल अतुल्या सोलंकी, ए वी एस एम, एस एम को 01 जून 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 11 जी आर एंड सिविकम स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43858 मेजर जनरल मंजीत कुमार को 01 जून 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिग्नलस के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42771 मेजर जनरल संजय सिंह, ए वी एस एम, एस एम\*\*, वी एस एम को 01 जुलाई 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द पैराशूट रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41934 मेजर जनरल एस पी गोस्वामी, वी एस एम को 01 जुलाई 2021 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ ए ए डी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43166 मेजर जनरल एस के खन्ना को 02 जुलाई 2021 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ एम ई एस के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42958 ले जनरल हरि मोहन अय्यर एस, ए वी एस एम को 01 जुलाई 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42782 मेजर जनरल दीपक ओभराय, वी एस एम को 01 अगस्त 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43333 मेजर जनरल के नारायणन, ए वी एस एम, एस एम को 01 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द मराठा लाई रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42387 ले जनरल एस एस महल, वी एस एम को 12 सितम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 3 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43746 ले जनरल आदोश कुमार, ए वी एस एम, एस एम को 01 अक्टूबर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 53502 ब्रिगेडियर एम एस दिल्लीन को 14 सितम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 46 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।



आई सी 47004 ले जनरल पी एस शेखावत, एस एम को 01 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द मेक इंफ रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 51927 ब्रिगेडियर बिरेन्द्र सिंह बिष्ट को 01 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 13 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 51202 ब्रिगेडियर भानू खन्ना को 06 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 88 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48346 ब्रिगेडियर संदीप झुंजा को 06 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 70 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 04896 ले जनरल दलजीत सिंह, वी एस एम को 26 नवम्बर 2021 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49421 मेजर जनरल मोहित वाधवा को 03 दिसम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 5 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41083 ले जनरल ए एस भिन्डर, ए वी एस एम, वी एस एम को 05 दिसम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 15 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43796 ले जनरल समीर गुप्ता, वी एस एम को 30 दिसम्बर 2021 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43725 मनोज कुमार कटियार, ए वी एस एम को 01 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द राजपूत रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41858 ले जनरल सी पी करियप्पा, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 01 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द राजपुताना राईफल्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43370 ले जनरल जे पी मैथ्यू, ए वी एस एम, वी एस एम को 09 जनवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द पंजाब रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47213 मेजर जनरल अशोक कुमार को 12 जनवरी 2022 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ एम ई एस के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44044 ले जनरल धीरज सेठ को 17 जनवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 77 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 52727 ब्रिगेडियर मोहम्मद आरिफ शेख को 01 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 67 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 53712 ब्रिगेडियर करण खजूरिया को 01 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 75 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42298 ले जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, ए वी एस एम को 01 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द जाक रिफ एंड लद्दाख स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43262 ले जनरल ए अरुण, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम को 01 मार्च 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द गिनेडियर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41881 ले जनरल राकेश कपूर, वी एस एम को 27 जनवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए ओ सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47076 ले जनरल राकेश कपूर, वी एस एम को 06 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 43 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 41083 ले जनरल ए एस भिंडर, ए वी एस एम, वी एस एम को 08 फरवरी 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 16 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43297 मेजर जनरल जे एस सिडाना को 01 मार्च 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44056 मेजर जनरल आर एस यादव को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48955 मेजर जनरल विक्रम वर्मा, वी एस एम को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 18 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44095 मेजर जनरल ए के काशिम, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48046 मेजर जनरल राजेश पुष्कर, वी एस एम को 19 मार्च 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 74 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44044 ले जनरल धीरज सेठ, ए वी एस एम को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 59 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48955 मेजर जनरल विक्रम वर्मा, वी एस एम को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 50 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 05138 मेजर जनरल अरिंदम चटर्जी, वी एस एम को 12 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43245 ले जनरल एन एस राजा सुब्रमनी, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 23 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द गढ़वाल राईफल्स एंड गढ़वाल स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43285 ले जनरल देवेन्द्र प्रताप पांडे, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 मई 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द सिक्ख लाई रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42753 ले जनरल सी बंसी पोनप्पा, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 अप्रैल 2022 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ सी एम पी, जैंग एंड एस एल (आर ओ)/जनरल सर्विस के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 38750 जनरल एम एम नरवणे, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 15 मई 2022 (पूर्वाहन) से मानद कर्नल ऑफ द सिक्ख लाई रेजीमेंट के पद पर आजीवन काल के लिये नियुक्त करते हैं ।

आई सी 40716 जनरल मनोज पांडे, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी को 11 मई 2022 (पूर्वाहन) से मानद कर्नल ऑफ द सिक्ख लाई रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 40716 जनरल मनोज पांडे, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी को 01 मई 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 61 कैवलरी, मानद कर्नल ऑफ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स एंड मानद कर्नल ऑफ राष्ट्रीय राईफल्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42887 मेजर जनरल पी के चहल को 01 जून 2022 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ इंट कोर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47003 ले जनरल देवेन्द्र शर्मा, ए वी एस एम, एस एम को 01 जून 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 84 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 40716 जनरल मनोज पांडे, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी को 01 मई 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल इन चीफ ऑफ द नेशनल कैडेट कोर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43704 मेजर जनरल एस क्यू अहमद को 01 जूलाई 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43655 मेजर जनरल के विनोद कुमार को 01 जूलाई 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिगनल्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47223 ले जनरल संजीव चौहान, ए वी एस एम, वाई एस एम को 01 अगस्त 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 1 जी आर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42781 ले जनरल यू वी तलूर, वी एस एम को 01 अगस्त 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ए ए डी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

डी आर 10421 ले जनरल सतीश आर अय्यर को 01 जून 2022 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ एडी कोर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47011 मेजर जनरल विनायक सैनी, एस एम को 16 अगस्त 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ बंगाल सैपर्स एंड मिलिट्री सर्वे के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49349 मेजर जनरल विनीत गौर को 01 अक्टूबर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47566 ले जनरल वी एम बी कृष्णन को 01 नवम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द डोगरा रेजीमेंट एंड डोगरा स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47139 ले जनरल पुष्पेन्द्र पाल सिंह, एस एम\*\* को 01 नवम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द पैराशूट रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42336 ले जनरल ए के सिंह, ए वी एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम को 01 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 11 जी आर एंड सिविकम स्काउट्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 51040 ब्रिगेडियर बलबीर सिंह, वाई एस एम, वी एस एम को 01 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 4 जी आर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 42796 ले जनरल के सी पंचनाथन, ए वी एस एम को 01 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द मद्रास सैपर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 54876 ब्रिगेडियर कोशल पनवर को 01 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 89 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 43684 ले जनरल जे बी चौधरी, एस एम, वी एस एम को 01 जनवरी 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44132 ले जनरल सुरेश चन्द्र टांडी, वी एस एम को 27 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ ए ओ सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एम आर 05377 मेजर जनरल साबीद सईद वट्टापारामबिल को 27 दिसम्बर 2022 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एम सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48050 ले जनरल विपुल सिंघल, एस एम को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ 15 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 50699 ब्रिगेडियर टी जे के ओहरी को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 9 होर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47003 ले जनरल देवेन्द्र शर्मा, ए वी एस एम, एस एम को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 4 होर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48427 ले जनरल अरविंद वालिया को 27 जनवरी 2023 (पूर्वाहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ इंजिनियर्स के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44044 ले जनरल धीरज सेठ, ए वी एस एम को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 16 लाइट कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47003 ले जनरल देवेन्द्र शर्मा, ए वी एस एम, एस एम को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 70 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47003 ले जनरल देवेन्द्र शर्मा, ए वी एस एम, एस एम को 01 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 54 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49426 मेजर जनरल आशीष शाह को 17 मार्च 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 73 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 51031 ब्रिगेडियर विक्रम शर्मा को 01 अप्रैल 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 5 जी आर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47023 ले जनरल नवनीत सिंह सरना, एस एम, वी एस एम को 01 अप्रैल 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48073 ले जनरल राहुल आर सिंह, वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 48050 ले जनरल विपुल सिंघल, एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 55 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49033 मेजर जनरल पवनपाल सिंह, वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 81 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 52724 ब्रिगेडियर अनुज कालिया, वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 56 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47076 ले जनरल राकेश कपूर, वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 86 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 44044 ले जनरल धीरज सेठ, ए वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 58 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47261 ले जनरल अमरदीप सिंह औजला, यू वाई एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ राजपूताना राईफल्स रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 53496 ब्रिगेडियर डी एस कादयान को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 45 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 52495 ब्रिगेडियर कॅवर अशवनी वशिष्ठ को 01 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 71 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49870 मेजर जनरल सी एस मान, वी एस एम को 01 जून 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 85 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 49510 मेजर जनरल हितेश भल्ला, एस सी\*\*, एस एम, वी एस एम को 01 जून 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द मराठा लाई रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47144 मेजर जनरल सुमित तलवार को 01 जून 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 47576 मेजर जनरल मुकेश चडढा, एस एम, वी एस एम को 01 जून 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एस सी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

आई सी 57393 ब्रिगेडियर राकेश पछौरा, एस एम, वी एस एम को 30 मई 2023 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 65 आर्म्ड रेजीमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं ।

विनय कुमार  
उपनिदेशक/एम एस (एक्स)

सेना सचिव शाखा

सं. 137 दिनांक 19.08.2023—राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40031 ले जनरल संजीव कनल, पी वी एस एम, ए वी एस एम को 31 जुलाई 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42853 ब्रिगेडियर गौतम ओबेराय, को 31 जुलाई 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 64 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42516 मेजर जनरल ओ पी गुलिया, एस एम, वी एस एम को 31 अगस्त 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द बिहार रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 44736 मेजर जनरल संजय मैनी को 30 अगस्त 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ 66 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 24 अगस्त 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द 48 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 44713 ब्रिगेडियर ए डी एस डिल्लन, एस एम को 31 जुलाई 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द 90 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40299 ले जनरल संजय वर्मा, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* को 30 सितम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39872 ले जनरल अनिल कपूर, ए वी एस एम, वी एस एम को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41501 मेजर जनरल रंजीत घोष को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41196 मेजर जनरल सुधाकर जी, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

एम आर 04726 ले जनरल आर दत्ता, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 01 जुलाई 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ए एम सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39450 मेजर जनरल अमृत पाल सिंह (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2018 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ 15 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 43275 ब्रिगेडियर एम एस तोमर को 30 नवम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 17 होर्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41529 मेजर जनरल नीरज कपूर को 30 नवम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 62 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41908 मेजर जनरल सुधीर बहल को 30 नवम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 69 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40904 मेजर जनरल के एस निज्जर को 30 नवम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39868 ले जनरल सुनील श्रीवास्तव, वी एस एम\*\* को 31 दिसम्बर 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39871 ले जनरल एस के उपाध्याय, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 31 जनवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ गढवाल राईफल एंड गढवाल स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39130 ले जनरल राजीव चोपड़ा, पी वी एस एम, ए वी एस एम को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द मद्रास रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39874 ले जनरल तरनजीत सिंह, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द 65 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41908 मेजर जनरल सुधिर बहल को 30 नवम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल ऑफ 53 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39436 ले जनरल एस के सैनी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम, वी एस एम को 31 जनवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द जाट रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39996 ले जनरल राजीव सभरवाल, ए वी एस एम, वी एस एम को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिगनल्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42293 मेजर जनरल प्रदीप सिंह बहल को 28 फरवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द आसाम रेजीमेंट एंड अरुणाचल स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 43730 ब्रिगेडियर विक्रान्त नायर (सेवानिवृत्त) को 31 जनवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 7 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39607 ले जनरल आई एस घुमन, पी वी एस एम, ए वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42327 मेजर जनरल अरविंद कटोच को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी सर्विस कोर के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ 68 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ 89 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 20 लांसर्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42324 मेजर जनरल डी के नौटियाल को 28 फरवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ 72 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

एम आर 04889 मेजर जनरल प्रशांत भारद्वाज, वी एस एम\*\* को 24 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ए एम सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

एम आर 04428 ले जनरल अनूप बनर्जी, पी वी एस एम, एस एम, पी एच एस को 31 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ए एम सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40703 ले जनरल हरपाल सिंह, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 दिसम्बर 2020 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ बंगाल सैपर्स एंड मिलिट्री सर्वे के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39492 ले जनरल अनिल चौहान, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 31 मई 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 11 जी आर एंड सिविकम स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41456 ले जनरल आर के आनंद, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 31 मई 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिगनल्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40353 ले जनरल परमजीत सिंह सांघा, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, एस एम को 30 जून 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द पैराशूट रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 39501 ले जनरल ए पी सिंह, ए वी एस एम को 30 जून 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए ए डी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41530 मेजर जनरल मंदीप सिंह, एस एम, वी एस एम को 30 जून 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40948 ले जनरल के आर प्रसाद, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 जूलाई 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40360 ले जनरल ए बी मिस्त्री, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द मराठा लाई रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 3 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42310 मेजर जनरल वी एस रानाडे को 30 सितम्बर 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41071 मेजर जनरल बेजी मैथ्यूज को 28 फरवरी 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 46 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40302 ले जनरल आर पी सिंह, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द मेक इंग्फ रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42294 मेजर जनरल शैलजानन्द झा, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 13 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 46033 ब्रिगेडियर सतीश कुमार को 31 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 88 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42294 मेजर जनरल एस झा, वी एस एम को 30 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 70 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

एम आर 04576 ले जनरल ए के हूडा को 02 अप्रैल 2021 (अपराहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एम सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42171 मेजर जनरल समीर कल्ला, वी एस एम को 30 नवम्बर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 5 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42294 मेजर जनरल एस झा, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 15 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42777 मेजर जनरल रवि आर पाटिल, वी एस एम को 30 सितम्बर 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40314 ले जनरल सी पी मोहंती, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द राजपूत रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41509 ले जनरल के जे एस दिल्लीन, यू वाई एस एम, वाई एस एम, वी एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द राजपुताना राईफल्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41885 मेजर जनरल यू सुरेश कुमार, वाई एस एम, वी एस एम को 09 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द पंजाब रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 43166 मेजर जनरल एस के खन्ना को 30 नवम्बर 2021 (अपराहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ एम ई एस के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40753 ले जनरल एम जे एस कहलोन, ए वी एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 67 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40753 ले जनरल एम जे एस कहलोन, ए वी एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 75 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40500 ले जनरल वाई के जोशी, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वीर चक, एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द जाक रिफ एंड लददाख स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41072 ले जनरल राजीव सिरोही, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम को 28 फरवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द ग्रेनेडियर्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41568 ले जनरल राजेश राणा, वी एस एम को 01 दिसम्बर 2021 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए ओ सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40753 ले जनरल एम जे एस कहलोन, पी वी एस एम, ए वी एस एम को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 43 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 47617 ब्रिगेडियर मनीष त्रिपाठी को 31 जनवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 16 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 44919 मेजर जनरल ए वी रमेश, वी एस एम को 28 फरवरी 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41025 ले जनरल टी एस ए नारायणन, ए वी एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42275 मेजर जनरल संदीप सिंह, एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 18 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40685 ले जनरल राज शुक्ला, पी वी एस एम, वाई एस एम, एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40293 ले जनरल ए एस कलेर, पी वी एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2021 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 74 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42275 मेजर जनरल संदीप सिंह, एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 59 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42275 मेजर जनरल संदीप सिंह, एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 50 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

एम आर 04920 ले जनरल सुनिल कांत, एस एम, वी एस एम को 31 मार्च 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एम सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42475 ले जनरल सवनीत सिंह, पी वी एस एम, वाई एस एम, एस एम, वी एस एम को 30 अप्रैल 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द गढवाल राईफल्स एंड गढवाल स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 38750 जनरल एम एम नरवणे, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम को 30 अप्रैल 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द सिक्ख लाई रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40801 ले जनरल आर के बंसीवाल, ए वी एस एम को 31 मई 2022 (अपराहन) से एक्स ओफिसियो कर्नल कमांडेंट ऑफ इंट कोर के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 50273 ब्रिगेडियर संदीप सिंह रावत को 03 मई 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 84 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41121 ले जनरल आर के शर्मा, ए वी एस एम को 01 जूलाई 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजीमेंट ऑफ आर्टी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 40534 ले जनरल एम एन भुरके, ए वी एस एम, वी एस एम को 30 जून 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ सिगनल्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 44626 ब्रिगेडियर एन के गोयल को 31 जूलाई 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 1 जी आर के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41166 ले जनरल सतिंदर सिंह, ए वी एस एम को 31 जूलाई 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द कोर ऑफ ए ए डी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 43658 मेजर जनरल हरी सिंह, वी एस एम को 31 जूलाई 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ बंगाल सैपर्स एंड मिलिट्री सर्वे के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 43216 मेजर जनरल बी पी सिंह, ए वी एस एम को 30 सितम्बर 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ कोर ऑफ ई एम ई के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41067 ले जनरल जे एस नैन, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम को 31 अक्टूबर 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द डोगरा रेजीमेंट एंड डोगरा स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42771 मेजर जनरल संजय सिंह, ए वी एस एम, एस एम\*\*, वी एस एम को 31 अक्टूबर 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द पैराशूट रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42538 ले जनरल अतुल्य सोलंकी, ए वी एस एम, एस एम को 30 नवम्बर 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 11 जी आर एंड सिविकम स्काउट्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 42364 मेजर जनरल जे एस नेहरा को 30 नवम्बर 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 4 जी आर के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 41131 ले जनरल पी पी मल्होत्रा, ए वी एस एम, वी एस एम को 30 नवम्बर 2022 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ द मद्रास सैपर्स के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 44475 ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट को 30 नवम्बर 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 89 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।





आई सी 41595 ले जनरल एम के एस यादव, ए वी एस एम, एस एम को 31 मई 2023 (अपराहन) से कर्नल कमांडेंट ऑफ ए एस सी के पद से पदमुक्त करते हैं ।

आई सी 46214 ब्रिगेडियर मयंक अवस्थी को 31 जुलाई 2022 (अपराहन) से कर्नल ऑफ द रेजीमेंट ऑफ 65 आर्म्ड रेजीमेंट के पद से पदमुक्त करते हैं ।

विनय कुमार  
उपनिदेशक/एम एस (एक्स)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th July 2023

## ARMY BRANCH

No. 132, dated 19 August 2023/No. 01(06)/2023-DMA(Estt).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 31/1/2023-EO(SM-II)-(5) dated 16.06.2023, the President is pleased to appoint Vice Admiral Atul Anand, AVSM, VSM (03247B) as Additional Secretary, Department of Military Affairs, Ministry of Defence with effect from the forenoon of 03 Jul 2023.

NIDHI OJHA

Dir (Estt)

## AIR BRANCH

No. 133, dated 19 Aug 2023—The President of India is pleased to make the following promotions:—  
(WOs TO Sub MWOs)

SER NO	RANK	NAME	TRADE	SUB RANK DATE
692703	MWO	PALA RAM KUNDU	ACH GD	01-JAN-22
693589	MWO	RAJKUMAR SHARMA	ACH GD	01-JAN-22
704078	MWO	OM PRAKASH	ACH GD	01-JAN-22
704349	MWO	SURENDRA SINGH CHOUDHRY	ACH GD	01-JAN-22
725329	MWO	UDAY PRKASH SHARMA	ACH GD	01-JAN-22
725631	MWO	DHARAMVIR SINGH	ACH GD	01-JAN-22
694040	MWO	V DAMODARAN	ACH GD	01-FEB-22
703009	MWO	RAGHVENDRA MALIK	ACH GD	01-FEB-22
704283	MWO	BIRHM SINGH	ACH GD	01-FEB-22
704378	MWO	CHANDRA MOHAN SINGH	ACH GD	01-FEB-22
725106	MWO	RAJENDER KUMAR	ACH GD	01-FEB-22
725473	MWO	SANJIB KUMAR MAJUMDER	ACH GD	01-FEB-22
725978	MWO	SATBIR SINGH	ACH GD	01-FEB-22
726347	MWO	RAMESH CHAND	ACH GD	01-FEB-22
703953	MWO	INDRA BAHADUR UPADHYAY	ACH GD	01-MAR-22
704866	MWO	GOPAL ROY	ACH GD	01-MAR-22
726977	MWO	D BABU	ACH GD	01-MAR-22
693794	MWO	VINOD KUMAR SHARMA	ACH GD	01-JUN-22
692665	MWO	ANIL KUMAR DUBEY	ACH GD	01-JUL-22
692701	MWO	SATISH KUMAR SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
692706	MWO	ASHOK KUMAR AHUJA	ACH GD	01-JUL-22
693094	MWO	SATYENDRA SINGH	ACH GD	01-JUL-22
693300	MWO	SHER SINGH	ACH GD	01-JUL-22
693459	MWO	RAVINDRA SINGH PUNDIR	ACH GD	01-JUL-22

693847	MWO	RAM KISHOR	ACH GD	01-JUL-22
693851	MWO	RAJEEV KUMAR YADAV	ACH GD	01-JUL-22
693871	MWO	RAMESH SINGH	ACH GD	01-JUL-22
694101	MWO	HANUMAN PRASHAD	ACH GD	01-JUL-22
694268	MWO	VIJAY MONGIA	ACH GD	01-JUL-22
694277	MWO	MOHAMMAD RAJU	ACH GD	01-JUL-22
700470	MWO	NILESH CHAND	ACH GD	01-JUL-22
700501	MWO	CHITTA RANJAN BEHERA	ACH GD	01-JUL-22
700626	MWO	PERDEEP KUMAR VERMA	ACH GD	01-JUL-22
700937	MWO	RAJENDRA KUMAR PANDEY	ACH GD	01-JUL-22
700994	MWO	HARI KRISHAN ARORA	ACH GD	01-JUL-22
701168	MWO	KULTAR CHAND SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
701193	MWO	RAMESH PRASAD	ACH GD	01-JUL-22
701701	MWO	DALBIR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
701756	MWO	MOOLCHAND	ACH GD	01-JUL-22
701944	MWO	JAMUNA PRASAD KANU	ACH GD	01-JUL-22
702072	MWO	JADHAVRAJKUMAR HANAMNTA	ACH GD	01-JUL-22
692956	MWO	SOPAN BABA MANE	ACH GD	01-AUG-22
693438	MWO	RAJENDER SINGH	ACH GD	01-AUG-22
693614	MWO	SHINDE SUNIL PADMAKANT	ACH GD	01-AUG-22
693709	MWO	BALWAN SINGH	ACH GD	01-AUG-22
694302	MWO	SATHIS KUMARAN NAIR PB	ACH GD	01-AUG-22
703014	MWO	ANIL KUMAR SHARMA	ACH GD	01-AUG-22
703095	MWO	HARVINDER SINGH BHINDER	ACH GD	01-AUG-22
704082	MWO	MOTI LAL	ACH GD	01-AUG-22
725769	MWO	SURESH PAL	ACH GD	01-SEP-22
726078	MWO	JAMAL UDDIN KHAN	ACH GD	01-SEP-22
726778	MWO	AJAY KUMAR SHARMA	ACH GD	01-OCT-22
694274	MWO	ANIL KUMAR	ACH GD	01-NOV-22
702685	MWO	MOHD SHARFUDDIN	ACH GD	01-NOV-22
704841	MWO	MALAKHAN SINGH KUSHWAHA	ACH GD	01-NOV-22
725663	MWO	BHAGWATI PRASAD	ACH GD	01-NOV-22
726130	MWO	VIJAY KUMAR MALHOTRA	ACH GD	01-NOV-22
701298	MWO	ARVIND KUMAR MISHRA	ACH GD	01-DEC-22
701739	MWO	KRISHAN KUMAR PILONIA	ACH GD	01-DEC-22
703570	MWO	RAJ PAL SINGH	ACH GD	01-DEC-22
704302	MWO	SANJEEV KUMAR TANWAR	ACH GD	01-DEC-22
687794	MWO	HARENDRA SINGH	ADSO	01-NOV-21

705737	MWO	UMA SHANKAR YADAV	ADSO	01-JAN-22
707534	MWO	SATYA DEO SHARMA	ADSO	01-JAN-22
707856	MWO	SANTOSH KUMAR KARNATAK	ADSO	01-JAN-22
708228	MWO	BALRAM PRASAD	ADSO	01-FEB-22
708334	MWO	AJEET SINGH	ADSO	01-FEB-22
708592	MWO	RAJESH BHATIA	ADSO	01-FEB-22
686670	MWO	GOPAN RAVINDRANATHAN NAIR	ADSO	01-JUL-22
686721	MWO	SATYAVIR KAUSHIK	ADSO	01-JUL-22
687241	MWO	UMAKANT PRASAD SINGH	ADSO	01-JUL-22
687679	MWO	RAJENDER SINGH	ADSO	01-JUL-22
690238	MWO	MITHLESH KUMAR	ADSO	01-JUL-22
706485	MWO	ANIL KUMAR SHARMA	ADSO	01-JUL-22
707184	MWO	SHATRUGHAN SHARMA	ADSO	01-JUL-22
707370	MWO	RAJESH KUMAR PANDEY	ADSO	01-JUL-22
707842	MWO	HARIKRISHNAN RADHAKRISHNAN NAIR	ADSO	01-JUL-22
708245	MWO	SATYA DEO SINGH	ADSO	01-JUL-22
708577	MWO	KANWAR PAL	ADSO	01-JUL-22
716817	MWO	SUNIL KUMAR	ADSO	01-JUL-22
686866	MWO	VIRENDER KUMAR DHULL	ADSO	01-AUG-22
687183	MWO	JITENDER PAL SINGH	ADSO	01-AUG-22
708221	MWO	AHMAD REYAZ SALEEM	ADSO	01-AUG-22
708222	MWO	DEVENDER SINGH MOR	ADSO	01-AUG-22
708252	MWO	ROSHAN LAL JAT	ADSO	01-AUG-22
708243	MWO	NARENDRA KUMAR PACHAURI	ADSO	01-DEC-22
708561	MWO	HARI CHAND SHAMRIA	ADSO	01-DEC-22
698326	MWO	PARAMVIR SINGH RATHAUR	AF FIT	01-JUL-21
698340	MWO	JAIPRAKASH	AF FIT	01-AUG-21
731684	MWO	NIZAMUDDIN KHAN	AF FIT	01-NOV-21
727893	MWO	MANOJ KUMAR	AF FIT	01-JAN-22
727936	MWO	PERWAIZ AKHTAR AHMED	AF FIT	01-JAN-22
728191	MWO	RAMENDRA KUMAR SINGH	AF FIT	01-JAN-22
728214	MWO	YATINDRA KUMAR SINGH	AF FIT	01-JAN-22
728412	MWO	RAVINDRA KUMAR SHARMA	AF FIT	01-JAN-22
728685	MWO	SANJEE KUMAR KATNA	AF FIT	01-JAN-22
728716	MWO	VIRPAL SINGH	AF FIT	01-JAN-22
732156	MWO	MD JAWED AHMAD	AF FIT	01-JAN-22
699532	MWO	JEETENDRA KUMAR SHUKLA	AF FIT	01-FEB-22
765287	MWO	SUNIL KUMAR	AF FIT	01-FEB-22

730243	MWO	MOIZUDDIN ANSARI	AF FIT	01-APR-22
730779	MWO	SANJAY KUMAR	AF FIT	01-APR-22
698335	MWO	MOHINDER PAL	AF FIT	01-JUN-22
699345	MWO	PRADEEP KUMAR PANWAR	AF FIT	01-JUN-22
729209	MWO	LAL BABU SHARMA	AF FIT	01-JUN-22
729384	MWO	VINOD KUMAR TOMAR	AF FIT	01-JUN-22
731429	MWO	BINOD KUMAR	AF FIT	01-JUN-22
676820	MWO	LALAN MISHRA	AF FIT	01-JUL-22
679566	MWO	BALRAJ DESWAL	AF FIT	01-JUL-22
695690	MWO	MAHENDRA KUMAR PRAJAPATI	AF FIT	01-JUL-22
695724	MWO	RAMA NAND CHAUDHARY	AF FIT	01-JUL-22
696083	MWO	RAVINDRA KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
696239	MWO	MD RAHAMTULLAH ANSARI	AF FIT	01-JUL-22
696397	MWO	VINAY KUMAR SINGH	AF FIT	01-JUL-22
696445	MWO	SATYA PAL SINGH	AF FIT	01-JUL-22
696558	MWO	RAVI SHANKER TIWARI	AF FIT	01-JUL-22
696769	MWO	SUBHASH BABU	AF FIT	01-JUL-22
696779	MWO	RABINDRA PRASAD SINGH	AF FIT	01-JUL-22
697654	MWO	BATH SUKHDEV SINGH	AF FIT	01-JUL-22
698324	MWO	JOGINDER PAL	AF FIT	01-JUL-22
699556	MWO	RAJEEV RANJAN KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
730501	MWO	GOKUL BISWAS	AF FIT	01-JUL-22
698460	MWO	MD EQBAL ALAM	AF FIT	01-AUG-22
698851	MWO	MANIK MANDAL	AF FIT	01-AUG-22
736009	MWO	PRNOB KUMAR DAS	AF FIT	01-AUG-22
695266	MWO	UMA SHANKAR TIWARI	AF FIT	01-SEP-22
696875	MWO	NAWIN CHANDRA MISHRA	AF FIT	01-SEP-22
697083	MWO	BAS DEO AZAD	AF FIT	01-SEP-22
697834	MWO	PRASAD WAKIL	AF FIT	01-SEP-22
699135	MWO	JATINDER PAL SINGH	AF FIT	01-SEP-22
695615	MWO	MAHADEB ADHIKARY	AF FIT	01-OCT-22
699230	MWO	RAMESH BAN	AF FIT	01-OCT-22
699377	MWO	SANJAY KUMAR	AF FIT	01-OCT-22
699689	MWO	MAHAVIR SINGH	AF FIT	01-OCT-22
727882	MWO	RAM NATH KASHYAP	AF FIT	01-OCT-22
730528	MWO	PRASENJIT ROY	AF FIT	01-OCT-22
697283	MWO	SIVA KANT SINGH	AF FIT	01-NOV-22
699301	MWO	YESH PAL SINGH	AF FIT	01-NOV-22

729062	MWO	PADMANABHA SAHOO	AF FIT	01-NOV-22
729350	MWO	GURURAJ	AF FIT	01-NOV-22
729889	MWO	UMAKANTA MOHANTY	AF FIT	01-NOV-22
730474	MWO	ABHIMANYU KUMAR	AF FIT	01-NOV-22
698328	MWO	SURINDER KUMAR	AF FIT	01-DEC-22
699533	MWO	KUMAR SUBODH CHANDRA	AF FIT	01-DEC-22
730583	MWO	JITENDRA KUMAR	AF FIT	01-DEC-22
731447	MWO	SHADI LAL	AFSO	01-JAN-22
721408	MWO	VIKRAM SINGH	AFSO	01-APR-22
730326	MWO	JAI PAL	AFSO	01-APR-22
678870	MWO	JAGDISH CHANDER MALIK	AFSO	01-JUL-22
679085	MWO	UDAYA BHAN SINGH	AFSO	01-JUL-22
679858	MWO	SUSHIL KUMAR SINGH	AFSO	01-JUL-22
694858	MWO	ANATH KUMAR KARMAKAR	AFSO	01-JUL-22
695146	MWO	DEBENDRA NATH TRIPATHY	AFSO	01-JUL-22
695185	MWO	SURESH KUMAR	AFSO	01-JUL-22
696142	MWO	HARI RAM PATEL	AFSO	01-JUL-22
696267	MWO	RAMA SHANKAR KULSHRESTHA	AFSO	01-JUL-22
696268	MWO	SHAMSHER SINGH DUHAN	AFSO	01-JUL-22
696303	MWO	AMAL KUMAR KOLAY	AFSO	01-JUL-22
696624	MWO	RAJINDER KUMAR	AFSO	01-JUL-22
705915	MWO	SHEO NATH THAKUR	AFSO	01-JUL-22
695117	MWO	RAGHVENDRA SINGH BHADAURIA	AFSO	01-AUG-22
705917	MWO	MD JAMSHED AHMAD	AFSO	01-AUG-22
628976	MWO	DINESH KUMAR TIWARI	AFSO	01-OCT-22
629528	MWO	SITA RAM DEWASI	AFSO	01-OCT-22
721113	MWO	P V NARESH KUMAR	AFSO	01-OCT-22
721540	MWO	DEVENDRA KUMAR PANDEY	AFSO	01-OCT-22
730803	MWO	JOGINDER DUTT SHARMA	AFSO	01-OCT-22
733205	MWO	ADATTU MADHAVAN NAIR GOPALAKRISHNAN NAIR	AFSO	01-NOV-22
721302	MWO	RAJENDER SINGH KAUSHIK	AFSO	01-DEC-22
721800	MWO	AFROZ AKHTAR	AFSO	01-DEC-22
692571	MWO	JASVIR SINGH RANA	CAT ASST	01-JUL-22
692750	MWO	LOKRAM KUMHAR	CAT ASST	01-JUL-22
694259	MWO	SUNIL KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22
700193	MWO	ANAND PIMPALKHARE	CAT ASST	01-JUL-22
720787	MWO	BIRENDRA KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22

693465	MWO	VINOD KUMAR	CAT ASST	01-AUG-22
694345	MWO	RAM MEHAR SHARMA	CAT ASST	01-AUG-22
703482	MWO	BISWAJIT SIHI	CAT ASST	01-SEP-22
725477	MWO	SATYA RANJAN MOHANTY	CAT ASST	01-NOV-22
704031	MWO	MANOJ KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-JAN-22
725132	MWO	SHIV KUMAR DHIMAN	CLK ACCTS	01-JAN-22
701338	MWO	KALLOLICKAL.SOMANNNAIR.SANTHOSH	CLK ACCTS	01-FEB-22
725581	MWO	JAI PAL	CLK ACCTS	01-FEB-22
725444	MWO	BIDYUT KUMAR SARKAR	CLK ACCTS	01-MAR-22
729674	MWO	RAMSWAROOP SHARMA	CLK ACCTS	01-MAR-22
729676	MWO	AJMER SINGH MOUN	CLK ACCTS	01-MAR-22
729512	MWO	BINAY KUMAR UPADHYAY	CLK ACCTS	01-APR-22
692852	MWO	DEOMANI	CLK ACCTS	01-JUL-22
693215	MWO	NARESH PAL TANWAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
694023	MWO	SHIV SINGH PARMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
694750	MWO	BIKRAM KAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
694810	MWO	ARUN KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
694916	MWO	SUBHASH SINGH YADAV	CLK ACCTS	01-JUL-22
700024	MWO	PRAMOD KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-JUL-22
700277	MWO	JADUBIR SINGH	CLK ACCTS	01-JUL-22
700746	MWO	MIHIR MUKHERJEE	CLK ACCTS	01-JUL-22
700865	MWO	CHANDRA NATH YADAVA	CLK ACCTS	01-JUL-22
701027	MWO	HARINDER SINGH	CLK ACCTS	01-JUL-22
701451	MWO	VIJAY PAL	CLK ACCTS	01-JUL-22
701556	MWO	NAND KUMAR YADAV	CLK ACCTS	01-JUL-22
701686	MWO	RAVINDER KUMAR ARYA	CLK ACCTS	01-JUL-22
701755	MWO	RAMPHAL SINGH DEVAL	CLK ACCTS	01-JUL-22
703048	MWO	SHYAM LAL PRUTHI	CLK ACCTS	01-JUL-22
703198	MWO	SABEKADAR ALI	CLK ACCTS	01-JUL-22
693234	MWO	SITA RAM YADAVA	CLK ACCTS	01-AUG-22
704336	MWO	SUNIL DUTT	CLK ACCTS	01-OCT-22
702067	MWO	ASHOK KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-NOV-22
704993	MWO	KIRAN PAL SINGH	CLK ACCTS	01-NOV-22
694192	MWO	PRAMOD KUMAR BEHERA	CLK ACCTS	01-DEC-22
700915	MWO	BALBIR SINGH	CLK GD	01-JAN-22
725163	MWO	SHANKAR MISHRA	CLK GD	01-JAN-22
725856	MWO	ASHWANI KUMAR JHA	CLK GD	01-FEB-22
726066	MWO	SATENDRA KUMAR PANDEY	CLK GD	01-FEB-22



726854	MWO	PRAFULLA KUMAR ACHARYA	CLK GD	01-FEB-22
726981	MWO	MURALEEDHARAN C NAIR	CLK GD	01-FEB-22
727312	MWO	SATYNARAYAN YADAV	CLK GD	01-FEB-22
727505	MWO	MAHA SINGH BIDHAN	CLK GD	01-FEB-22
701152	MWO	MAHI PAL SINGH	CLK GD	01-MAR-22
727603	MWO	GOBINDA CHANDRA SAHOO	CLK GD	01-MAR-22
728417	MWO	SAIYD BADRUL HASAN RIZVI	CLK GD	01-MAR-22
729597	MWO	DILJIT SINGH	CLK GD	01-MAR-22
729718	MWO	VIJAY KUMAR SHEORAN	CLK GD	01-APR-22
727819	MWO	JAYAPRAKASHA SAHU	CLK GD	01-MAY-22
729628	MWO	NARENDER SINGH	CLK GD	01-MAY-22
729644	MWO	DINDAYAL KAUSHIK	CLK GD	01-MAY-22
700323	MWO	VIRENDER SINGH SANGWAN	CLK GD	01-JUN-22
726891	MWO	MAHENDER SINGH SHARMA	CLK GD	01-JUN-22
693218	MWO	RAM NIWAS CHAUHAN	CLK GD	01-JUL-22
693500	MWO	RANJEET KUMAR SAHU	CLK GD	01-JUL-22
693740	MWO	VIJAY SHANKER MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
693983	MWO	ANAND KUMAR TIWARI	CLK GD	01-JUL-22
694307	MWO	MAHABIR SINGH NEGI	CLK GD	01-JUL-22
694511	MWO	MAHESH KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
694527	MWO	RAJESH KUMAR MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
694716	MWO	SURENDER KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
700136	MWO	KRISHNA GOPAL GHOSH	CLK GD	01-JUL-22
700145	MWO	NITYANANDA SURELIA	CLK GD	01-JUL-22
700531	MWO	PHILIP K	CLK GD	01-JUL-22
700671	MWO	AMAR JEET SINGH	CLK GD	01-JUL-22
700672	MWO	CHITTRANJAN KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
700789	MWO	GANGADHARAN V P	CLK GD	01-JUL-22
700880	MWO	JAYNARAYANA BEHERA	CLK GD	01-JUL-22
700920	MWO	DINESH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-JUL-22
700962	MWO	RAKESH PANDEY	CLK GD	01-JUL-22
701061	MWO	YESHPAL SINGH CHAUHAN	CLK GD	01-JUL-22
701128	MWO	DHAN SINGH CHAHAL	CLK GD	01-JUL-22
701209	MWO	DIWAKER TIWARY	CLK GD	01-JUL-22
701409	MWO	SUBRATA KUMAR SETT	CLK GD	01-JUL-22
701626	MWO	SURENDER KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
701888	MWO	UJJAL KUMAR CHATTERJEE	CLK GD	01-JUL-22
701919	MWO	PRASANT KUMAR TRIPATHY	CLK GD	01-JUL-22

700361	MWO	DAVID KARUNA KARAN GEORGE	CLK GD	01-AUG-22
702061	MWO	VED PARKASH SHARMA	CLK GD	01-AUG-22
703286	MWO	RAJESH KUMAR RAI	CLK GD	01-AUG-22
693219	MWO	DHARAM PAL SING ASWAL	CLK GD	01-SEP-22
694514	MWO	DESH RAJ SINGH	CLK GD	01-OCT-22
701038	MWO	DHARMENDAR SINGH CHOWDHARY	CLK GD	01-OCT-22
701331	MWO	HUSSINE A	CLK GD	01-OCT-22
701438	MWO	DASHRATH SINGH RAWAT	CLK GD	01-OCT-22
701991	MWO	JOMY MATHEW	CLK GD	01-OCT-22
702531	MWO	SURESH KUMAR BHARDWAJ	CLK GD	01-OCT-22
702536	MWO	BALJIT SINGH	CLK GD	01-OCT-22
703680	MWO	SATYA PRAKASH KUSHWAHA	CLK GD	01-OCT-22
700408	MWO	DINESH YADAV	CLK GD	01-NOV-22
702260	MWO	CHANDER BHAN VERMA	CLK GD	01-NOV-22
702805	MWO	PAWAN KUMAR	CLK GD	01-NOV-22
702948	MWO	SANKAR SAHA	CLK GD	01-NOV-22
703358	MWO	VIJAY KUMAR	CLK GD	01-NOV-22
728348	MWO	BABUJI	CLK GD	01-NOV-22
728360	MWO	SHARMENDRA SINGH	CLK GD	01-NOV-22
703293	MWO	RAMVIR SINGH	CLK GD	01-DEC-22
703592	MWO	AVEDHESH KUMAR TRIPATHI	CLK GD	01-DEC-22
726334	MWO	RAMESH CHAND	CRYPTO	01-JAN-22
726352	MWO	VIJAY KUMAR	CRYPTO	01-FEB-22
728510	MWO	AMAR SINGH SAINI	CRYPTO	01-FEB-22
737133	MWO	RAJIV KUMAR VERMA	CRYPTO	01-FEB-22
692734	MWO	NARESH KUMAR SHARMA	CRYPTO	01-JUL-22
693181	MWO	RAVINDER SINGH	CRYPTO	01-JUL-22
694069	MWO	ACHAL SINGH	CRYPTO	01-JUL-22
700004	MWO	VIRENDER KUMAR	CRYPTO	01-JUL-22
700207	MWO	SHAMBHU NATH PRASAD	CRYPTO	01-JUL-22
700301	MWO	KISHUN LAL SAHU	CRYPTO	01-JUL-22
700458	MWO	RAM KISHAN YADAV	CRYPTO	01-JUL-22
700674	MWO	SANJAY KUMAR SINGH	CRYPTO	01-JUL-22
701452	MWO	SHIV GOPAL SHARMA	CRYPTO	01-JUL-22
692829	MWO	TEJ BAHADUR SINGH	CRYPTO	01-OCT-22
700508	MWO	LAL JI	CRYPTO	01-OCT-22
694241	MWO	SATISH KUMAR SINGH	CRYPTO	01-NOV-22
701137	MWO	DHEERENDRA KUMAR DABRAL	CRYPTO	01-NOV-22

700570	MWO	ROSHAN LAL	CRYPTO	01-DEC-22
796686	MWO	ARUNA KUMAR KANUNGO	EDN INSTR	01-JAN-22
900412	MWO	JITENDRA KUMAR	EDN INSTR	01-JAN-22
900416	MWO	CHHABIL KUMAR BARIK	EDN INSTR	01-JAN-22
900948	MWO	RAKESH KUMAR SHARMA	EDN INSTR	01-FEB-22
797417	MWO	ARUN KUMAR SAHOO	EDN INSTR	01-JUN-22
900410	MWO	MANAS RANJAN PANDA	EDN INSTR	01-JUN-22
900952	MWO	HARIKRISHNAN P	EDN INSTR	01-JUN-22
739858	MWO	LAXMI KANT SINGH	EDN INSTR	01-JUL-22
901450	MWO	MIHIR KUMAR MAJHI	EDN INSTR	01-JUL-22
901438	MWO	TRIPATI PANIGRAHI	EDN INSTR	01-AUG-22
901443	MWO	DEEPAK KUMAR	EDN INSTR	01-AUG-22
902013	MWO	SHYAM SINGH CHAUHAN	EDN INSTR	01-OCT-22
902016	MWO	SURESH A C	EDN INSTR	01-OCT-22
709014	MWO	KRISHNA CHAND PRASAD	ELECT FIT	01-JAN-22
688754	MWO	KEWAL KRISHAN	ELECT FIT	01-FEB-22
689695	MWO	BIRENDRA KUMAR	ELECT FIT	01-FEB-22
717281	MWO	PAWESH CHANDRA	ELECT FIT	01-FEB-22
715472	MWO	SUMAN KUMAR SHARMA	ELECT FIT	01-APR-22
716288	MWO	CHANDRA DEV YADAV	ELECT FIT	01-APR-22
688139	MWO	SANJAY KUMAR	ELECT FIT	01-JUN-22
629921	MWO	JAI CHANDRA VISHWAKARMA	ELECT FIT	01-JUL-22
640833	MWO	MAHESH PRASAD SINGH	ELECT FIT	01-JUL-22
683608	MWO	MAHENDER SINGH	ELECT FIT	01-JUL-22
684283	MWO	RAJEEV KUMAR TYAGI	ELECT FIT	01-JUL-22
684670	MWO	SUBHASH CHANDRA SACHAN	ELECT FIT	01-JUL-22
685332	MWO	DEO PUJAN SINHA	ELECT FIT	01-JUL-22
685550	MWO	MAHESH KUMAR YADAV	ELECT FIT	01-JUL-22
686018	MWO	ARVIND KUMAR MALAVIYA	ELECT FIT	01-JUL-22
686571	MWO	MURARI LAL	ELECT FIT	01-JUL-22
686610	MWO	RABINDRA KUMAR CHAUBEY	ELECT FIT	01-JUL-22
686661	MWO	RAKESH KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
691642	MWO	TIKAM CHAND	ELECT FIT	01-JUL-22
691678	MWO	SANJAY KUMAR SINHA	ELECT FIT	01-JUL-22
691706	MWO	AKSHAI KUMAR DUBEY	ELECT FIT	01-JUL-22
691950	MWO	SHASHI DHAR DUBEY	ELECT FIT	01-JUL-22
705335	MWO	SRIKANTA MAJUMDAR	ELECT FIT	01-JUL-22
706178	MWO	RAJENDRA SINGH PANWAR	ELECT FIT	01-JUL-22

707029	MWO	HIRDAY RAM	ELECT FIT	01-JUL-22
715409	MWO	KRISHNA CHANDRA SINGH	ELECT FIT	01-JUL-22
715416	MWO	PREM PRAKASH RAI	ELECT FIT	01-JUL-22
716214	MWO	PRONAB KUMAR BANDOPADHYAY	ELECT FIT	01-JUL-22
640991	MWO	HANSRAJ	ELECT FIT	01-AUG-22
683107	MWO	RANBIR SINGH RATHI	ELECT FIT	01-AUG-22
688058	MWO	SIVAKUMAR PRABHAKARAN NAIR	ELECT FIT	01-AUG-22
688059	MWO	VIJAY KUMAR SONI	ELECT FIT	01-AUG-22
688811	MWO	NARENDRA KUMAR	ELECT FIT	01-AUG-22
715808	MWO	BINAY KUMAR THAKUR	ELECT FIT	01-AUG-22
688882	MWO	DINESH KUMAR DIXIT	ELECT FIT	01-SEP-22
707469	MWO	JAL SINGH KUSHAWAH	ELECT FIT	01-SEP-22
709010	MWO	RAJ KUMAR PANDEY	ELECT FIT	01-SEP-22
689084	MWO	SANJAY SINGH	ELECT FIT	01-OCT-22
709697	MWO	PANKAJ KUMAR	ELECT FIT	01-OCT-22
640787	MWO	DEBASISH DAS GUPTA	ELECT FIT	01-NOV-22
740119	MWO	AJAY PRATAP TIWARI	ELECT FIT	01-NOV-22
689053	MWO	RUP SINGH	ELECT FIT	01-DEC-22
689080	MWO	GHAN SHYAM SINGH CHAUHAN	ELECT FIT	01-DEC-22
689087	MWO	SHASHI KAPOOR	ELECT FIT	01-DEC-22
717248	MWO	JAIVEER	ELECT FIT	01-DEC-22
686013	MWO	DINESH KUMAR SINGH	ELECT FIT	07-DEC-22
698442	MWO	ANIL KUMAR	ENG FIT	01-DEC-21
730961	MWO	JIBAN KABIRAJ	ENG FIT	01-DEC-21
699375	MWO	PAWAN KUMAR CHOUDHARY	ENG FIT	01-JAN-22
699527	MWO	ONKAR NATH JHA	ENG FIT	01-JAN-22
699634	MWO	MAHENDRA KUMAR GUPTA	ENG FIT	01-JAN-22
730259	MWO	SUBHASH CHANDER SHARMA	ENG FIT	01-JAN-22
730890	MWO	SANJEEV NATH PRASAD	ENG FIT	01-JAN-22
730926	MWO	ASIT KUMAR MONDAL	ENG FIT	01-JAN-22
731303	MWO	MANI KUMAR	ENG FIT	01-JAN-22
731507	MWO	BRAJESHWAR DAS VAISHNAVA	ENG FIT	01-JAN-22
731737	MWO	ARBIND KUMAR UPADHYAY	ENG FIT	01-JAN-22
731738	MWO	RAVENDRA PRAKASH AWASTHI	ENG FIT	01-JAN-22
731774	MWO	SUDHIR KUMAR	ENG FIT	01-JAN-22
699581	MWO	KAMALESHWAR SINGH	ENG FIT	01-FEB-22
728239	MWO	SUDISHTA MISHRA	ENG FIT	01-FEB-22
728242	MWO	LAKSHMI SHANKAR PRASAD	ENG FIT	01-FEB-22

728762	MWO	PARIKSHIT SHARMA	ENG FIT	01-FEB-22
729144	MWO	PRAMOD KUMAR DHIR	ENG FIT	01-FEB-22
729150	MWO	SALIL KUMAR MANDAL	ENG FIT	01-FEB-22
729401	MWO	PRAVEEN KUMAR TRIAR	ENG FIT	01-FEB-22
731751	MWO	AZIZUL HASAN	ENG FIT	01-FEB-22
732097	MWO	BHABANI SHANKAR RAUL	ENG FIT	01-FEB-22
732258	MWO	HARI PARKASH SHARMA	ENG FIT	01-FEB-22
732320	MWO	RATAN KUMAR PATHAK	ENG FIT	01-FEB-22
727899	MWO	GHANENDRA KUMAR SHARMA	ENG FIT	01-MAR-22
728199	MWO	PRAMOD KUMAR	ENG FIT	01-MAR-22
728233	MWO	RAKESH KUMAR VERMA	ENG FIT	01-MAR-22
728246	MWO	JITENDRA KUMAR	ENG FIT	01-MAR-22
728322	MWO	SOUMYA GHATAK	ENG FIT	01-MAR-22
728735	MWO	DHARAM PAL SINGH	ENG FIT	01-MAR-22
728772	MWO	PAWAN KUMAR OJHA	ENG FIT	01-MAR-22
732172	MWO	UDAI NARAIN SINGH	ENG FIT	01-MAR-22
727944	MWO	RAVINDER GABA	ENG FIT	01-APR-22
728108	MWO	JAGANNATH GHADAI	ENG FIT	01-APR-22
698312	MWO	RANBIR SINGH	ENG FIT	01-MAY-22
699300	MWO	NARENDRA KUMAR TYAGI	ENG FIT	01-MAY-22
699590	MWO	DHARM NATH PRASAD	ENG FIT	01-MAY-22
727938	MWO	RAJ KUMAR	ENG FIT	01-MAY-22
728749	MWO	VARINDER SINGH JAMWAL	ENG FIT	01-MAY-22
729083	MWO	ASHOK KUMAR PANDIT	ENG FIT	01-MAY-22
729127	MWO	SURENDRA KUMAR MISHRA	ENG FIT	01-MAY-22
729145	MWO	SUDAM CHARAN RANA	ENG FIT	01-MAY-22
730966	MWO	SURENDRA SINGH	ENG FIT	01-MAY-22
732082	MWO	NAWENDU MISHRA	ENG FIT	01-MAY-22
699749	MWO	RAKESH KUMAR	ENG FIT	01-JUN-22
728059	MWO	SUKHRAM PATEL	ENG FIT	01-JUN-22
728407	MWO	MANIL KUMAR SINHA	ENG FIT	01-JUN-22
729104	MWO	ASHANK PANDEY	ENG FIT	01-JUN-22
732163	MWO	RAMBILASH SINGH YADAW	ENG FIT	30-JUN-22
696718	MWO	SUNIL KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
696726	MWO	UMESH NATH MISHRA	ENG FIT	01-JUL-22
697797	MWO	LALAN KUMAR THAKUR	ENG FIT	01-JUL-22
696874	MWO	ARBIND KUMAR MISHRA	ENG FIT	01-AUG-22
696876	MWO	UDAY PRASAD	ENG FIT	01-AUG-22

731947	MWO	MISHRA DINESH KUMAR	ENG FIT	01-AUG-22
736166	MWO	ALIK KUMAR GHOSH	ENG FIT	01-AUG-22
731983	MWO	TEJPAL RAWAT	ENG FIT	01-SEP-22
697891	MWO	PRAKASH CHANDER RATHI	ENG FIT	01-NOV-22
728240	MWO	PRADEEP KUMAR	ENG FIT	01-NOV-22
728252	MWO	ARVIND SINGH	ENG FIT	01-NOV-22
728766	MWO	VARUN KUMAR SRIVASTAVA	ENG FIT	01-NOV-22
728841	MWO	SURESH KUMAR SATAPATHY	ENG FIT	01-NOV-22
728745	MWO	ANIL KUMAR MAHUR	ENG FIT	07-NOV-22
735429	MWO	GHANSHYAM MISHRA	ENG FIT	01-DEC-22
703763	MWO	ABHAY SHANKAR PRASAD	EQPT ASST	01-JUL-21
703319	MWO	VIVEK KUMAR	EQPT ASST	01-JAN-22
703932	MWO	DINESH CHANDER SINGH	EQPT ASST	01-JAN-22
702012	MWO	MANOJ KUMAR YADAV	EQPT ASST	01-FEB-22
703749	MWO	ARUN KUMAR VERMA	EQPT ASST	01-FEB-22
704054	MWO	SURESH KUMAR LAMBA	EQPT ASST	01-FEB-22
704705	MWO	PANANTHARAYIL THOMAS BIJU	EQPT ASST	01-FEB-22
727359	MWO	ZAHEER ALI	EQPT ASST	01-FEB-22
702640	MWO	BABU JOSEPH	EQPT ASST	01-MAR-22
703321	MWO	UMESH KUMAR DWIVEDI	EQPT ASST	01-MAR-22
725494	MWO	MAYANK BAJPAI	EQPT ASST	01-MAR-22
726756	MWO	RAJBIR	EQPT ASST	01-APR-22
727697	MWO	AJAY KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-APR-22
729507	MWO	SANJAY THAKARE	EQPT ASST	01-APR-22
729724	MWO	RAJENDER SINGH MEHLA	EQPT ASST	01-APR-22
725994	MWO	PRASANNA KUMAR MOHAPATRA	EQPT ASST	27-APR-22
727524	MWO	POORNARAM MALI	EQPT ASST	01-MAY-22
728462	MWO	JAGANNATH SHARMA	EQPT ASST	01-MAY-22
729339	MWO	YUSUF KHAN	EQPT ASST	01-MAY-22
700598	MWO	MUTYALA SATYANARAYANA	EQPT ASST	01-JUN-22
702357	MWO	MANPHOOL SINGH JANGIR	EQPT ASST	01-JUN-22
692539	MWO	BIRBAL BASUMATARI	EQPT ASST	01-JUL-22
693274	MWO	BRIJ BHUSHAN BHATLA	EQPT ASST	01-JUL-22
693286	MWO	MUKESH KUMAR VASHISHT	EQPT ASST	01-JUL-22
693938	MWO	MAHESH KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
693949	MWO	CHHOTE LAL	EQPT ASST	01-JUL-22
694231	MWO	JANARDAN PRASAD SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
694501	MWO	ANIL KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-JUL-22

694555	MWO	ASHOK KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
700106	MWO	YASHPAL SANSARWAL	EQPT ASST	01-JUL-22
700183	MWO	K V V SATYANARAYANA MURTY	EQPT ASST	01-JUL-22
700286	MWO	RAJ KISHOR	EQPT ASST	01-JUL-22
700478	MWO	KANNAN SUBRAHMONYA IYER	EQPT ASST	01-JUL-22
700524	MWO	RAM KRISHNA	EQPT ASST	01-JUL-22
701099	MWO	DHYAN SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
701102	MWO	BHAVESH CHAND	EQPT ASST	01-JUL-22
701655	MWO	SATYAVIR SINGH VERMA	EQPT ASST	01-JUL-22
694227	MWO	TAPSI KUMAR	EQPT ASST	01-AUG-22
700497	MWO	AJAYA KUMAR SWAIN	EQPT ASST	01-AUG-22
701183	MWO	SITARAM	EQPT ASST	01-AUG-22
701288	MWO	SANTOSH KUMAR RAI	EQPT ASST	01-AUG-22
701632	MWO	SURENDRA SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
702788	MWO	VEEROWTHU SATHEESH KUMAR	EQPT ASST	01-AUG-22
704341	MWO	RAM MEHAR SINGH GUR	EQPT ASST	01-AUG-22
727608	MWO	DADISETTY VENKATA VARAHA RAGHUPATHI RAJU	EQPT ASST	01-SEP-22
726256	MWO	UMESH PRASAD	EQPT ASST	01-OCT-22
694479	MWO	RAMESH CHANDRA SHARMA	EQPT ASST	01-NOV-22
700466	MWO	OMPRAKASH PRAJAPAT	EQPT ASST	01-NOV-22
694571	MWO	KARUNA SHANKER TRIPATHI	EQPT ASST	01-DEC-22
694751	MWO	NIHAR RANJAN ROURAY	EQPT ASST	01-DEC-22
700182	MWO	SAMADER SINGH RATHORE	EQPT ASST	01-DEC-22
725241	MWO	ATUL GANAR	EQPT ASST	01-DEC-22
736653	MWO	SANTOSH KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-DEC-22
767952	MWO	PRATAP CHANDRA PUSTI	FLT ENG	01-OCT-21
766218	MWO	SAJAN KUMAR SAINI	FLT ENG	01-JAN-22
775520	MWO	RAMDEEN PRAJAPAT	FLT ENG	01-JAN-22
776130	MWO	ANIL KUMAR BAJPAI	FLT ENG	01-JAN-22
768774	MWO	AMIT KUMAR	FLT ENG	01-JUL-22
775156	MWO	SIKANDER MOOND	FLT ENG	01-JUL-22
776173	MWO	PRATAP SINGH	FLT ENG	01-SEP-22
765952	MWO	GOPAL KRUSHNA SAHOO	FLT GUN	01-FEB-22
766709	MWO	MOHAN KISHOR THAKUR	FLT GUN	01-FEB-22
767434	MWO	BAJRANG LAL YADAV	FLT GUN	01-FEB-22
735931	MWO	HARI CHARAN	FLT GUN	01-JUN-22
775950	MWO	JAGNARAYAN SHARMA	FLT GUN	01-JUN-22

768860	MWO	ABDHESH KUMAR	FLT GUN	01-JUL-22
775953	MWO	KEMPANNA CHOUGALA	FLT GUN	01-NOV-22
768073	MWO	SHYAM SINGH	FLT GUN	01-DEC-22
747861	MWO	RAM NIWAS	FLT SIG	01-JUL-22
748119	MWO	LALIT KUMAR GUPTA	FLT SIG	01-JUL-22
692846	MWO	JAI RAJ SINGH	GTI	01-JUL-22
693691	MWO	GULAB CHAND	GTI	01-JUL-22
694197	MWO	SANTOSH KUMAR JENA	GTI	01-JUL-22
737093	MWO	JASBIR SINGH	GTI(S)	01-MAR-22
727047	MWO	C MADHU	GTI(S)	01-MAY-22
704273	MWO	BRIJ MOHAN	IAF (P)	01-MAY-21
704726	MWO	SATEESH KUMAR A	IAF (P)	01-MAY-21
725182	MWO	BIRENDRA KUMAR	IAF (P)	01-JUN-21
735760	MWO	MAHESH KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUN-21
726408	MWO	BRAHAM PRAKASH YADAV	IAF (P)	01-JAN-22
729548	MWO	RAVISHANKER TYAGI	IAF (P)	01-JAN-22
729712	MWO	RAJIV KUMAR MALIK	IAF (P)	01-FEB-22
729030	MWO	UMA SHANKAR TIWARI	IAF (P)	01-MAR-22
729531	MWO	RAM KUMAR SINGH	IAF (P)	01-MAR-22
629261	MWO	NETAI CHANDRA SADHUKHAN	IAF (P)	01-JUL-22
629285	MWO	VIPIN KUMAR GUPTA	IAF (P)	01-JUL-22
629522	MWO	GOPAL SINGH BAGRIA	IAF (P)	01-JUL-22
629558	MWO	PRAMOD KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
629779	MWO	MOHAMMAD ASIF ALI	IAF (P)	01-JUL-22
703938	MWO	BHANWER SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
704783	MWO	JASWINDER SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
705174	MWO	ASHOK KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
705461	MWO	VIJAYAN K M	IAF (P)	01-JUL-22
725402	MWO	ANUPAM KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
704172	MWO	KULDEEP SINGH	IAF (P)	01-AUG-22
705807	MWO	KRISHAN SINGH YADAV	IAF (P)	01-AUG-22
704169	MWO	PARTAP SINGH SANGWAN	IAF (P)	01-OCT-22
703812	MWO	PURAN SINGH	IAF (P)	01-NOV-22
704158	MWO	OMBIR SINGH DALAL	IAF (P)	01-NOV-22
729344	MWO	HEMANT KUMAR	IAF (P)	01-NOV-22
629727	MWO	S K SURESH	IAF (P)	25-NOV-22
628299	MWO	ASHOK KUMAR BAJPAI	IAF (P)	01-DEC-22
725180	MWO	RAM KRISHNA	IAF (P)	01-DEC-22



707526	MWO	NAGENDRA KUMAR SHARMA	INST FIT	01-JAN-22
708979	MWO	UMESH KUMAR SINGH	INST FIT	01-JAN-22
717330	MWO	RAMKARAN	INST FIT	01-JAN-22
688626	MWO	PRAMANDER SINGH SIROHI	INST FIT	01-FEB-22
708835	MWO	HEMANTA KUMAR SAHOO	INST FIT	01-FEB-22
708983	MWO	NRAPENDRA DIXIT	INST FIT	01-FEB-22
708985	MWO	ASHOK KUMAR UTTAM	INST FIT	01-FEB-22
709083	MWO	SONJAY YADAV	INST FIT	01-FEB-22
687936	MWO	DIPANKAR MONDAL	INST FIT	01-MAR-22
688850	MWO	PREM KUMAR SHARMA	INST FIT	01-MAR-22
709043	MWO	ASHOK KUMAR MISHRA	INST FIT	01-MAR-22
760649	MWO	SHIVASHRAY YADAV	INST FIT	01-MAR-22
686073	MWO	MADAN LAL BORANA	INST FIT	01-JUL-22
686981	MWO	RADHESHYAM PRASAD	INST FIT	01-JUL-22
687128	MWO	BRIJPAL SINGH	INST FIT	01-JUL-22
691525	MWO	BAL KRISHAN SHARMA	INST FIT	01-JUL-22
707549	MWO	PRAMOD KUMAR MALIK	INST FIT	01-JUL-22
709819	MWO	RAMACHANDRAN NAIR SANKARAN NAIR	INST FIT	01-JUL-22
716181	MWO	DULAR CHANDRA MANJHI	INST FIT	01-JUL-22
716640	MWO	RAKESH KUMAR SINGH	INST FIT	01-JUL-22
716828	MWO	SHIV KUMAR SHARMA	INST FIT	01-JUL-22
717720	MWO	DESRAJ MALIK	INST FIT	01-JUL-22
688293	MWO	ASHISH KUMAR MAITY	INST FIT	01-AUG-22
688778	MWO	PRADEEP SINGH	INST FIT	01-AUG-22
689010	MWO	DILLIP KUMAR DALAI	INST FIT	01-AUG-22
707125	MWO	PARTHA SARATHI MAJUMDAR	INST FIT	01-AUG-22
709935	MWO	RANJAN KUMAR PRADHAN	INST FIT	01-AUG-22
709547	MWO	SWADESH KUMAR SAXENA	INST FIT	01-SEP-22
740050	MWO	BIRENDRA SINGH	INST FIT	01-SEP-22
709980	MWO	AUDUMBER CHOPADE	INST FIT	01-NOV-22
710964	MWO	PAWAN KUMAR DUBEY	MED ASST	01-MAR-21
710126	MWO	AJAY KUMAR SINGH	MED ASST	01-MAY-21
710149	MWO	PARITOSH PAUL	MED ASST	01-MAY-21
710385	MWO	JOGINDER SINGH	MED ASST	01-JAN-22
710861	MWO	SHAILENDRA KUMAR PRAJAPATI	MED ASST	01-JAN-22
710677	MWO	S THOMAS P RAJ	MED ASST	01-FEB-22
710715	MWO	DEVENDRA KUMAR	MED ASST	01-FEB-22

710789	MWO	RAJESH KUMAR AHLAWAT	MED ASST	01-FEB-22
710751	MWO	JIGO JOSEPH	MED ASST	01-MAR-22
710774	MWO	MANOJ KUMAR TYAGI	MED ASST	01-MAR-22
656741	MWO	RAMESH CHAND VERMA	MED ASST	01-JUL-22
656783	MWO	CHANDRA BHAN YADAV	MED ASST	01-JUL-22
656844	MWO	PRITAM NEGI	MED ASST	01-JUL-22
656851	MWO	CHANDRA PRAKASH TRIPATHI	MED ASST	01-JUL-22
710035	MWO	SANDIP CHATTOPADHYAY	MED ASST	01-JUL-22
710091	MWO	BISWANATH SENGUPTA	MED ASST	01-JUL-22
710144	MWO	ASHUTOSH ADHIKARY	MED ASST	01-JUL-22
710239	MWO	JANARDANAN G	MED ASST	01-JUL-22
710370	MWO	MOHAMMAD YAMEEN	MED ASST	01-JUL-22
710899	MWO	KARUNA SHANKER SHUKLA	MED ASST	01-JUL-22
656742	MWO	ANJAY KUMAR SANGWAN	MED ASST	20-JUL-22
710070	MWO	NARENDER SINGH	MED ASST	01-AUG-22
710387	MWO	RAJ KUMAR SHARMA	MED ASST	01-AUG-22
710454	MWO	VIRENDER SINGH	MED ASST	01-AUG-22
710460	MWO	JOGINDER SINGH	MED ASST	01-AUG-22
710347	MWO	MOHAMMAD SULTAN	MED ASST	01-OCT-22
710421	MWO	ASHISH MATHUR	MED ASST	01-OCT-22
710822	MWO	KALYANI SAHIB KHAN	MED ASST	01-OCT-22
710422	MWO	SANT RAM DHILLON	MED ASST	01-NOV-22
710268	MWO	JAIPRAKASH	MED ASST	01-DEC-22
710474	MWO	OM BIR SINGH	MED ASST	01-DEC-22
695598	MWO	SUJIT NATH	MET ASST	01-MAY-21
698084	MWO	RAMESH CHANDER SHEOKAND	MET ASST	01-MAY-21
629103	MWO	HARENDRA KUMAR TIWARY	MET ASST	01-JUN-21
695908	MWO	RAJ KUMAR SINGH	MET ASST	01-JUN-21
699698	MWO	KULJEET SINGH LAMBA	MET ASST	01-JAN-22
726556	MWO	KASARE RAVINDRA KISAN	MET ASST	01-JAN-22
698048	MWO	NISITH CHOWDHURY	MET ASST	01-FEB-22
732442	MWO	DHARMINDER SINGH	MET ASST	01-FEB-22
721437	MWO	PRADEEP MENON V	MET ASST	01-MAR-22
721526	MWO	SUJIT KUMAR SRIVASTAVA	MET ASST	01-JUN-22
679715	MWO	SANJAY MALI	MET ASST	01-JUL-22
695983	MWO	LAXMAN SINGH SEERVI	MET ASST	01-JUL-22
698560	MWO	SANTHOSH KUMAR E V	MET ASST	01-JUL-22
697179	MWO	KAMLESH PRATAP SINGH	MET ASST	01-AUG-22

706708	MWO	BIPIN BEHARI MANASINGH	MET ASST	01-OCT-22
679097	MWO	RAM NAVAL KUSHAWAHA	MET ASST	01-NOV-22
699701	MWO	HAWA SINGH	MET ASST	01-NOV-22
721094	MWO	ANIL KUMAR SINGH	MET ASST	01-NOV-22
689394	MWO	LAKSHMAN KUMAR BEHERA	MS FIT (E)	01-MAY-21
688983	MWO	VIRENDRA SINGH	MS FIT(E)	01-NOV-21
687425	MWO	SUBHASH KUMAR	MS FIT(E)	01-JUL-22
688043	MWO	GAJVEER PILANIA	MS FIT(E)	01-JUL-22
689207	MWO	KUNWAR SANJAY	MS FIT(E)	01-JUL-22
689238	MWO	RANJIT KUMAR	MS FIT(E)	01-SEP-22
689272	MWO	SANJAY KUMAR OJHA	MS FIT(E)	01-OCT-22
689283	MWO	RAHAMAT HUSEN ANSARI	MS FIT(E)	01-OCT-22
689285	MWO	BIKRAMA KUMAR CHOUBEY	MS FIT(E)	01-OCT-22
689344	MWO	TAPAN KUMAR SARKAR	MS FIT(E)	01-OCT-22
689368	MWO	TILAK RAJ SHARMA	MS FIT(E)	01-NOV-22
709862	MWO	GOPAL SHAW	MS FIT (L)	01-APR-21
707090	MWO	VIDYA BHUSHAN KUMAR	MS FIT(L)	01-JUL-22
707098	MWO	SATYENDRA SINGH YADAW	MS FIT(L)	01-JUL-22
708521	MWO	KULDEEP KUMAR SHARMA	MS FIT(L)	01-JUL-22
696138	MWO	UMA SHANKER	MS FIT(M)	01-JUL-22
699235	MWO	DURGA PADA PAN	MS FIT(M)	01-JUL-22
699772	MWO	PANKAJ KUMAR PANDEY	MS FIT(M)	01-JUL-22
730130	MWO	BHOJ PAL SINGH	MS FIT(M)	01-JUL-22
732020	MWO	NARAYAN CHANDRA MISHRA	MS FIT(M)	01-JUL-22
730332	MWO	CHARN SINGH	MS FIT(M)	01-NOV-22
698028	MWO	JAYAMOHANAN VELAYUDHAN	MT FIT	01-MAY-21
699875	MWO	VINAYAK KUMAR PATHAK	MT FIT	01-DEC-21
699359	MWO	SAHASRA PAL SINGH	MT FIT	01-JAN-22
699451	MWO	DHOOP SINGH SHARMA	MT FIT	01-FEB-22
699680	MWO	SARVENDRA SINGH PATEL	MT FIT	01-FEB-22
731390	MWO	RAJESH KUMAR	MT FIT	01-FEB-22
731499	MWO	GOLAM SADDIQUE	MT FIT	01-FEB-22
696523	MWO	MAHIPAT SINGH CHAUHAN	MT FIT	01-MAR-22
730513	MWO	SUBRATA KUMAR PATHAK	MT FIT	01-MAR-22
678649	MWO	SUBHASH CHANDER	MT FIT	01-APR-22
679993	MWO	VISHNU DUTTA SARASWAT	MT FIT	01-APR-22
698995	MWO	RAMAKANTA BEHERA	MT FIT	01-APR-22
675875	MWO	KESHWANARAYAN PRASAD	MT FIT	01-JUN-22

731116	MWO	RAMESH KUMAR	MT FIT	01-JUN-22
678423	MWO	SANTOSH KUMAR SHARMA	MT FIT	01-JUL-22
696560	MWO	UMESH CHANDRA TRIPATHI	MT FIT	01-JUL-22
697275	MWO	LALIT KUMAR SINGH	MT FIT	01-JUL-22
698248	MWO	SHIV KESH SHARMA	MT FIT	01-JUL-22
699514	MWO	AMAR DAYAL SINGH	MT FIT	01-JUL-22
722119	MWO	SANJAY KUMAR	MT FIT	01-OCT-22
722439	MWO	SANCHIT KUMAR KUSHWAHA	MT FIT	01-OCT-22
696864	MWO	SANJEEV KUMAR	MT FIT	01-NOV-22
697049	MWO	SHYAM BHAWAN	MT FIT	01-NOV-22
697080	MWO	GHAN SHYAM SINGH	MT FIT	01-NOV-22
706210	MWO	NAVIN KUMAR JHA AZAD	MTD	01-APR-21
720916	MWO	KUNDAN SHARMA	MTD	01-OCT-21
721197	MWO	RAMESH KUMAR	MTD	01-JAN-22
720036	MWO	RAJPAL SINGH	MTD	01-FEB-22
720564	MWO	RAJESH KUMAR	MTD	01-FEB-22
721186	MWO	SANAT KUMAR TIWARI	MTD	01-FEB-22
721322	MWO	UTPAL CHAKRABORTI	MTD	01-FEB-22
721360	MWO	BHUSHAN KUMAR BIR	MTD	01-FEB-22
721367	MWO	RANJIT KUMAR SAHU	MTD	01-FEB-22
721407	MWO	SUNIL SINGH	MTD	01-FEB-22
721607	MWO	CHHATERPAL SINGH	MTD	01-FEB-22
721352	MWO	ANAND KUMAR RATHI	MTD	01-MAR-22
721583	MWO	SHAMBHU SHARAN TIWARI	MTD	01-MAR-22
721592	MWO	CHHOTE LAL SHARMA	MTD	01-MAR-22
721651	MWO	MAHENDER SINGH YADAV	MTD	01-MAR-22
720689	MWO	SURENDER KUMAR	MTD	01-APR-22
721002	MWO	LABHALA VENKAT RAO	MTD	01-APR-22
721365	MWO	SANJEEV KUMAR TYAGI	MTD	01-APR-22
721697	MWO	MANOJ KUMAR SINGH	MTD	01-APR-22
721702	MWO	CHANDRA PRAKASH SINGH	MTD	01-APR-22
721743	MWO	GAJANAND	MTD	01-APR-22
720142	MWO	VIJAY KUMAR	MTD	01-JUN-22
628648	MWO	BHALERAO JAYANT JAGDISH	MTD	01-JUL-22
628800	MWO	ANJANI KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
628935	MWO	MONU KUMAR NATH	MTD	01-JUL-22
629139	MWO	NAND KUMAR VERMA	MTD	01-JUL-22
629410	MWO	BHAGIRATHI PANDA	MTD	01-JUL-22

629476	MWO	VIRENDER SINGH	MTD	01-JUL-22
629507	MWO	DIPAK ROY CHOWDHURY	MTD	01-JUL-22
629800	MWO	VIRENDER SINGH YADAV	MTD	01-JUL-22
705005	MWO	V B VASU DEVACHARYULU	MTD	01-JUL-22
705072	MWO	ASHOK KUMAR SHARMA	MTD	01-JUL-22
705215	MWO	ASHOK KUMAR PAL	MTD	01-JUL-22
705217	MWO	RAGHAW RAM SHUKLA	MTD	01-JUL-22
705536	MWO	BHANWAR LAL CHAUHAN	MTD	01-JUL-22
705541	MWO	SUBHASH KUMAR GAUR	MTD	01-JUL-22
705612	MWO	BUDH RAM	MTD	01-JUL-22
705819	MWO	SAJIMON THOMAS	MTD	01-JUL-22
705821	MWO	RAM KUMAR	MTD	01-JUL-22
705870	MWO	BILLU RAM	MTD	01-JUL-22
705954	MWO	SATBIR SINGH RAWAT	MTD	01-JUL-22
706280	MWO	RAJENDER SINGH PANWAR	MTD	01-JUL-22
721761	MWO	BEANT SINGH	MTD	01-JUL-22
721858	MWO	RAJ KUMAR BADHAN	MTD	01-JUL-22
720268	MWO	MAHENDER SINGH	MTD	01-AUG-22
720390	MWO	RAKESH KUMAR	MTD	01-AUG-22
721052	MWO	KULDEEP SINGH	MTD	01-AUG-22
721982	MWO	RAJVIR SEHRAWAT	MTD	01-AUG-22
720194	MWO	BRAJ KISHOR SHARMA	MTD	01-SEP-22
721236	MWO	RATTAN LAL	MTD	01-SEP-22
722073	MWO	A RAJESH KUMAR NAIR	MTD	01-SEP-22
706256	MWO	BHOOPAL KUMAR YADAV	MTD	01-OCT-22
720705	MWO	MANO RANJAN JENAMANI	MTD	01-OCT-22
721371	MWO	SUMER SINGH	MTD	01-OCT-22
721588	MWO	RUPESH SAWAN	MTD	01-OCT-22
720658	MWO	KAMLESH KUMAR	MTD	01-NOV-22
721383	MWO	ANAND PARKASH	MTD	01-NOV-22
721653	MWO	KEWAL SINGH	MTD	01-NOV-22
721867	MWO	BIJENDER	MTD	01-NOV-22
721997	MWO	TEJ PAL	MTD	01-NOV-22
722051	MWO	NIRANJAN KUMAR	MTD	01-NOV-22
722419	MWO	NARESH KUMAR	MTD	01-DEC-22
721726	MWO	SANKAR SESHADRI K	MTD	24-DEC-22
628948	MWO	DINESH SHARMA	MUSN	01-JUN-21
703580	MWO	SHYAMAL KUMAR MITRA	MUSN	01-JUL-22

706798	MWO	CHANDAN KUMAR PRATI HAR	MUSN	01-JUL-22
689457	MWO	UPJIT SINGH AHUJA	PHOTO FIT	01-JAN-22
689458	MWO	SAUMIK KUMAR GUPTA	PHOTO FIT	01-JUN-22
689475	MWO	RANJAY KUMAR CHOUDHARY	PHOTO FIT	01-JUN-22
689495	MWO	RAMESH KUMAR SINGHAL	PHOTO FIT	01-JUN-22
689880	MWO	ISHWAR CHANDRA THAKUR	PHOTO FIT	01-JUN-22
724016	MWO	HARI SINGH	PJI	01-JUN-21
723782	MWO	RAVINDER BEDWA	PJI	01-NOV-22
715152	MWO	BIRENDRA KUMAR	RAD FIT	01-MAY-21
715443	MWO	AWADESH KUMAR MAHATO	RAD FIT	01-MAY-21
686436	MWO	ABHAYA KUMAR SAHOO	RAD FIT	01-JUN-21
674208	MWO	OM PRAKASH SRIVASTVA	RAD FIT	01-FEB-22
686886	MWO	NILAMBAR ROY	RAD FIT	01-FEB-22
683236	MWO	JYOTIRAJ SINGH	RAD FIT	01-MAR-22
687685	MWO	BHANWAR LAL JANGIR	RAD FIT	01-MAR-22
707626	MWO	MANORANJAN PANDA	RAD FIT	01-MAR-22
629875	MWO	AMRENDRA KUMAR	RAD FIT	01-APR-22
686773	MWO	NASIR ALI KHAN	RAD FIT	01-APR-22
686966	MWO	PURNENDU RAMAN	RAD FIT	01-APR-22
707590	MWO	LOVEKESH KUMAR	RAD FIT	01-APR-22
707608	MWO	SAMIRAN SAMADDER	RAD FIT	01-APR-22
707687	MWO	RABINDRA KUMAR THAKUR	RAD FIT	01-APR-22
716107	MWO	RAJKUMAR SINGH	RAD FIT	01-APR-22
716647	MWO	VINESH KUMAR	RAD FIT	01-APR-22
716803	MWO	MAHESH DATT SHARMA	RAD FIT	01-APR-22
684767	MWO	VIRPAL SINGH	RAD FIT	01-MAY-22
687588	MWO	BIJAYA KUMAR NAYAK	RAD FIT	01-MAY-22
707513	MWO	DEVIPRASANN	RAD FIT	01-MAY-22
629934	MWO	RAKESH KUMAR SHARMA	RAD FIT	01-JUL-22
640525	MWO	NIZAMUDDIN KHAN	RAD FIT	01-JUL-22
640875	MWO	KAMALESH TIWARI	RAD FIT	01-JUL-22
683342	MWO	TEJ NARAYAN YADAVA	RAD FIT	01-JUL-22
685408	MWO	RAMESH KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
685720	MWO	RAJ KISHOR GUPTA	RAD FIT	01-JUL-22
685959	MWO	MITHILESH KUMAR SINHA	RAD FIT	01-JUL-22
686130	MWO	SAMSUL ALAM SARDAR	RAD FIT	01-JUL-22
686246	MWO	HIMANSHU KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
686317	MWO	SHIVADHAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22

686423	MWO	BABBAN SHARMA	RAD FIT	01-JUL-22
686577	MWO	PRAMOD SINGH RAWAL	RAD FIT	01-JUL-22
690302	MWO	HOSHYAR SINGH YADAV	RAD FIT	01-JUL-22
690882	MWO	RAJESHWAR MALIK	RAD FIT	01-JUL-22
692160	MWO	RAJ KUMAR SINGH TOMAR	RAD FIT	01-JUL-22
715373	MWO	SHRI PRAKASH UPADHYAY	RAD FIT	01-JUL-22
715811	MWO	MANINDRA MOHAN DAS	RAD FIT	01-JUL-22
706105	MWO	PRABHAKAR PRASAD SINGH	RAD FIT	01-OCT-22
715392	MWO	AJAI KUMAR RAI	RAD FIT	01-OCT-22
715422	MWO	LAKSHMAN SINGH	RAD FIT	01-OCT-22
716835	MWO	ARUN KUMAR CHATURVEDI	RAD FIT	01-OCT-22
654660	MWO	VIJENDRA PAL SINGH	RAD FIT	01-NOV-22
705275	MWO	OM PRAKASH TIWARI	RAD FIT	01-NOV-22
707115	MWO	AKHILESH KUMAR MISRA	RAD FIT	01-NOV-22
654676	MWO	SOHAN SINGH	RAD FIT	01-DEC-22
705403	MWO	RAJESHWAR SINGH YADAV	RAD FIT	01-DEC-22
715123	MWO	VIDYA SAGAR YADAV	RAD FIT	01-DEC-22
690904	MWO	VIJAY DUTT SHARMA	RAD FIT	07-DEC-22
685862	MWO	BABOO RAM GUPTA	RDO FIT	01-APR-21
707383	MWO	RAM DEEN	RDO FIT	01-OCT-21
716095	MWO	BACHCHU SINGH	RDO FIT	01-NOV-21
654698	MWO	SHISH PAL DAHIYA	RDO FIT	01-JAN-22
686953	MWO	SAWALIA SINGH	RDO FIT	01-JAN-22
687515	MWO	RAJENDAR KUMAR SHARMA	RDO FIT	01-JAN-22
687573	MWO	SAROJ KUMAR SWAIN	RDO FIT	01-JAN-22
687780	MWO	RANVIR SINGH	RDO FIT	01-JAN-22
691964	MWO	DWARIKA NATH	RDO FIT	01-JAN-22
715036	MWO	RAMESH CHANDRA	RDO FIT	01-JAN-22
716152	MWO	PRITHAVI SINGH RAWAT	RDO FIT	01-JAN-22
716538	MWO	SHIV NARAYAN ROY	RDO FIT	01-JAN-22
717594	MWO	SOUMITRA MUKHOPADHYAY	RDO FIT	01-JAN-22
717690	MWO	GIRISH KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-JAN-22
717701	MWO	ANUPAM PATI TRIPATHI	RDO FIT	01-JAN-22
629854	MWO	CHAND SINGH	RDO FIT	01-FEB-22
685128	MWO	ATAL BIHARI MISHRA	RDO FIT	01-FEB-22
685753	MWO	ARUN KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-FEB-22
685914	MWO	NUNU SAH	RDO FIT	01-FEB-22
685938	MWO	YOGIRAJ ARVIND	RDO FIT	01-FEB-22

686327	MWO	SHIVA KANT MISHRA	RDO FIT	01-FEB-22
686711	MWO	LAKSHMI NARAYAN	RDO FIT	01-FEB-22
686905	MWO	BHANU RANJAN BISWAS	RDO FIT	01-FEB-22
687871	MWO	AJAY KUMAR MATHUR	RDO FIT	01-FEB-22
687900	MWO	SATYA NAND SINGH	RDO FIT	01-FEB-22
706814	MWO	SHADI LAL SHARMA	RDO FIT	01-FEB-22
707392	MWO	HARISH CHANDRA VERMA	RDO FIT	01-FEB-22
715803	MWO	OM PRAKASH LAL	RDO FIT	01-FEB-22
717398	MWO	MRUTYUNJAYA BEHERA	RDO FIT	01-MAR-22
686056	MWO	CHAMAN LAL KHAJURIA	RDO FIT	01-APR-22
687993	MWO	SORFUL AMIN MONDAL	RDO FIT	01-APR-22
705411	MWO	RAJ KUMAR DHIMAN	RDO FIT	01-APR-22
716270	MWO	ABODH KUMAR SAHU	RDO FIT	01-APR-22
716456	MWO	GANESH KUMAR GHOSH	RDO FIT	01-APR-22
716554	MWO	SANJAY KUMAR RAKESH	RDO FIT	01-APR-22
717279	MWO	RAMA KANT SINGH	RDO FIT	01-APR-22
685558	MWO	KAILASH CHANDRA SHARMA	RDO FIT	01-JUN-22
686972	MWO	PANCHA NAND SINGH	RDO FIT	01-JUN-22
686990	MWO	MOHAMMAD ILIYAS	RDO FIT	01-JUN-22
706093	MWO	PRABHU NATH CHAUBEY	RDO FIT	01-JUN-22
706098	MWO	RAM JEE SINGH	RDO FIT	01-JUN-22
716528	MWO	ARVIND KUMAR	RDO FIT	01-JUN-22
629859	MWO	BAIDYANATH PANDA	RDO FIT	01-JUL-22
639742	MWO	OM PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22
640251	MWO	HARI HAR	RDO FIT	01-JUL-22
640469	MWO	SHIVE PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22
654741	MWO	SHAILENDRA KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
674898	MWO	SANJAY PRASAD	RDO FIT	01-JUL-22
684985	MWO	BABU LAL	RDO FIT	01-JUL-22
685115	MWO	RAMESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
685179	MWO	MANOJ KUMAR PAUL	RDO FIT	01-JUL-22
685205	MWO	DHANAPATI SHOW	RDO FIT	01-JUL-22
685776	MWO	ASHOK KUMAR YADAV	RDO FIT	01-JUL-22
685806	MWO	SHARAD CHANDRA	RDO FIT	01-JUL-22
685836	MWO	ABHIMANYU KUMAR YADAVA	RDO FIT	01-JUL-22
685859	MWO	DHARMASAIN NATH TIWARI	RDO FIT	01-JUL-22
690445	MWO	BIJOY KUMAR BOXI	RDO FIT	01-JUL-22
690736	MWO	SURYA PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22



691961	MWO	RAM PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22
691988	MWO	RAKESH SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
692054	MWO	DHARAMPAL SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
705301	MWO	SANJAY KUMAR CHAURASIA	RDO FIT	01-JUL-22
705714	MWO	BHAIYA RAM MAURYA	RDO FIT	01-JUL-22
706122	MWO	RAM PRASAD SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
706827	MWO	ASHOK KUMAR TRIPATHI	RDO FIT	01-JUL-22
707132	MWO	KAMAL KUMAR MANDAL	RDO FIT	01-JUL-22
715219	MWO	PREM PAL SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
715367	MWO	KAMRUL ISLAM CHOUDHURY	RDO FIT	01-JUL-22
715787	MWO	SHIV KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
717141	MWO	DEBASISH SAHA	RDO FIT	01-JUL-22
640242	MWO	HARISH CHANDRA MISHRA	RDO FIT	01-AUG-22
685945	MWO	MAHMOODUR RAHMAN	RDO FIT	01-AUG-22
686949	MWO	SUDHIR KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-AUG-22
687243	MWO	SHAILESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-AUG-22
690850	MWO	MAN MOHAN BHATT	RDO FIT	01-AUG-22
715467	MWO	MUSAFIR PRASAD YADAV	RDO FIT	01-AUG-22
687748	MWO	NILOTPAL BHADRA	RDO FIT	01-SEP-22
706531	MWO	VIKRAM DEY SARKAR	RDO FIT	01-SEP-22
707530	MWO	MD SOHAIL ANWAR	RDO FIT	01-SEP-22
715330	MWO	VINOD KUMAR SHARMA	RDO FIT	01-SEP-22
716300	MWO	JOHNSON P ABRAHAM	RDO FIT	01-SEP-22
717371	MWO	PRAVEEN KUMAR	RDO FIT	01-SEP-22
640163	MWO	KAMLENDRA PRAKASH	RDO FIT	01-OCT-22
687069	MWO	LOVESHINDER KUMAR SHARDA	RDO FIT	01-OCT-22
715121	MWO	ARUNA KUMAR	RDO FIT	01-OCT-22
715291	MWO	OM PRAKASH GUPTA	RDO FIT	01-OCT-22
715770	MWO	BINOD PRASAD SINGH	RDO FIT	01-OCT-22
716135	MWO	ASHOK KUMAR SAINI	RDO FIT	01-OCT-22
686315	MWO	PAWAN KUMAR CHOUDHARY	RDO FIT	01-NOV-22
687816	MWO	MANE SANJAY MAHADEO	RDO FIT	01-NOV-22
707754	MWO	AJIT KUMAR	RDO FIT	01-NOV-22
715889	MWO	JODH SINGH	RDO FIT	01-NOV-22
717100	MWO	PARMANAND	RDO FIT	01-NOV-22
717150	MWO	AMITAVA MAITI	RDO FIT	01-NOV-22
640194	MWO	ANIL KUMAR	RDO FIT	01-DEC-22
685616	MWO	VAKIL YADAV	RDO FIT	01-DEC-22

685744	MWO	LAL BHADUR YADAV	RDO FIT	01-DEC-22
685794	MWO	DAYA SHANKER PANDEY	RDO FIT	01-DEC-22
715131	MWO	SUSHIL KUMAR DHAR DUBEY	RDO FIT	01-DEC-22
715881	MWO	MAHENDRA SINGH	RDO FIT	01-DEC-22
716681	MWO	ASHOK KUMAR	RDO FIT	01-DEC-22
685825	MWO	DHIRENDRA KUMAR PATEL	RDO TECH	01-MAR-21
719508	MWO	ASHOK KUMAR	RDO TECH	01-DEC-21
718547	MWO	NIRANJAN KUMAR	RDO TECH	01-JAN-22
718852	MWO	SANJEEV KUMAR MEHRA	RDO TECH	01-JAN-22
718900	MWO	INDRA DEO PRASAD	RDO TECH	01-JAN-22
719299	MWO	RAJESH KUMAR	RDO TECH	01-JAN-22
719312	MWO	ASHOK KUMAR BHARTI	RDO TECH	01-JAN-22
719382	MWO	ANIL KUMAR	RDO TECH	01-JAN-22
719387	MWO	CHANDRA SHEKHAR PATHAK	RDO TECH	01-JAN-22
745920	MWO	SANAT KAR	RDO TECH	01-FEB-22
745921	MWO	SUNIL KUMAR	RDO TECH	01-FEB-22
640433	MWO	UMESH KUMAR GUPTA	RDO TECH	01-JUL-22
640622	MWO	AJAY KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
684634	MWO	PARVEEN KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
685311	MWO	ISHWAR PAL SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
690180	MWO	CHANDRA PRAKASH RAI	RDO TECH	01-JUL-22
691142	MWO	SAROJ KUMAR PANDA	RDO TECH	01-JUL-22
692167	MWO	INDRA PAL SINGH BHADAURIA	RDO TECH	01-JUL-22
706180	MWO	HARISH KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
716912	MWO	MUKESH KUMAR GUPTA	RDO TECH	01-JUL-22
719882	MWO	MRINAL KANTI GHOSH	RDO TECH	01-JUL-22
719934	MWO	DHARMBIR SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
745528	MWO	NHANGATTUR PISHARATH PRAMOD	RDO TECH	01-JUL-22
745584	MWO	RAKESH KUMAR YADAV	RDO TECH	01-JUL-22
745631	MWO	SANJEEV KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
691796	MWO	VIJAY KUMAR GAUTAM	RDO TECH	01-AUG-22
745195	MWO	DIBYENDU BHOWMICK	RDO TECH	01-AUG-22
718916	MWO	ARUN KUMAR	RDO TECH	01-OCT-22
717828	MWO	PRAMOD KUMAR C	RDO TECH	01-NOV-22
719900	MWO	BASANTA KUMAR SAHOO	RDO TECH	01-NOV-22
745804	MWO	DEBASIS DAS	RDO TECH	01-NOV-22
699166	MWO	RANBIR SINGH BHADOURIYA	SEW	01-APR-22
695263	MWO	CHANDRA PAL SINGH	SEW	01-JUL-22

697056	MWO	RAM PRAKASH SINGH	SEW	01-JUL-22
695941	MWO	ARVIND KUMAR	SEW	01-OCT-22
745385	MWO	RAVINDER KUMAR ARORA	TELST RTO	01-MAR-21
717361	MWO	SUBHASH KUMAR	TELST RTO	01-DEC-21
716763	MWO	DESH RAJ RANA	TELST RTO	01-JAN-22
718049	MWO	CHEENATHAM POYIL GIRISH KUMAR	TELST RTO	01-JAN-22
640047	MWO	CHHATRA PAL SINGH	TELST RTO	01-FEB-22
717450	MWO	VIDYADHAR BAGRIA	TELST RTO	01-FEB-22
717305	MWO	MANOJ KUMAR BAJPAI	TELST RTO	01-MAR-22
718144	MWO	RAJESH HIRA	TELST RTO	01-MAR-22
718258	MWO	SHYAM SUNDAR SHARMA	TELST RTO	01-MAR-22
718119	MWO	SANJAY	TELST RTO	01-MAY-22
719737	MWO	ATENDRA KUMAR TOMER	TELST RTO	01-MAY-22
718095	MWO	RAJESH KUMAR POONIA	TELST RTO	01-JUN-22
639903	MWO	PALANIRAJA N	TELST RTO	01-JUL-22
639958	MWO	SHIVOM SHARMA	TELST RTO	01-JUL-22
640099	MWO	CHITRAKETU SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
640102	MWO	DILBAG SINGH DAHIYA	TELST RTO	01-JUL-22
640136	MWO	SATYA BIR SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
640299	MWO	RAMAN KUMAR CHAUDHARY	TELST RTO	01-JUL-22
640414	MWO	JOHN SAMUEL	TELST RTO	01-JUL-22
640514	MWO	HARI NANDAN UPADHYAY	TELST RTO	01-JUL-22
640566	MWO	VIDYA BHUSAN MISRA	TELST RTO	01-JUL-22
640889	MWO	SMARAJIT GUCHAIT	TELST RTO	01-JUL-22
640082	MWO	UMESH CHANDRA OJHA	TELST RTO	01-SEP-22
640062	MWO	SURENDRA KUMAR	TELST RTO	01-OCT-22
717335	MWO	KULBINDER SINGH	TELST RTO	01-NOV-22
717497	MWO	TUSHAR KANTI CHATTERJEE	TELST RTO	01-NOV-22
718733	MWO	R BHARDWAJ	TELST RTO	01-DEC-22
745051	MWO	SHEKHAR DAS	TELST RTO	01-DEC-22
696648	MWO	ANIL KUMAR SIROHI	WPN FIT	01-APR-21
696797	MWO	SHRI KANT TRIPATHI	WPN FIT	01-MAY-21
695734	MWO	JAGDISH PRASAD	WPN FIT	01-JUN-21
696977	MWO	RAMESH KUMAR PANDEY	WPN FIT	01-JUN-21
698809	MWO	SHANKAR SINGH	WPN FIT	01-JAN-22
699325	MWO	RAM DHARI SHARMA	WPN FIT	01-JAN-22
699555	MWO	CHIDANAND SINGH	WPN FIT	01-JAN-22
730249	MWO	SATENDRA KUMAR ATTRI	WPN FIT	01-JAN-22

730440	MWO	SUBRAT RANJAN BEHERA	WPN FIT	01-JAN-22
730812	MWO	SATAYWAN SINGH	WPN FIT	01-JAN-22
730848	MWO	NAGENDRA PAL SINGH TOMER	WPN FIT	01-JAN-22
731283	MWO	BHAGWAN SAHAI	WPN FIT	01-JAN-22
699780	MWO	SUBHASH CHANDRA SHARMA	WPN FIT	01-FEB-22
699798	MWO	ASHOK KUMAR YADAV	WPN FIT	01-FEB-22
729249	MWO	PRABIR KUMAR BARIK	WPN FIT	01-FEB-22
731689	MWO	VIJAY KUMAR TIWARI	WPN FIT	01-FEB-22
731701	MWO	RATAN KUMAR SAHA	WPN FIT	01-FEB-22
731756	MWO	SANJAY KUMAR	WPN FIT	01-FEB-22
731986	MWO	DHARMENDR KUMAR PUNDIR	WPN FIT	01-FEB-22
728130	MWO	CHITTA RANJAN SINGHA	WPN FIT	01-MAR-22
728138	MWO	SUBODH KUMAR GUPTA	WPN FIT	01-MAR-22
728971	MWO	MUKESH KUMAR RAJPUT	WPN FIT	01-MAR-22
729213	MWO	PRAMOD PRASAD	WPN FIT	01-MAR-22
732173	MWO	SHASHI BHUSHAN PRASAD SINGH	WPN FIT	01-MAR-22
732342	MWO	TAPAN KUMAR MAHATO	WPN FIT	01-MAR-22
728283	MWO	ASHOK KUMAR	WPN FIT	01-APR-22
731512	MWO	HIRA LAL SINGH	WPN FIT	01-APR-22
699162	MWO	VINOD KUMAR BAJPAI	WPN FIT	01-JUN-22
728298	MWO	SURESH PAL	WPN FIT	01-JUN-22
695069	MWO	RAM KUMAR YADAV	WPN FIT	01-JUL-22
696251	MWO	RAJ KISHORE	WPN FIT	01-JUL-22
696287	MWO	BIDHUBHUSHAN BHOWMIK	WPN FIT	01-JUL-22
696390	MWO	VEDA PRAKASH	WPN FIT	01-JUL-22
696428	MWO	SHYAM BIHARI	WPN FIT	01-JUL-22
697196	MWO	ANAND SINGH PANWAR	WPN FIT	01-JUL-22
697225	MWO	AWADHESH KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
698529	MWO	MD RAHAMAT S K	WPN FIT	01-JUL-22
699038	MWO	AMAR SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
699219	MWO	BRAJESH CHANDRA	WPN FIT	01-JUL-22
699296	MWO	RAMKISHOR YADAV	WPN FIT	01-JUL-22
730196	MWO	RAJ KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
732383	MWO	VIRENDER KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
698313	MWO	MOHINDER SINGH MOAR	WPN FIT	01-AUG-22
698517	MWO	PRASANNA KUMAR PANDA	WPN FIT	01-AUG-22
698972	MWO	RAMESH CHANDRA MISHRA	WPN FIT	01-AUG-22
699349	MWO	MAHESH BABU	WPN FIT	01-AUG-22

730045	MWO	GOUTAM KUMAR PAUL	WPN FIT	01-AUG-22
730380	MWO	NARENDRA BAGHAR	WPN FIT	01-SEP-22
730622	MWO	SHYAMAL SAMUI	WPN FIT	01-SEP-22
698514	MWO	AJIT KUMAR	WPN FIT	01-OCT-22
730841	MWO	RAMDYAL SINGH	WPN FIT	01-OCT-22
730993	MWO	CHANDER VIR SINGH RAJORA	WPN FIT	01-OCT-22
731171	MWO	TARJINDER SINGH	WPN FIT	01-OCT-22
699864	MWO	DINESH KUMAR	WPN FIT	01-NOV-22
728116	MWO	TARKESHWAR YADAV	WPN FIT	01-NOV-22
728158	MWO	RAVINDRA BHARTI	WPN FIT	01-NOV-22
730053	MWO	SHARAT CHANDRA RANA	WPN FIT	01-NOV-22
732381	MWO	PRAVESH KUMAR TIWARI	WPN FIT	01-NOV-22
733014	MWO	DHARAM NATH DUBEY	WS FIT (B)	01-JUN-21
697829	MWO	UPENDRA NATH PANDEY	WS FIT(B)	01-JUL-22
732659	MWO	SURESH MISHRA	WS FIT(B)	01-DEC-22
697928	MWO	ITWARI LAL	WS FIT(C)	01-JUL-22
699856	MWO	SUNIL KUMAR SINGH	WS FIT (M)	01-MAY-21
733506	MWO	ABHIMANYU GHADEI	WS FIT(M)	01-FEB-22
699788	MWO	ASHOK KUMAR TIWARI	WS FIT(M)	01-APR-22
678960	MWO	SATISH KUMAR	WS FIT(M)	01-JUL-22
679799	MWO	DEVESH KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-JUL-22
732282	MWO	RAMESH KUMAR	WS FIT(M)	01-SEP-22

Total 993(Nine Hundred Ninety Three) names only.

JWOs to Sub WOs)

SER NO	RANK	NAME	TRADE	SUB RANK DATE
704347	WO	MEHTAB SINGH	ACH GD	17-Jun-21
703186	WO	RAMESH KUMAR	ACH GD	01-Jan-22
725124	WO	NAND LAL YADAV	ACH GD	01-Jan-22
725635	WO	RAJ KUMAR SINGH	ACH GD	01-Jan-22
726005	WO	KAMALA KANTA PANDA	ACH GD	01-Jan-22
735227	WO	ASIT BHATTACHARJEE	ACH GD	01-Jan-22
702286	WO	GYANENDRA SINGH	ACH GD	01-Feb-22
725822	WO	ASHOK KUMAR	ACH GD	01-Feb-22
726936	WO	SATBIR JHAJJARIA	ACH GD	01-Feb-22
737961	WO	SANTOSH KUMAR TARASIA	ACH GD	01-Feb-22
738555	WO	SURENDER SINGH	ACH GD	01-Feb-22
738743	WO	PANKAJ KUMAR SINGH	ACH GD	01-Feb-22
739179	WO	HARIOM SHARMA	ACH GD	01-Feb-22
703484	WO	PRONAB KUMAR DUTTA	ACH GD	01-Apr-22

704215	WO	ASIS KUMAR DAS	ACH GD	01-Apr-22
725589	WO	SHIV KUMAR	ACH GD	01-Apr-22
737930	WO	SHIBENDRA SINGH RAWAT	ACH GD	01-Apr-22
694032	WO	BHARAT BHUSHAN SHARMA	ACH GD	01-Jun-22
739837	WO	GANESH BABU MISHRA	ACH GD	01-Jun-22
640655	WO	SATYENDRA KUMAR GUPTA	ACH GD	01-Jul-22
692757	WO	ABDUL MOYEED ANSARI	ACH GD	01-Jul-22
692858	WO	SHYAM LAL PAL	ACH GD	01-Jul-22
693295	WO	SURESH KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
693420	WO	RAVINDRA SINGH	ACH GD	01-Jul-22
693433	WO	DALBIR SINGH TAKSHAK	ACH GD	01-Jul-22
693701	WO	GURMEET SINGH DHINGRA	ACH GD	01-Jul-22
693707	WO	RANDHIR SINGH SUNDA	ACH GD	01-Jul-22
693795	WO	RISHI PAL BANSAL	ACH GD	01-Jul-22
693866	WO	SURAT SINGH KUMAIN	ACH GD	01-Jul-22
693867	WO	SETH PAL	ACH GD	01-Jul-22
693868	WO	PAWAN KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
693873	WO	JILE SINGH	ACH GD	01-Jul-22
694183	WO	PRANAB KUMAR SARKAR	ACH GD	01-Jul-22
694211	WO	SANTOSH KUMAR BEHERA	ACH GD	01-Jul-22
694581	WO	KRIPA SHANKER	ACH GD	01-Jul-22
694584	WO	SURESH CHANDRA	ACH GD	01-Jul-22
694667	WO	RAMAN UMASHANKAR	ACH GD	01-Jul-22
700108	WO	SATYA PAL SINGH	ACH GD	01-Jul-22
700110	WO	RAJESH KUMAR SHARMA	ACH GD	01-Jul-22
700112	WO	DHANVIR SINGH	ACH GD	01-Jul-22
700353	WO	DINESH PRASAD SINGH	ACH GD	01-Jul-22
700396	WO	SWAPAN KUMAR BANERJEE	ACH GD	01-Jul-22
700469	WO	MEHRA RAM CHOWDHARY	ACH GD	01-Jul-22
700576	WO	VIJAY KUMAR GOEL	ACH GD	01-Jul-22
700607	WO	ANAND SINGH	ACH GD	01-Jul-22
700608	WO	AJAY PAL SINGH	ACH GD	01-Jul-22
700619	WO	ROHTAS	ACH GD	01-Jul-22
700625	WO	AJMER SINGH NARWAL	ACH GD	01-Jul-22
700730	WO	KANHAIYA PRASAD	ACH GD	01-Jul-22
700829	WO	BALARAM MONDAL	ACH GD	01-Jul-22
700833	WO	ARUN KUMAR PANDEY	ACH GD	01-Jul-22
700893	WO	MAHINDER SINGH DAWER	ACH GD	01-Jul-22
700993	WO	MOHINDER SINGH CHHOKER	ACH GD	01-Jul-22
701290	WO	RANJIT SAH	ACH GD	01-Jul-22
701306	WO	JAYRAM SINGH	ACH GD	01-Jul-22
701383	WO	NARENDRA SINGH	ACH GD	01-Jul-22
701424	WO	PADAM SINGH	ACH GD	01-Jul-22
701524	WO	RAJKUMAR	ACH GD	01-Jul-22

701570	WO	PRANAB CHAND DEV	ACH GD	01-Jul-22
701590	WO	KRITTIBASH GHOSH	ACH GD	01-Jul-22
701591	WO	SWAPAN SEN	ACH GD	01-Jul-22
701598	WO	NIRMALYA BAL	ACH GD	01-Jul-22
701599	WO	ASIT KUMAR SARKAR	ACH GD	01-Jul-22
701610	WO	UDAY VIR SINGH	ACH GD	01-Jul-22
702132	WO	RAMESH CHADER DUBEY	ACH GD	01-Jul-22
702138	WO	ASHOK KUMAR KESHRI	ACH GD	01-Jul-22
702442	WO	UDAYKUMAR KAREPPA CHANDARGI	ACH GD	01-Jul-22
703001	WO	MUKHTYAR SINGH YADAV	ACH GD	01-Jul-22
703017	WO	SOHAN SINGH YADAV	ACH GD	01-Jul-22
703019	WO	ROHTAS KUMAR JARWAL	ACH GD	01-Jul-22
703277	WO	MAHESHWARI PRASAD YADAV	ACH GD	01-Jul-22
703280	WO	SACHIDA NANDA SINGHA	ACH GD	01-Jul-22
703582	WO	BASU DEB MODAK	ACH GD	01-Jul-22
704413	WO	RAJ KAPOOR SIWACH	ACH GD	01-Jul-22
706585	WO	DALBIR SINGH SANDHU	ACH GD	01-Jul-22
721593	WO	SATISH KUMAR CHIKARA	ACH GD	01-Jul-22
722209	WO	SUBHASH CHAND	ACH GD	01-Jul-22
722212	WO	RAJESH KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
725176	WO	PRABHAT KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
725301	WO	NARENDER KUMAR DAHIYA	ACH GD	01-Jul-22
726003	WO	SHANTANU KUMAR MOHANTY	ACH GD	01-Jul-22
726077	WO	NAVA KUMAR BRAHMA	ACH GD	01-Jul-22
726775	WO	TIRATH KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
726929	WO	GOPI CHAND KHOHAL	ACH GD	01-Jul-22
727079	WO	SAIBAL CHAKRABORTY	ACH GD	01-Jul-22
727226	WO	SURESH KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
736136	WO	SANJAY KUMAR SINGH	ACH GD	01-Jul-22
736808	WO	KAILASH KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
737038	WO	ARBIND KR TIWARI	ACH GD	01-Jul-22
737457	WO	SANJAY PANDEY	ACH GD	01-Jul-22
737957	WO	RIYAZUDDIN	ACH GD	01-Jul-22
738742	WO	DHARMENDRA KUMAR	ACH GD	01-Jul-22
739002	WO	ANJAN KUMAR GANTAYAT	ACH GD	01-Jul-22
739205	WO	MOOLEKKATTU VENU GIRISH	ACH GD	01-Jul-22
692668	WO	SHERA SINGH	ACH GD	01-Aug-22
694508	WO	SHIVKARAN CHOUDHARY	ACH GD	01-Aug-22
701292	WO	PRASHANT PRIYADARSHI	ACH GD	01-Aug-22
701738	WO	DAVENDER KUMAR	ACH GD	01-Aug-22
701941	WO	JEE RAM	ACH GD	01-Aug-22
703275	WO	MD SHAFIQUE KHAN	ACH GD	01-Aug-22
704352	WO	BRIJ RAJ SINGH	ACH GD	01-Aug-22
725333	WO	NATHAN LAL	ACH GD	01-Aug-22

725868	WO	PARMANAND SINGH	ACH GD	01-Aug-22
726345	WO	MAGAN SINGH	ACH GD	01-Aug-22
726925	WO	ROHITASH SINGH	ACH GD	01-Aug-22
736803	WO	DIVAKAR PANDEY	ACH GD	01-Aug-22
737104	WO	RANJAY KUMAR SINGH	ACH GD	01-Aug-22
739019	WO	RANJIT SINGH RANA	ACH GD	12-Sep-22
703576	WO	NAV RATAN PAUL	ACH GD	01-Oct-22
725467	WO	PRADIP MUKHERJEE	ACH GD	01-Oct-22
735093	WO	VIMAL THOMAS	ACH GD	01-Oct-22
736138	WO	NAVIN SINGH SAINI	ACH GD	01-Oct-22
736503	WO	OMPRAKASH	ACH GD	01-Oct-22
738741	WO	MANGAT SINGH	ACH GD	01-Oct-22
738744	WO	UPENDRA SINGH	ACH GD	01-Oct-22
739583	WO	DHARMENDER	ACH GD	01-Oct-22
704941	WO	DHARAMBIR MOUDGIL	ACH GD	01-Nov-22
737963	WO	SHATRUGHAN KUMAR MAURYA	ACH GD	01-Nov-22
738324	WO	ASHOK SINGH RATHORE	ACH GD	01-Nov-22
738566	WO	MAHTAB ALAM	ACH GD	01-Nov-22
739021	WO	ASHOK KUMAR SAH	ACH GD	01-Nov-22
739840	WO	ANAND YADAV	ACH GD	01-Nov-22
770372	WO	ANURAG SHUKLA	ACH GD	01-Nov-22
770602	WO	VIJAY PAL SINGH RAWAT	ACH GD	01-Nov-22
770820	WO	SUMNEET SINGH JAMWAL	ACH GD	01-Nov-22
770824	WO	JAY PRAKASH MISHRA	ACH GD	01-Nov-22
725871	WO	VIJAY KUMAR KUNWAR	ACH GD	01-Dec-22
739199	WO	SANGRAM KESHARI BEHERA	ACH GD	01-Dec-22
739370	WO	SUBHASISH MUKHOPADHYAY	ACH GD	01-Dec-22
739827	WO	GAJENDRA SINGH	ACH GD	01-Dec-22
770109	WO	DINESH KUMAR	ACH GD	01-Dec-22
770121	WO	DHARMENDRA SINGH	ACH GD	01-Dec-22
770359	WO	RAJEEV KUMAR	ACH GD	01-Dec-22
770384	WO	SHAMSHER SINGH	ACH GD	01-Dec-22
741010	WO	SANJEEV KUMAR SINGH	ADSO	01-Jan-22
741044	WO	RAJ PAL	ADSO	01-Jan-22
741047	WO	SURENDRA KUMAR YADAV	ADSO	01-Jan-22
741053	WO	SANJAY KUMAR	ADSO	01-Jan-22
741478	WO	VARINDER SINGH	ADSO	01-Feb-22
707887	WO	SHAMBHU NATH YADAV	ADSO	01-Apr-22
708227	WO	RAM BHAJAN YADAV	ADSO	01-Apr-22
709310	WO	DINESH KUMAR SHARMA	ADSO	01-Apr-22
707879	WO	VIJAY KUMAR SINGH	ADSO	01-Jun-22
716165	WO	SUNIL KUMAR SHARMA	ADSO	01-Jun-22
717125	WO	MANOJ KUMAR SINGH	ADSO	01-Jun-22
740304	WO	OM PRAKASH	ADSO	01-Jun-22



740924	WO	PRAMOD KUMAR PRADHAN	ADSO	01-Jun-22
708555	WO	SURESH KUMAR M P	ADSO	30-Jun-22
686989	WO	BACHA MISHRA	ADSO	01-Jul-22
687056	WO	AWADHESH KUMAR SINGH	ADSO	01-Jul-22
687356	WO	SHYAM NANDAN SAW	ADSO	01-Jul-22
687569	WO	BAIDHAR SAMAL	ADSO	01-Jul-22
706106	WO	GIRISH PRASAD	ADSO	01-Jul-22
707017	WO	PROFULLA CHANDRA DEY	ADSO	01-Jul-22
707324	WO	SHYAM KRISHNA AWASTHI	ADSO	01-Jul-22
707471	WO	RAJEEV KUMAR VASHISHTHA	ADSO	01-Jul-22
707888	WO	RAM YATNA PRASAD	ADSO	01-Jul-22
708016	WO	MIHIR KUMAR SAHOO	ADSO	01-Jul-22
708333	WO	RAJBIR SINGH	ADSO	01-Jul-22
708666	WO	ANIL KUMAR CHITADIPARAMBIL GOPALAKRISHNAN	ADSO	01-Jul-22
716148	WO	VIJAY KUMAR DIXIT	ADSO	01-Jul-22
716469	WO	SUNIL KUMAR RAY	ADSO	01-Jul-22
716893	WO	LALJEE HARIJAN	ADSO	01-Jul-22
716964	WO	SATENDRA KUMAR MALIK	ADSO	01-Jul-22
717276	WO	SACHCHIDA NAND SINGH	ADSO	01-Jul-22
740239	WO	SUPRIYA BANERJEE	ADSO	01-Jul-22
740453	WO	KULJIT SINGH DALAL	ADSO	01-Jul-22
740658	WO	PRAHLAD MANGAL	ADSO	01-Jul-22
687019	WO	SANJAY KUMAR	ADSO	01-Aug-22
709366	WO	PABITRA SAIKIA	ADSO	01-Aug-22
740262	WO	SARVENDRA KUMAR SINGH	ADSO	01-Aug-22
740332	WO	DINESH KUMAR YADAV	ADSO	01-Aug-22
740347	WO	SHRI RAM YADAV	ADSO	01-Aug-22
740370	WO	DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA	ADSO	01-Aug-22
708752	WO	BALGOVIND PRASAD	ADSO	01-Sep-22
740560	WO	SWAMINATH YADAV	ADSO	01-Sep-22
716487	WO	SHIV NATH SINGH	ADSO	01-Nov-22
740654	WO	SHAILESH KUMAR SINGH	ADSO	01-Nov-22
740716	WO	SHARWAN KUMAR CHOUHAN	ADSO	01-Nov-22
740876	WO	RAKESH KUMAR MISHRA	ADSO	01-Nov-22
740702	WO	SHASHI KANT RAI	ADSO	01-Dec-22
740916	WO	RAJESH KUMAR	ADSO	01-Dec-22
766485	WO	MAQUESUD ALAM	AF FIT	01-Jul-21
768927	WO	ANANT KUMAR	AF FIT	01-Oct-21
769162	WO	MUKTESWAR JENA	AF FIT	01-Jan-22
769445	WO	ATMANAND CHAUBEY	AF FIT	01-Jan-22
769459	WO	JAY PRAKASH NARAYAN	AF FIT	01-Jan-22
769470	WO	SHAILENDRA KUMAR	AF FIT	01-Jan-22
769769	WO	SUMESH KUMAR S	AF FIT	01-Jan-22
775061	WO	SURESH KUMAR JHA	AF FIT	01-Jan-22

695160	WO	UMA SHANKAR	AF FIT	01-Feb-22
768940	WO	SANJEEV KUMAR JHA	AF FIT	01-Apr-22
769135	WO	RAM KIRPAL SINGH	AF FIT	01-Apr-22
769179	WO	RADHESHYAM PANDEY	AF FIT	01-Apr-22
769453	WO	LALIT KISHOR SINGH	AF FIT	01-Apr-22
769772	WO	HARENDRA KUMAR SHARMA	AF FIT	01-Apr-22
679176	WO	AJIT SINGH	AFSO	01-Feb-22
721075	WO	MD NASARUDDIN	AFSO	01-Apr-22
734010	WO	HARISH KUMAR ARYA	AFSO	01-Apr-22
696640	WO	SURENDRA PAL	AFSO	01-Jun-22
679072	WO	SUBHASH CHANDRA	AFSO	01-Jul-22
679453	WO	PHOOL SINGH	AFSO	01-Jul-22
679571	WO	SURENDER SINGH DHAKA	AFSO	01-Jul-22
679702	WO	RAJENDRA KUMAR SHARMA	AFSO	01-Jul-22
679829	WO	SATYENDRA KUMAR SINGH	AFSO	01-Jul-22
694363	WO	RAGHUBIR SINGH SAINI	AFSO	01-Jul-22
695022	WO	KULDEEP SINGH GILL	AFSO	01-Jul-22
695119	WO	KARAN SINGH	AFSO	01-Jul-22
695791	WO	DINESH KUMAR	AFSO	01-Jul-22
695873	WO	ARUN YADAV	AFSO	01-Jul-22
696087	WO	MISHRI LAL	AFSO	01-Jul-22
696229	WO	RANJEET KUMAR	AFSO	01-Jul-22
696328	WO	RAJESH KUMAR GUPTA	AFSO	01-Jul-22
696478	WO	JASBIR SINGH	AFSO	01-Jul-22
696623	WO	SULINDER SINGH	AFSO	01-Jul-22
696634	WO	RANDHIR SINGH	AFSO	01-Jul-22
696675	WO	HARI NANDAN HARIAUDH	AFSO	01-Jul-22
696678	WO	SANTOSH KUMAR SINGH	AFSO	01-Jul-22
697123	WO	SATYABRATA SAMANTA	AFSO	01-Jul-22
697124	WO	PRADIP KUMAR MANDAL	AFSO	01-Jul-22
698043	WO	RAMESH KUMAR SRIVASTVA	AFSO	01-Jul-22
698351	WO	SUSHIL KUMAR	AFSO	01-Jul-22
699714	WO	GOVARDHAN SINGH NATHAWAT	AFSO	01-Jul-22
720448	WO	SURINDER SHAH	AFSO	01-Jul-22
731286	WO	GYANENDRA SINGH	AFSO	01-Jul-22
731505	WO	SUVABRATA GHOSE	AFSO	01-Jul-22
733308	WO	CHANDRA SEKHAR	AFSO	01-Jul-22
733385	WO	SHIV NARAIN GUPTA	AFSO	01-Jul-22
733481	WO	INDU BHUSHAN TRIPATHI	AFSO	01-Jul-22
734004	WO	NARENDER PAL SINGH	AFSO	01-Jul-22
679548	WO	ARUN KUMAR GUPTA	AFSO	01-Aug-22
695911	WO	BRIJESH RAI	AFSO	01-Aug-22
696680	WO	RAM BHARAT PRASAD	AFSO	01-Aug-22
699612	WO	HARBHAJAN SINGH	AFSO	01-Aug-22

720757	WO	ANTONY GEORGE	AFSO	01-Aug-22
733380	WO	VIRENDRA ROY	AFSO	01-Aug-22
698524	WO	KSHIRODA KUMAR PANDA	AFSO	01-Sep-22
699715	WO	SURENDER KUMAR	AFSO	01-Sep-22
705040	WO	MOLLA BABOR ALI	AFSO	01-Sep-22
730324	WO	KAMLESH KUMAR	AFSO	01-Oct-22
730987	WO	ANIL KUMAR SHARMA	AFSO	01-Oct-22
731642	WO	KANA RAM	AFSO	01-Oct-22
733307	WO	RAJESH KUMAR	AFSO	01-Oct-22
733477	WO	UMA KANT MANDAL	AFSO	01-Oct-22
733483	WO	BACHCHOO SINGH	AFSO	01-Oct-22
733819	WO	YOGENDRA SINGH YADAV	AFSO	01-Oct-22
696230	WO	HANS RAJ SINGH	AFSO	28-Oct-22
734373	WO	BALRAM SINGH	AFSO	01-Nov-22
785126	WO	MAHANAND GOPE	AFSO	01-Nov-22
785138	WO	SANTHOSH T K	AFSO	01-Nov-22
785376	WO	REYMOND N J	AFSO	01-Nov-22
692868	WO	RAM NAGEENA RAM	CAT ASST	01-Jul-22
694096	WO	SIRAZU DDIN KATHI WAL	CAT ASST	01-Jul-22
700117	WO	BRAHMAPAL SINGH	CAT ASST	01-Jul-22
700330	WO	RAMA NAND YADAV	CAT ASST	01-Jul-22
701186	WO	OM PARKASH KHARB	CAT ASST	01-Jul-22
701293	WO	BHIM PRASAD SINGH	CAT ASST	01-Jul-22
701566	WO	NARENDRA PRASAD RAI	CAT ASST	01-Jul-22
701572	WO	PARAN KUMAR DEKA	CAT ASST	01-Jul-22
701605	WO	DIPAK CHAKRABORTY	CAT ASST	01-Jul-22
701607	WO	SUNIL KUMAR PAL	CAT ASST	01-Jul-22
704785	WO	AJAY KUMAR	CAT ASST	01-Jul-22
720064	WO	RAJ KISHOR SINGH	CAT ASST	01-Jul-22
725763	WO	PRADEEP KUMAR TYAGI	CAT ASST	01-Jul-22
726097	WO	JITENDRA NATH DHANI	CAT ASST	01-Jul-22
736458	WO	NANDA KISHORE PATI	CAT ASST	01-Jul-22
701503	WO	DEBANANDA MISHRA	CAT ASST	01-Aug-22
703942	WO	HARNAM SINGH	CAT ASST	01-Aug-22
726333	WO	SAILESH KUMAR R	CAT ASST	01-Sep-22
728262	WO	UMA SHANKER SINGH	CAT ASST	01-Sep-22
700248	WO	UDAY CHANDRA DAS	CAT ASST	01-Oct-22
702407	WO	RAM KISHOR	CAT ASST	01-Nov-22
704222	WO	MANABENDRA NATH	CAT ASST	01-Nov-22
725654	WO	DALBIR SINGH CHOUHAN	CLK ACCTS	01-Jan-22
729560	WO	NABAB KHAN	CLK ACCTS	01-Jan-22
736251	WO	MUKESH CHAND KAUSHIK	CLK ACCTS	01-Feb-22
736847	WO	ROOPESH GUPTA	CLK ACCTS	01-Feb-22
739707	WO	DURGESH KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-Feb-22

772106	WO	SANJEEV TYAGI	CLK ACCTS	01-Feb-22
675332	WO	GYANDEO YADAV	CLK ACCTS	01-Jul-22
692200	WO	MANOJ KUMAR	CLK ACCTS	01-Jul-22
692287	WO	VINOD KUMAR SHEORAN	CLK ACCTS	01-Jul-22
692344	WO	UMASHANKER VISHWAKARMA	CLK ACCTS	01-Jul-22
693040	WO	RAGHUNATH MAHANTA	CLK ACCTS	01-Jul-22
693129	WO	OM PARKASH	CLK ACCTS	01-Jul-22
693214	WO	GURMAIL SINGH BEDI	CLK ACCTS	01-Jul-22
693233	WO	GOPAL VERMA	CLK ACCTS	01-Jul-22
693556	WO	VIVEKA NAND SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
693743	WO	DIWAN SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
693880	WO	CHANDER PAL SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
694022	WO	RAKESH KUMAR AWASTHI	CLK ACCTS	01-Jul-22
694193	WO	ARABINDA PATRA	CLK ACCTS	01-Jul-22
694407	WO	DALBIR SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
694494	WO	DHANRAJ SARAN	CLK ACCTS	01-Jul-22
694529	WO	SURESH SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
694533	WO	AWDHESH KUMAR TRIVEDI	CLK ACCTS	01-Jul-22
694543	WO	PIRTPAL SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
694812	WO	MOHAMMAD AKHTAR HUSSAIN	CLK ACCTS	01-Jul-22
694907	WO	AJIT KUMAR DUBEY	CLK ACCTS	01-Jul-22
698530	WO	GOUTAM DEY	CLK ACCTS	01-Jul-22
700278	WO	TARAPADA SAW	CLK ACCTS	01-Jul-22
700280	WO	BRAJA BALLAV GANGOPADHYAY	CLK ACCTS	01-Jul-22
700311	WO	GOPAL KRISHANA DIXIT	CLK ACCTS	01-Jul-22
700366	WO	SHASHIKUMAR BASAVARAJAPPA BALUR	CLK ACCTS	01-Jul-22
700432	WO	RAJENDER SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
700450	WO	DINESH PRASAD ROY	CLK ACCTS	01-Jul-22
700741	WO	MD ABID HOSSAIN	CLK ACCTS	01-Jul-22
700982	WO	JAGDISH LAL GILL	CLK ACCTS	01-Jul-22
701135	WO	PRABHAKAR SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
701141	WO	DAYA CHAND HARIT	CLK ACCTS	01-Jul-22
701269	WO	RAN BIJAY PRASAD	CLK ACCTS	01-Jul-22
701275	WO	SANJAY KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-Jul-22
701357	WO	AKSHAY THAPA	CLK ACCTS	01-Jul-22
703045	WO	RAJ KUMAR SAINI	CLK ACCTS	01-Jul-22
703195	WO	ASISH KUMAR SARKAR	CLK ACCTS	01-Jul-22
704134	WO	MORTEJ ALI MALLICK	CLK ACCTS	01-Jul-22
704623	WO	BALENDRA KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-Jul-22
726622	WO	SUSHIL KUMAR BAKSHI	CLK ACCTS	01-Jul-22
726699	WO	NARAYAN HARI AGARWAL	CLK ACCTS	01-Jul-22
729688	WO	AMRISH KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-Jul-22
732268	WO	HEEREKAR MAHESH KUMAR	CLK ACCTS	01-Jul-22
735083	WO	JAFFAR SHARIEFF S	CLK ACCTS	01-Jul-22

735250	WO	RAKESH RANA	CLK ACCTS	01-Jul-22
693632	WO	RAM BALAK PANDEY	CLK ACCTS	01-Aug-22
701522	WO	VIRPAL SINGH	CLK ACCTS	01-Aug-22
704460	WO	HIMANSHU PATEL	CLK ACCTS	01-Aug-22
737464	WO	CHATTAR SINGH	CLK ACCTS	01-Aug-22
702804	WO	RAJESH KUMAR	CLK ACCTS	01-Sep-22
703613	WO	SHRI NIWAS ATRI	CLK ACCTS	01-Sep-22
726486	WO	SRI RAGHUNATH JENA	CLK ACCTS	01-Sep-22
725322	WO	GHANSHYAM GAUTAM	CLK ACCTS	01-Oct-22
739415	WO	BINOD KUMAR PATHAK	CLK ACCTS	01-Oct-22
739953	WO	BIPIN CHANDRA PANDA	CLK ACCTS	01-Oct-22
770478	WO	PREM KUMAR	CLK ACCTS	01-Oct-22
693578	WO	MUKESH KAUSHIK	CLK ACCTS	01-Nov-22
694455	WO	BIRENDRA SINGH	CLK ACCTS	01-Nov-22
700304	WO	BADRI PRASAD MISRA	CLK ACCTS	01-Nov-22
701238	WO	RAKESH RANJAN RAI	CLK ACCTS	01-Nov-22
702995	WO	OMDUTT SHARMA	CLK ACCTS	01-Nov-22
704901	WO	OMPAL SINGH SHEORAN	CLK ACCTS	01-Nov-22
727186	WO	RAMKISHAN YADAV	CLK ACCTS	01-Nov-22
729668	WO	ANIL KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-Nov-22
729681	WO	DINESH KUMAR SAXENA	CLK ACCTS	01-Nov-22
729684	WO	ASHOK KUMAR KHATRI	CLK ACCTS	01-Nov-22
735080	WO	RAKESH SHARMA	CLK ACCTS	01-Nov-22
735712	WO	TANOJ KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-Nov-22
735713	WO	SUBHASH CHAND	CLK ACCTS	01-Nov-22
738027	WO	JAGDISH PRASAD JAT	CLK ACCTS	01-Nov-22
739055	WO	SHIV KUMAR VERMA	CLK ACCTS	01-Dec-22
770454	WO	SANJEEV KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-Dec-22
770463	WO	MOHD RIZWAN SIDDIQUI	CLK ACCTS	01-Dec-22
770925	WO	JAY SHANKAR	CLK GD	01-Jun-21
735709	WO	RAM NIWAS	CLK GD	01-Jan-22
736603	WO	MADHUSUDAN DAS	CLK GD	01-Jan-22
729600	WO	SUNIL GIRI	CLK GD	01-Feb-22
737194	WO	SANJIV KUMAR SINGH	CLK GD	01-Feb-22
737197	WO	SANJAY KUMAR	CLK GD	01-Feb-22
737520	WO	MAHESH	CLK GD	01-Feb-22
739269	WO	RAJ KUMAR DUBEY	CLK GD	01-Feb-22
739496	WO	ANIL VISWAMBHARAN	CLK GD	01-Feb-22
739637	WO	MANISH KUMAR DUBEY	CLK GD	01-Feb-22
727402	WO	RAM MILAN SINGH YADAV	CLK GD	01-Mar-22
735756	WO	DILIP KUMAR JHA	CLK GD	01-Mar-22
738254	WO	RAVIKANT SINGH	CLK GD	01-Mar-22
739627	WO	SUNIL KUMAR YADAV	CLK GD	01-Mar-22
735215	WO	ARNAB GHOSH	CLK GD	01-Apr-22

735627	WO	SUKHPAL	CLK GD	01-Apr-22
736514	WO	SANJAY KUMAR SHARMA	CLK GD	01-Apr-22
736909	WO	PAWAN KUMAR SINGH	CLK GD	01-Apr-22
738644	WO	CHANCHAL KUMAR	CLK GD	01-Apr-22
738865	WO	KABINDRA NATH YADAV	CLK GD	01-Apr-22
739095	WO	ARUN KUMAR	CLK GD	01-Apr-22
738902	WO	MUKESH KUMAR UPADHYAY	CLK GD	01-May-22
729632	WO	SUDESH KUMAR	CLK GD	01-Jun-22
693211	WO	HANUMAN DASS	CLK GD	01-Jul-22
693232	WO	KRISHNA KUMAR BANI	CLK GD	01-Jul-22
693353	WO	ALOCIOUS NELSON	CLK GD	01-Jul-22
693971	WO	MAHENDRA KUMAR	CLK GD	01-Jul-22
694305	WO	NAPOOR SAHA	CLK GD	01-Jul-22
694413	WO	ROSHAN LAL	CLK GD	01-Jul-22
694414	WO	ARVIND KUMAR VERMA	CLK GD	01-Jul-22
694740	WO	RAMESH CHANDRA MOHANTY	CLK GD	01-Jul-22
694796	WO	ASHOK KUMAR RAI	CLK GD	01-Jul-22
694840	WO	SANJAY KUMAR SINGH	CLK GD	01-Jul-22
700046	WO	VISHNU KANT	CLK GD	01-Jul-22
700049	WO	SALAHUDDIN	CLK GD	01-Jul-22
700135	WO	ABDUL BARI	CLK GD	01-Jul-22
700206	WO	BIRENDRA PRASAD	CLK GD	01-Jul-22
700276	WO	ARUN KUMAR MAJI	CLK GD	01-Jul-22
700569	WO	VED PRAKASH ARYA	CLK GD	01-Jul-22
700641	WO	GOUTAM ROY	CLK GD	01-Jul-22
700661	WO	JAYANTA CHATTERJEE	CLK GD	01-Jul-22
700732	WO	AMARENDRA SHAW	CLK GD	01-Jul-22
700881	WO	ASHWINI KUMAR MOHANTA	CLK GD	01-Jul-22
700957	WO	CHANDRA BHAWAN	CLK GD	01-Jul-22
700964	WO	RAGHWENDRA MISHRA	CLK GD	01-Jul-22
701226	WO	AJAY KUMAR TRIPATHI	CLK GD	01-Jul-22
701247	WO	SATYA NARAYAN PRASAD	CLK GD	01-Jul-22
701398	WO	SANDIP BHATTACHARJEE	CLK GD	01-Jul-22
701509	WO	YOGESH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-Jul-22
701899	WO	MAHADEV GANTAIT	CLK GD	01-Jul-22
702148	WO	VINAY KUMAR PANDEY	CLK GD	01-Jul-22
702190	WO	KRISHNENDU DAS	CLK GD	01-Jul-22
702420	WO	CHITRANJAN PRASAD SINGH	CLK GD	01-Jul-22
702757	WO	VASUDEVA KURUP RAMESH BABU	CLK GD	01-Jul-22
703138	WO	HIRA SINGH PAL	CLK GD	01-Jul-22
703143	WO	ASHOK KUMAR PAWAR	CLK GD	01-Jul-22
703232	WO	MD SHAHABUDDIN	CLK GD	01-Jul-22
703500	WO	HOSHIAR YADAV	CLK GD	01-Jul-22
703701	WO	LOK PRIYA NATH	CLK GD	01-Jul-22

703832	WO	SANDIP CHATTOPADHYAY	CLK GD	01-Jul-22
703844	WO	UTTAM KUMAR BOSE	CLK GD	01-Jul-22
725704	WO	SAMIR KUMAR LAHA	CLK GD	01-Jul-22
726382	WO	ASHOK KUMAR SHEORAN	CLK GD	01-Jul-22
726517	WO	RAJ KUMAR SINGH	CLK GD	01-Jul-22
726884	WO	SIKANDER SINGH YADAV	CLK GD	01-Jul-22
727343	WO	ASHOK KUMAR CHAUHAN	CLK GD	01-Jul-22
727842	WO	ROHIT SINGH	CLK GD	01-Jul-22
727850	WO	PRADEEP KUMAR K	CLK GD	01-Jul-22
735112	WO	SURENDRA KUMAR SINGH YADAV	CLK GD	01-Jul-22
735757	WO	RAJESH KUMAR SHARAN	CLK GD	01-Jul-22
736516	WO	SANJIV KUMAR SHARMA	CLK GD	01-Jul-22
736938	WO	VINAY KUMAR	CLK GD	01-Jul-22
737246	WO	HARISH UPADHYAYA	CLK GD	01-Jul-22
738090	WO	RAJENDER PRASAD	CLK GD	01-Jul-22
738691	WO	VIJAY KUMAR	CLK GD	01-Jul-22
725264	WO	ASHIM KUMAR GHOSH	CLK GD	01-Aug-22
726686	WO	SATISH KUMAR	CLK GD	01-Aug-22
728585	WO	LALBABOO	CLK GD	01-Aug-22
729007	WO	PULAK GHOSH	CLK GD	01-Aug-22
729490	WO	DEVENDRA SINGH	CLK GD	01-Aug-22
736546	WO	PAWAN KUMAR	CLK GD	01-Aug-22
770180	WO	HARISH KUMAR	CLK GD	01-Aug-22
701418	WO	JAGADISH CHANDRA MALAKAR	CLK GD	01-Sep-22
703695	WO	MAHASHAY TIWARI	CLK GD	01-Oct-22
704464	WO	ASHOK KUMAR SHARMA	CLK GD	01-Oct-22
727687	WO	CHANDRA BOS RAJORA	CLK GD	01-Oct-22
728368	WO	PHOOL SINGH	CLK GD	01-Oct-22
729595	WO	VINIT SHARMA	CLK GD	01-Oct-22
737200	WO	JITENDRA KUMAR	CLK GD	01-Oct-22
737506	WO	SHRIRAM SINGH	CLK GD	01-Oct-22
737807	WO	RAJESH SHARMA	CLK GD	01-Oct-22
739914	WO	HARISH DUBEY	CLK GD	01-Oct-22
770673	WO	RAVINDRA KUMAR	CLK GD	01-Oct-22
726634	WO	GIRDHAR SHARMA	CLK GD	01-Nov-22
736344	WO	NITIN KAMBOJ	CLK GD	01-Nov-22
736543	WO	DEVINDER KUMAR SHARMA	CLK GD	01-Nov-22
736912	WO	PRATYUSH KUMAR SRIVASTAVA	CLK GD	01-Nov-22
736932	WO	SUDHIR KUMAR SHUKLA	CLK GD	01-Nov-22
737500	WO	BIMAL SONAR	CLK GD	01-Nov-22
737851	WO	JEEVAN SINGH PANWAR	CLK GD	01-Nov-22
738051	WO	VINOD KUMAR PANDEY	CLK GD	01-Nov-22
738238	WO	SAJU VELAYUDHAN NAIR	CLK GD	01-Nov-22
770162	WO	CHANDRA KANTA DASH	CLK GD	01-Nov-22

704610	WO	NAVIN KUMAR	CLK GD	01-Dec-22
738050	WO	YASH PAL SINGH	CLK GD	01-Dec-22
738056	WO	KARAMJEET SINGH DHALIWAL	CLK GD	01-Dec-22
738431	WO	ABHIJIT KUMAR KAR	CLK GD	01-Dec-22
770389	WO	SANJAY YADAV	CLK GD	01-Dec-22
738054	WO	SARVESH KUMAR	CRYPTO	01-Jan-22
739282	WO	FEROZ KHAN	CRYPTO	01-Jan-22
739110	WO	DEO NANDAN KUMAR	CRYPTO	01-Feb-22
739283	WO	RAJIV SHARMA	CRYPTO	01-Feb-22
748264	WO	AJIT	CRYPTO	01-Feb-22
772389	WO	PATIL NITIN YASHAWANT	CRYPTO	01-Feb-22
772701	WO	DEEPAK KUMAR BHARDWAJ	CRYPTO	01-Mar-22
774226	WO	PAVAN SINGH	CRYPTO	01-May-22
770158	WO	DESH RAJ RANA	CRYPTO	01-Jun-22
715247	WO	SUBRATA PANDEY	CRYPTO	01-Aug-22
703238	WO	SATYENDRA KUMAR PANDEY	CRYPTO	01-Oct-22
727315	WO	HARI BABU SHARMA	CRYPTO	01-Oct-22
725698	WO	AKSHAY KUMAR MOHAPATRA	CRYPTO	01-Nov-22
727604	WO	KHETRABASI ROUL	CRYPTO	01-Nov-22
746470	WO	ARVIND KUMAR SINGH	CRYPTO	01-Dec-22
746471	WO	SATYA RAM YADAV	CRYPTO	01-Dec-22
904249	WO	SUNIL KUMAR	EDN INSTR	01-Jan-22
905796	WO	DEBRAJ BANERJEE	EDN INSTR	01-Jan-22
905804	WO	AJAY SINGH RAJPUROHIT	EDN INSTR	01-Jan-22
918848	WO	MANISH SHARMA	EDN INSTR	01-Jan-22
918857	WO	OMKAR AMRIT JENA	EDN INSTR	01-Jan-22
904255	WO	NARESH KUMAR	EDN INSTR	01-Feb-22
918847	WO	ASHISH MANKOTIA	EDN INSTR	01-Feb-22
901452	WO	SIVADAS S	EDN INSTR	01-Jun-22
918850	WO	S K TAZUDDIN	EDN INSTR	01-Jun-22
920284	WO	NIRANJAN PATRA	EDN INSTR	01-Jun-22
902007	WO	ARVIND SHARMA	EDN INSTR	01-Jul-22
902014	WO	MINAKETAN NAHAK	EDN INSTR	01-Jul-22
902983	WO	RAKESH KUMAR GUPTA	EDN INSTR	01-Jul-22
905802	WO	VIKAS YADAV	EDN INSTR	01-Jul-22
902026	WO	KUMAR JAYADIPTA MISHRA	EDN INSTR	01-Aug-22
918856	WO	GOURAV KUMAR SINGH	EDN INSTR	01-Aug-22
902024	WO	SURAJKUMAR P N	EDN INSTR	01-Oct-22
902995	WO	SANJAYA KUMAR SAHU	EDN INSTR	01-Oct-22
904245	WO	VIPIN KUMAR	EDN INSTR	01-Oct-22
761045	WO	LAXMIKANT JENA	ELECT FIT	01-Jul-21
762548	WO	PRAMOD KUMAR SABAT	ELECT FIT	01-Feb-22
687836	WO	MOHANAN C V	ELECT FIT	01-Jun-22
688743	WO	SUMER SINGH	ELECT FIT	01-Jun-22



705383	WO	YOGENDAR KUMAR	ELECT FIT	01-Jun-22
709599	WO	SUBODH KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Jun-22
761030	WO	DASHARATH CHOUHAN	ELECT FIT	01-Jun-22
761754	WO	KANNOO PRASAD TYAGI	ELECT FIT	01-Jun-22
640181	WO	SURENDRA BABU TIWARI	ELECT FIT	01-Jul-22
640506	WO	SUNIL KUMAR MISHRA	ELECT FIT	01-Jul-22
640625	WO	RANJIT PANDIT	ELECT FIT	01-Jul-22
640857	WO	SHIV PRAKASH YADAV	ELECT FIT	01-Jul-22
685067	WO	ASHOK KUMAR KAUSHIK	ELECT FIT	01-Jul-22
685152	WO	SARVESH KUMAR MISHRA	ELECT FIT	01-Jul-22
685438	WO	AWADHESH KUMAR PANDEY	ELECT FIT	01-Jul-22
685614	WO	BHAGIRATH SHARMA	ELECT FIT	01-Jul-22
685623	WO	NAGENDRA SAHU	ELECT FIT	01-Jul-22
685760	WO	PANCHANAN UPADHYAY	ELECT FIT	01-Jul-22
685875	WO	GHAN SHYAM KUSHWAHA	ELECT FIT	01-Jul-22
686199	WO	RAM VILAS SAHU	ELECT FIT	01-Jul-22
686467	WO	RAJAT KANTI GHOSH	ELECT FIT	01-Jul-22
686527	WO	DEBAJYOTI GANGULY	ELECT FIT	01-Jul-22
686649	WO	LALIT MOHAN SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
686822	WO	SUBHASIS GANGOPADHYAY	ELECT FIT	01-Jul-22
686962	WO	UPENDRA SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
687018	WO	ASHOK KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
687050	WO	PRAWIN KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
687506	WO	AKHILESH KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
688632	WO	SHASHI KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
688759	WO	AVNEESH KUMAR CHAUHAN	ELECT FIT	01-Jul-22
688874	WO	SHYAM KISHORE	ELECT FIT	01-Jul-22
688877	WO	SHIV KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
689095	WO	RAKESH KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
689556	WO	RAMVENDRA KUMAR VERMA	ELECT FIT	01-Jul-22
689728	WO	NIRANJAN A N	ELECT FIT	01-Jul-22
690915	WO	NANDAN SINGH BISHT	ELECT FIT	01-Jul-22
691328	WO	DARSHAN KUMAR BAJAJ	ELECT FIT	01-Jul-22
691697	WO	KRISHNA MURARI PRASAD	ELECT FIT	01-Jul-22
692028	WO	CHANDRA PRAKASH YADAV	ELECT FIT	01-Jul-22
705728	WO	IRFAN ALI	ELECT FIT	01-Jul-22
706872	WO	ROMALA HANUMANTHA RAO	ELECT FIT	01-Jul-22
707635	WO	NARAHARI SANKHUA	ELECT FIT	01-Jul-22
707673	WO	BHANU KUMAR JENA	ELECT FIT	01-Jul-22
709603	WO	RAJEEV RANJAN	ELECT FIT	01-Jul-22
715153	WO	AKHILESH KUMAR JHA	ELECT FIT	01-Jul-22
716918	WO	RASHID ALI	ELECT FIT	01-Jul-22
717172	WO	DHARMANDRA KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
717694	WO	JANESHWAR PRASAD SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22

760124	WO	SHEIKH KALAM	ELECT FIT	01-Jul-22
760167	WO	MANOJ KUMAR JHA	ELECT FIT	01-Jul-22
760417	WO	MUKESH KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
760462	WO	SMRUTI RANJAN DAS	ELECT FIT	01-Jul-22
760486	WO	HARI NARAYAN PANDEY	ELECT FIT	01-Jul-22
761295	WO	BAL RAJ	ELECT FIT	01-Jul-22
761336	WO	RAKESH KUMAR VISHNOI	ELECT FIT	01-Jul-22
761631	WO	VIJAY KUMAR	ELECT FIT	01-Jul-22
761691	WO	CHANDRA BHUSAN SINGH	ELECT FIT	01-Jul-22
761939	WO	SOM NATH MAHATO	ELECT FIT	01-Jul-22
685016	WO	SURESH SINGH	ELECT FIT	01-Aug-22
687119	WO	RAJESH SAINI	ELECT FIT	01-Aug-22
688883	WO	RAJESH KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Aug-22
689717	WO	JAI PRAKASH SINGH	ELECT FIT	01-Aug-22
690129	WO	MANMOHAN SINGH CHADHA	ELECT FIT	01-Aug-22
691808	WO	KRISHNA VEER SINGH BOHRA	ELECT FIT	01-Aug-22
707514	WO	SUKHWINDER JIT KUMAR SIDHU	ELECT FIT	01-Aug-22
709424	WO	SANJIT KUMAR SRIVASTAVA	ELECT FIT	01-Aug-22
709600	WO	CHANDRA SHEKHAR PANDEY	ELECT FIT	01-Aug-22
760062	WO	MANOJ KUMAR MISHRA	ELECT FIT	01-Aug-22
760106	WO	JAGDEEP SINGH RAJPUT	ELECT FIT	01-Aug-22
760528	WO	PARDEEP KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Aug-22
761418	WO	DAYASHANKAR SAHU	ELECT FIT	01-Aug-22
761849	WO	MAHENDRA KUMAR	ELECT FIT	01-Aug-22
761947	WO	SUJIT KUMAR SAU	ELECT FIT	01-Aug-22
762269	WO	SANJAY KUMAR MAHANTA	ELECT FIT	01-Aug-22
762283	WO	SANJAY KUMAR SHARMA	ELECT FIT	01-Aug-22
762620	WO	SANTOSH GHOSH	ELECT FIT	01-Aug-22
763094	WO	SATYA NARAYAN JANGIR	ELECT FIT	01-Aug-22
761778	WO	HARI PRASAD SINGH	ELECT FIT	01-Oct-22
761787	WO	PARIKSHIT KUMAR MANDAL	ELECT FIT	01-Oct-22
762043	WO	YADUNATH PANDEY	ELECT FIT	01-Oct-22
762050	WO	PRITAM SINGH POONIA	ELECT FIT	01-Oct-22
762309	WO	VINAY KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Oct-22
763130	WO	SUJEET KUMAR	ELECT FIT	01-Oct-22
763197	WO	PRADIP KUMAR SINGH	ELECT FIT	01-Oct-22
687959	WO	KHAIRUL CHAND MOLLAH	ELECT FIT	01-Nov-22
760624	WO	SHIV NATH	ELECT FIT	01-Nov-22
761022	WO	BRIJ NATH PRASAD	ELECT FIT	01-Nov-22
762290	WO	SANJAY	ELECT FIT	01-Nov-22
762336	WO	RAMESH KUMAR PASI	ELECT FIT	01-Nov-22
763231	WO	GOPAL PRASAD	ELECT FIT	01-Nov-22
766219	WO	CHANDRASHEKHAR D KOLI	ENG FIT	01-Sep-21
766975	WO	VIVEKA MANI TRIPATHI	ENG FIT	01-Nov-21

767715	WO	RAJNISH KUMAR GUPTA	ENG FIT	01-Dec-21
767747	WO	MITHILESH KUMAR TIWARI	ENG FIT	01-Dec-21
767762	WO	SIKANDRA THAKUR	ENG FIT	01-Jan-22
767978	WO	K R CHANDRASEKHAR REDDY	ENG FIT	01-Jan-22
767996	WO	BALRAM PANDIT	ENG FIT	01-Jan-22
768008	WO	MANOJ KUMAR	ENG FIT	01-Jan-22
768019	WO	SANDEEP KUMAR	ENG FIT	01-Jan-22
768325	WO	PRADEEP KUMAR VYAS	ENG FIT	01-Jan-22
768348	WO	PRABHAT KUMAR GUPTA	ENG FIT	01-Jan-22
768351	WO	SHIV PAL SINGH	ENG FIT	01-Jan-22
768353	WO	SHAIK SUBANI	ENG FIT	01-Jan-22
768635	WO	ASHUTOSH KUMAR	ENG FIT	01-Jan-22
768769	WO	SUSHIL KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Jan-22
768798	WO	GAVANDE SUNIL KESHAV	ENG FIT	01-Jan-22
768836	WO	MITHILESH KUMAR	ENG FIT	01-Jan-22
768849	WO	BRAJENDRA KUMAR	ENG FIT	01-Jan-22
766231	WO	KRUSHNA CHANDRA BARIK	ENG FIT	01-Feb-22
768244	WO	NARENDRA KUMAR JHA	ENG FIT	01-Feb-22
768295	WO	UMESH PRASAD	ENG FIT	01-Feb-22
769500	WO	ASOK MUKHOPADHYAY	ENG FIT	01-Feb-22
769558	WO	SANJEEV KUMAR CHUTTANI	ENG FIT	01-Feb-22
769568	WO	RAM BHAROSA TIWARI	ENG FIT	01-Feb-22
769615	WO	SANJAY KUMAR JAISWAL	ENG FIT	01-Feb-22
769638	WO	SHREE RAM	ENG FIT	01-Feb-22
769829	WO	YOGENDRA KUMAR	ENG FIT	01-Feb-22
769835	WO	C KARTHIKEYAN	ENG FIT	01-Feb-22
775173	WO	SAURAV KUMAR	ENG FIT	01-Feb-22
775183	WO	RAKESH KUMAR	ENG FIT	01-Feb-22
775143	WO	NAMBI RAJ K	ENG FIT	01-Mar-22
775153	WO	ASHOK KUMAR DAS	ENG FIT	01-Mar-22
775155	WO	DEEPAK KUMAR SHUKLA	ENG FIT	01-Mar-22
775178	WO	DEEPAK KUMAR	ENG FIT	01-Mar-22
775210	WO	MANOJ KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Mar-22
775245	WO	TAGARAM SUTHAR	ENG FIT	01-Mar-22
766333	WO	PRAMOD KUMAR	ENG FIT	01-Apr-22
769684	WO	BIPIN BIHARI SINGH	ENG FIT	01-Apr-22
769864	WO	BHUPET KATA	ENG FIT	01-Apr-22
769880	WO	SANJAY KUMAR MALLIK	ENG FIT	01-Apr-22
769913	WO	PARTH SARTHI JHA	ENG FIT	01-Apr-22
775163	WO	DIVAKAR KUMAR	ENG FIT	01-Apr-22
769519	WO	DINESH KUMAR SINGH	ENG FIT	01-May-22
767047	WO	BHUTELI PRASAD	ENG FIT	01-Jun-22
775199	WO	ARUN KUMAR	ENG FIT	01-Jun-22
768955	WO	JIYA UDDIN	ENG FIT	01-Jul-22

768974	WO	KAMLESH KUMAR	ENG FIT	01-Jul-22
768985	WO	MUKESH KUMAR SHARMA	ENG FIT	01-Jul-22
768987	WO	PRADIP KUMAR	ENG FIT	01-Jul-22
769009	WO	GORAKH NATH PANDIT	ENG FIT	01-Jul-22
769025	WO	CHHOTE LAL	ENG FIT	01-Jul-22
769292	WO	RAVIN RANJAN	ENG FIT	01-Jul-22
766598	WO	PRAMOD KUMAR TIWARI	ENG FIT	01-Aug-22
768968	WO	KAMLA KANT MISHRA	ENG FIT	01-Aug-22
768997	WO	MANI BHUSHAN MANTU	ENG FIT	01-Aug-22
769287	WO	SANJEET KUMAR SAH	ENG FIT	01-Aug-22
769534	WO	VIRENDRA PRATAP SINGH	ENG FIT	01-Aug-22
769577	WO	GAJENDRA KUMAR VERMA	ENG FIT	01-Aug-22
775511	WO	AJEET KUMAR	ENG FIT	01-Aug-22
775551	WO	MANOJ KUMAR THAKUR	ENG FIT	01-Aug-22
775573	WO	SANJAY KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Aug-22
775651	WO	HARI CHANDRA PRASAD K	ENG FIT	01-Aug-22
775807	WO	PRASANNA KUMAR JENA	ENG FIT	01-Aug-22
775871	WO	PRAVESH KUMAR	ENG FIT	01-Aug-22
775947	WO	ASHOK KUMAR	ENG FIT	01-Aug-22
775526	WO	PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA	ENG FIT	01-Sep-22
775553	WO	VIJAY PRATAP	ENG FIT	01-Sep-22
769257	WO	OMPRAKASH VISNOI	ENG FIT	01-Nov-22
775635	WO	RAKESH KUMAR GAURAW	ENG FIT	01-Nov-22
775637	WO	RAM ANUJ KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Nov-22
775794	WO	RANJEET KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Nov-22
775803	WO	SATYENDRA KUMAR SINGH	ENG FIT	01-Nov-22
775842	WO	DEOCHAND KUMAR BHARTI	ENG FIT	01-Nov-22
775831	WO	RAJENDER PAL SINGH	ENG FIT	01-Dec-22
775885	WO	JANARDAN YADAV	ENG FIT	01-Dec-22
775934	WO	AKHILESH KUMAR	ENG FIT	01-Dec-22
775937	WO	RAKESH RAUSHAN	ENG FIT	01-Dec-22
776245	WO	JEETENDRA SINGH YADAV	ENG FIT	01-Dec-22
728803	WO	PRAKASH CHANDRA LENKA	EQPT ASST	01-Jan-22
736270	WO	MAHAVEER SINGH	EQPT ASST	01-Jan-22
738173	WO	MANOJ KUMAR GUPTA	EQPT ASST	01-Jan-22
739721	WO	SANTHOSH A K	EQPT ASST	01-Jan-22
725897	WO	JAHAN SINGH	EQPT ASST	01-Feb-22
726838	WO	BIKASH CHANDRA MONDAL	EQPT ASST	01-Feb-22
735156	WO	DIDARI KUMAR	EQPT ASST	01-Feb-22
735690	WO	JAI DEV SINGH	EQPT ASST	01-Feb-22
736969	WO	BHEEMLAL SHARMA	EQPT ASST	01-Feb-22
736984	WO	SANTOSH PRASAD	EQPT ASST	01-Feb-22
737629	WO	GAJENDRA SINGH	EQPT ASST	01-Feb-22
739731	WO	RABINDRA NATH SENA	EQPT ASST	01-Feb-22

770269	WO	BALJEET SINGH	EQPT ASST	01-Feb-22
736974	WO	JASWANT SINGH YADAV	EQPT ASST	01-Mar-22
770060	WO	RAJENDER SINGH	EQPT ASST	01-Mar-22
772146	WO	AJAY KUMAR	EQPT ASST	01-Mar-22
772472	WO	KUMUD RANJAN	EQPT ASST	01-Mar-22
726105	WO	RAGHUBEER CHAND	EQPT ASST	01-Jun-22
728802	WO	AKSHAYA KUMAR SATAPATHY	EQPT ASST	01-Jun-22
692260	WO	BHARDWAJ PK	EQPT ASST	01-Jul-22
692537	WO	TAPAN KUMAR DATTA	EQPT ASST	01-Jul-22
692617	WO	SHIV BABU YADAV	EQPT ASST	01-Jul-22
692629	WO	SATYA PRAKASH SHUKLA	EQPT ASST	01-Jul-22
692640	WO	SIDHESHWAR UPADHYAY	EQPT ASST	01-Jul-22
692641	WO	RAKESH KUMAR	EQPT ASST	01-Jul-22
692918	WO	SHYAM SUNDER PRASAD YADAV	EQPT ASST	01-Jul-22
693273	WO	JAGJIT SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
693328	WO	BHAGAT SINGH VERMA	EQPT ASST	01-Jul-22
693398	WO	SADHU RAM	EQPT ASST	01-Jul-22
693549	WO	RAM KUMAR SAH	EQPT ASST	01-Jul-22
693550	WO	SWAPAN KUMAR BHADRA	EQPT ASST	01-Jul-22
693626	WO	SAROJ KUMAR KAMAL	EQPT ASST	01-Jul-22
693940	WO	GOPAL KRISHAN	EQPT ASST	01-Jul-22
693999	WO	RANDHIR SINGH YADAV	EQPT ASST	01-Jul-22
694006	WO	SHEO PRAKASH PANDEY	EQPT ASST	01-Jul-22
694045	WO	BRAJESH KUMAR	EQPT ASST	01-Jul-22
694078	WO	NARENDRA PAL SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
694200	WO	UMASHANKAR CHAKRABARTY	EQPT ASST	01-Jul-22
694220	WO	RAMESH KUMAR RAY	EQPT ASST	01-Jul-22
694286	WO	BABY T V	EQPT ASST	01-Jul-22
694433	WO	SATYABIR SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
694474	WO	MADAN SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
694817	WO	BRAJ BHUSHAN THAKUR	EQPT ASST	01-Jul-22
694969	WO	SRI MAHESWAR KOCH	EQPT ASST	01-Jul-22
695702	WO	SURENDRA NATH DWIWEDI	EQPT ASST	01-Jul-22
696756	WO	JASWANT SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
698417	WO	SUNIT KUMAR SINHA	EQPT ASST	01-Jul-22
700255	WO	BIDHAN BISWAS	EQPT ASST	01-Jul-22
700339	WO	JAI SHANKAR PANDEY	EQPT ASST	01-Jul-22
700557	WO	SURENDER SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
700597	WO	KUNTA NARSIMHA REDDY	EQPT ASST	01-Jul-22
700700	WO	NANDAN KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
700709	WO	BISHNU DEO MANDAL	EQPT ASST	01-Jul-22
700769	WO	ABDUL ALIM MONDAL	EQPT ASST	01-Jul-22
701065	WO	ASHOK KUMAR SAROHA	EQPT ASST	01-Jul-22
701073	WO	MAHESH CHAND	EQPT ASST	01-Jul-22

701083	WO	KRISHAN KUMAR VERMA	EQPT ASST	01-Jul-22
701143	WO	SANJEEV KUMAR	EQPT ASST	01-Jul-22
701147	WO	RAJPAL PUNIA	EQPT ASST	01-Jul-22
701148	WO	HARKESH SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
701287	WO	BISWA NATH BHAKAT	EQPT ASST	01-Jul-22
701515	WO	ADITYA KUMAR PATHRIYA	EQPT ASST	01-Jul-22
701711	WO	HARISH CHANDER	EQPT ASST	01-Jul-22
701921	WO	RAVINANDAN SHAHI	EQPT ASST	01-Jul-22
702306	WO	RISHI PAL SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
702544	WO	JAGDIP SINGH BENIWAL	EQPT ASST	01-Jul-22
702746	WO	NARAYAN GOUDA	EQPT ASST	01-Jul-22
702915	WO	SATISH KUMAR GAUR	EQPT ASST	01-Jul-22
703364	WO	PERSHURAM RAI	EQPT ASST	01-Jul-22
703471	WO	ARUN KUMAR TRIPATHI	EQPT ASST	01-Jul-22
703777	WO	ANIL KUMAR	EQPT ASST	01-Jul-22
704277	WO	SOM DUTT BANSAL	EQPT ASST	01-Jul-22
704886	WO	JAI PRAKASH PRASAD	EQPT ASST	01-Jul-22
725123	WO	DEO KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
725133	WO	SATBIR SINGH	EQPT ASST	01-Jul-22
725568	WO	RAJBIR	EQPT ASST	01-Jul-22
725665	WO	SHABBIR HASSAN	EQPT ASST	01-Jul-22
726047	WO	RAMESH YADAV	EQPT ASST	01-Jul-22
726713	WO	ANAND KUMAR CHANDWAL	EQPT ASST	01-Jul-22
726806	WO	UMESHWAR GIRI	EQPT ASST	01-Jul-22
727700	WO	RAJESHWAR SINGH RANA	EQPT ASST	01-Jul-22
728464	WO	SATISH KUMAR CHAUHAN	EQPT ASST	01-Jul-22
735063	WO	RAJENDER SINGH NAYAL	EQPT ASST	01-Jul-22
693997	WO	YOGESH KUMAR MISHRA	EQPT ASST	01-Aug-22
700263	WO	SHEIK IDRISH	EQPT ASST	01-Aug-22
700947	WO	BHOLA PRASAD UPADHYAY	EQPT ASST	01-Aug-22
701470	WO	HARIKUMAR T C	EQPT ASST	01-Aug-22
703161	WO	ANIL KUMAR GUPTA	EQPT ASST	01-Aug-22
703768	WO	BIKASH CHANDRA MISHRA	EQPT ASST	01-Aug-22
703819	WO	PRAHALAD SINGH	EQPT ASST	01-Aug-22
704818	WO	JARNAIL SINGH	EQPT ASST	01-Aug-22
727156	WO	R BALU	EQPT ASST	01-Aug-22
727673	WO	DEEP SINGH SHEKHAWAT	EQPT ASST	01-Aug-22
703057	WO	SUDARSHAN SHARMA	EQPT ASST	05-Aug-22
703247	WO	BINOD KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-Oct-22
704236	WO	MAHIPAL SINGH	EQPT ASST	01-Oct-22
704382	WO	DEVENDRA DHANKAR	EQPT ASST	01-Oct-22
727712	WO	SAJIV KUMAR	EQPT ASST	01-Oct-22
729334	WO	N UNNIPILLAI	EQPT ASST	01-Oct-22
735123	WO	KRISHAN	EQPT ASST	01-Oct-22

725065	WO	VIJAY PRASAD NAUNI	EQPT ASST	01-Nov-22
725941	WO	VINOD KUMAR	EQPT ASST	01-Nov-22
726136	WO	RAJ NARENDER SINGH	EQPT ASST	01-Nov-22
726194	WO	ARUN KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-Nov-22
726707	WO	DURVESH KUMAR OJHA	EQPT ASST	01-Nov-22
735154	WO	KULVIR SINGH	EQPT ASST	01-Nov-22
737020	WO	RAI SUBHASH	EQPT ASST	01-Nov-22
770965	WO	VIKAS KOUL	EQPT ASST	01-Nov-22
704059	WO	ARUN KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-Dec-22
704665	WO	PARIMAL KUMAR BISWAS	EQPT ASST	01-Dec-22
704877	WO	SHORAJ SINGH KHOKHAR	EQPT ASST	01-Dec-22
725018	WO	SHYAM SUNDER	EQPT ASST	01-Dec-22
725309	WO	VIRENDER SINGH	EQPT ASST	01-Dec-22
725935	WO	MUNI KUMAR	EQPT ASST	01-Dec-22
728532	WO	RAJESH KUMAR NARVAN	EQPT ASST	01-Dec-22
728778	WO	SUSANTA GUIN	EQPT ASST	01-Dec-22
736449	WO	KALIM AHMED	EQPT ASST	01-Dec-22
738940	WO	ASHOK KUMAR RAGHAV	EQPT ASST	01-Dec-22
739720	WO	HEMANT KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-Dec-22
693888	WO	SATENDRA PAL SINGH	GTI	01-Jul-22
693890	WO	SANJAY KUMAR CHADHA	GTI	01-Jul-22
694024	WO	SHYAM MOHAN SHARMA	GTI	01-Jul-22
694026	WO	RAJ NARAYAN SINGH	GTI	01-Jul-22
704833	WO	SHAM KUMAR SINGH	GTI	01-Jul-22
693715	WO	ASHIM KUMAR DEY	GTI	01-Aug-22
736525	WO	UPINDER SINGH KHARULIAH	GTI	01-Aug-22
737900	WO	SANJAY KUMAR SINGH	GTI	01-Aug-22
739208	WO	SUGRIVA SINGH	GTI	01-Aug-22
770043	WO	RAVINDRA THAPLIYAL	GTI(S)	01-Jul-21
702881	WO	DHARAPAL	IAF (P)	01-Apr-22
706677	WO	RAJESH MISHRA	IAF (P)	01-Apr-22
735695	WO	SATPAL BISHNOI	IAF (P)	01-Apr-22
737869	WO	S K MOSARAFUDDIN	IAF (P)	01-Jun-22
738718	WO	SAJITH KUMAR S	IAF (P)	01-Jun-22
628970	WO	CHANDRA PRAKASH SINGH	IAF (P)	01-Jul-22
629106	WO	SANJIV KUMAR	IAF (P)	01-Jul-22
629298	WO	KAUSHAL KISHORE TIWARY	IAF (P)	01-Jul-22
629304	WO	ATUL KUMAR SHARMA	IAF (P)	01-Jul-22
629782	WO	RANJAN KUMAR SRIVASTAVA	IAF (P)	01-Jul-22
629804	WO	KRISHAN KUMAR KHATRI	IAF (P)	01-Jul-22
702882	WO	JAGMOHAN	IAF (P)	01-Jul-22
704237	WO	DHARAM RAJ SINGH SAHRAWAT	IAF (P)	01-Jul-22
704250	WO	ANANDPAL	IAF (P)	01-Jul-22
704259	WO	RAJENDER SINGH	IAF (P)	01-Jul-22

704826	WO	AJAY KUMAR TIWARI	IAF (P)	01-Jul-22
704980	WO	DEVENDER KUMAR YADAV	IAF (P)	01-Jul-22
705014	WO	ASIT KUMAR SIL	IAF (P)	01-Jul-22
705476	WO	DHARMADAS BOSE	IAF (P)	01-Jul-22
705478	WO	NIHAR RANJAN PAL	IAF (P)	01-Jul-22
705514	WO	DHARM SINGH SHEKHAWAT	IAF (P)	01-Jul-22
705515	WO	SATYANARAIN	IAF (P)	01-Jul-22
705517	WO	JASMER SINGH KAMBOJ	IAF (P)	01-Jul-22
705522	WO	SHIVE RAM	IAF (P)	01-Jul-22
705565	WO	SANTOSH BABU P R	IAF (P)	01-Jul-22
705566	WO	RAMESH KUMAR DHAWAN	IAF (P)	01-Jul-22
706392	WO	BABU LAL SARBADHIKARY	IAF (P)	01-Jul-22
726995	WO	CHARAN SINGH BISHT	IAF (P)	01-Jul-22
728732	WO	RANVEER SINGH NARWAL	IAF (P)	01-Jul-22
729025	WO	SHYAM SUNDAR SHARMA	IAF (P)	01-Jul-22
737063	WO	AJAY KUMAR	IAF (P)	01-Jul-22
737087	WO	ASHWANI KUMAR	IAF (P)	01-Jul-22
737423	WO	SANJEEV KUMAR	IAF (P)	01-Jul-22
771317	WO	SAROJ KUMAR BHUYAN	IAF (P)	01-Jul-22
629823	WO	MANABENDRA PATGIRI	IAF (P)	01-Aug-22
737046	WO	PRAMENDRA SINGH	IAF (P)	01-Aug-22
737406	WO	AJAY KUMAR SINGH	IAF (P)	01-Aug-22
727180	WO	PURAN CHANDRA DHYANI	IAF (P)	01-Nov-22
737882	WO	BIPIN KUMAR SHARMA	IAF (P)	01-Nov-22
770571	WO	A K MISRA	IAF (P)	01-Nov-22
770578	WO	BHAGIRATH MAL MEEL	IAF (P)	01-Dec-22
771034	WO	RAJESH KUMAR	IAF (P)	01-Dec-22
771305	WO	SUBBARAYALU SURESH	IAF (P)	01-Dec-22
762651	WO	MANOJ KUMAR SINGH	INST FIT	01-Jan-22
685622	WO	DILIP KUMAR	INST FIT	01-Apr-22
689743	WO	GOPAL PRASAD GUPTA	INST FIT	01-Apr-22
709983	WO	ASHIM KUMAR MANDAL	INST FIT	01-Apr-22
715434	WO	PIYUSH KUMAR SINGH	INST FIT	01-Jun-22
640603	WO	SUNIL KUMAR	INST FIT	01-Jul-22
640618	WO	RAM BABU	INST FIT	01-Jul-22
674892	WO	SHYAM SUNDAR SINGH	INST FIT	01-Jul-22
685497	WO	SHIVENDRA SINGH	INST FIT	01-Jul-22
685714	WO	RAM JANM SINGH YADAW	INST FIT	01-Jul-22
686746	WO	SHASHI BALLABH JUYAL	INST FIT	01-Jul-22
686984	WO	ARUN KUMAR	INST FIT	01-Jul-22
687058	WO	SUNIL KUMAR KASHYAP	INST FIT	01-Jul-22
687477	WO	RAJ KUMAR PRASAD	INST FIT	01-Jul-22
687592	WO	ASIT RANJAN DAS	INST FIT	01-Jul-22
689769	WO	SARBJIT KUMAR SRIVASTAVA	INST FIT	01-Jul-22



690878	WO	ADEL SINGH	INST FIT	01-Jul-22
691139	WO	MANOJ KUMAR SAHOO	INST FIT	01-Jul-22
691198	WO	RAMAUTAR SINGH	INST FIT	01-Jul-22
705344	WO	ARABINDA SARKAR	INST FIT	01-Jul-22
705664	WO	SHYAMA KANT MISHRA	INST FIT	01-Jul-22
705671	WO	ANIL KUMAR	INST FIT	01-Jul-22
706166	WO	RAKESH KUMAR VERMA	INST FIT	01-Jul-22
706831	WO	RAM HARI SHARMA	INST FIT	01-Jul-22
709703	WO	BIBHUPADA RANJAN SANKHUA	INST FIT	01-Jul-22
709726	WO	BIDYUT KUMAR SEN	INST FIT	01-Jul-22
716277	WO	PRADIP DATTA	INST FIT	01-Jul-22
716532	WO	QAISER RAZA	INST FIT	01-Jul-22
716548	WO	RABINDRA SHARMA	INST FIT	01-Jul-22
716974	WO	RAMA SHANKAR YADAV	INST FIT	01-Jul-22
717260	WO	DILBAG SINGH	INST FIT	01-Jul-22
717658	WO	BRAJENDRA KUMAR	INST FIT	01-Jul-22
760319	WO	SAMAR NATH MANDAL	INST FIT	01-Jul-22
682884	WO	SUBHASH CHANDER	INST FIT	01-Aug-22
685854	WO	VIJAY BAHADUR YADAV	INST FIT	01-Aug-22
688693	WO	SUBRATA AICH	INST FIT	01-Aug-22
688775	WO	JINENDRA KUMAR	INST FIT	01-Aug-22
688821	WO	SATENDRA KUMAR SINGH	INST FIT	01-Aug-22
689856	WO	RAKESH RANJAN	INST FIT	01-Aug-22
709514	WO	YASH PAUL SHARMA	INST FIT	01-Aug-22
709515	WO	PEEYUSH CHAND MISHRA	INST FIT	01-Aug-22
715404	WO	RADHEY SHYAM YADAV	INST FIT	01-Aug-22
760278	WO	SUNIL KUMAR MALIK	INST FIT	01-Aug-22
760731	WO	DINESH PRASAD	INST FIT	01-Aug-22
760758	WO	JAYANTA KR SARDAR	INST FIT	01-Aug-22
762188	WO	PIJUSH KUMAR SAHA	INST FIT	01-Aug-22
689866	WO	HARE RAM KUMAR	INST FIT	01-Sep-22
760803	WO	UPENDRA SHARMA	INST FIT	01-Sep-22
687761	WO	ANIL KUMAR SINGH	INST FIT	01-Oct-22
762513	WO	KISHORE KUMAR VERMA	INST FIT	01-Oct-22
688392	WO	SUNIL KUMAR TIWARY	INST FIT	01-Nov-22
717463	WO	VINOD KUMAR MISHRA	INST FIT	01-Nov-22
761614	WO	SUBHASH SINGH CHAUHAN	INST FIT	01-Nov-22
763246	WO	ARUN KUMAR SRIVASTAVA	INST FIT	01-Nov-22
764069	WO	DILIP KUMAR	INST FIT	01-Nov-22
763823	WO	ANURAG PANDEY	INST FIT	01-Dec-22
764269	WO	RAKESH KUMAR SINGH	INST FIT	01-Dec-22
711603	WO	ARIMARDAN SINGH PARIHAR	MED ASST	13-Oct-21
711789	WO	VIJAY KUMAR SINGH	MED ASST	01-Jan-22
711794	WO	MADAN KUMAR SINGH	MED ASST	01-Jan-22

711365	WO	SATYAVEER SINGH HARIZAN	MED ASST	01-Feb-22
711732	WO	TRIDEEP GHOSH	MED ASST	01-Feb-22
711771	WO	RAM PRAVESH KUMAR	MED ASST	01-Feb-22
711784	WO	ABHISHEK KUMAR	MED ASST	01-Mar-22
656773	WO	RASUL YAKHUB PATHAN	MED ASST	01-Jul-22
656788	WO	RAVINDER KUMAR	MED ASST	01-Jul-22
656823	WO	BIJENDER SINGH	MED ASST	01-Jul-22
656842	WO	MOHAMMED ABDUL NASSER	MED ASST	01-Jul-22
656849	WO	RAVENDRA SINGH	MED ASST	01-Jul-22
656891	WO	GHANSHYAM SINGH	MED ASST	01-Jul-22
656893	WO	RAM JI DUBAY	MED ASST	01-Jul-22
656910	WO	SHAMBHU PRASAD	MED ASST	01-Jul-22
656973	WO	JNANENDRA NARAYAN	MED ASST	01-Jul-22
656981	WO	SATISH CHANDRA	MED ASST	01-Jul-22
656999	WO	SHRI NARAIN PANDEY	MED ASST	01-Jul-22
710020	WO	GOVIND SINGH	MED ASST	01-Jul-22
710023	WO	DEVINDER SINGH	MED ASST	01-Jul-22
710031	WO	ARUN KUMAR MANDAL	MED ASST	01-Jul-22
710037	WO	ANUPAM KHANRA	MED ASST	01-Jul-22
710054	WO	UMESH PANDEY	MED ASST	01-Jul-22
710057	WO	NARESH KUMAR	MED ASST	01-Jul-22
710061	WO	MITHILESH PRASAD	MED ASST	01-Jul-22
710082	WO	ANAND PAL SINGH	MED ASST	01-Jul-22
710100	WO	PRASANTA CHAKRABORTY	MED ASST	01-Jul-22
710107	WO	RABINDRA KUMAR SAHU	MED ASST	01-Jul-22
710153	WO	MD AYUB ANSARI	MED ASST	01-Jul-22
710184	WO	RAM BABU BUNTOLIA	MED ASST	01-Jul-22
710260	WO	RAJESH KUMAR PRAJAPATI	MED ASST	01-Jul-22
710307	WO	KESHAR DEV CHAHAR	MED ASST	01-Jul-22
710313	WO	TEJBIR SINGH PUNDIR	MED ASST	01-Jul-22
710393	WO	OM KANWAR	MED ASST	01-Jul-22
710766	WO	IQBAL HUSEN	MED ASST	01-Jul-22
711059	WO	KARNAL RANJEET	MED ASST	01-Jul-22
711206	WO	SHIV PRAKASH VERMA	MED ASST	01-Jul-22
711265	WO	MANISH KUMAR SINGH	MED ASST	01-Jul-22
711946	WO	RAJA GURU	MED ASST	01-Jul-22
656882	WO	RAMESH KUMAR SAROHA	MED ASST	01-Aug-22
656925	WO	RAM DHYAN CHOUDHARY	MED ASST	01-Aug-22
710689	WO	SHAIL KUMAR SINGH	MED ASST	01-Aug-22
710959	WO	ASHOK KUMAR	MED ASST	01-Aug-22
711382	WO	SUBHASH CHANDRA	MED ASST	01-Aug-22
711421	WO	DINESH CHAUHAN	MED ASST	01-Aug-22
711873	WO	ARUN PRAKASH	MED ASST	01-Aug-22
711933	WO	AMITABH SINGH BHADORIA	MED ASST	01-Aug-22

710026	WO	RAMNIWARAN SINGH SUHAG	MED ASST	01-Sep-22
710215	WO	DAVENDRA KUMAR	MED ASST	01-Oct-22
710276	WO	PRADIP KUMAR BHOWMICK	MED ASST	01-Oct-22
711468	WO	RAJ KUMAR ROY	MED ASST	01-Oct-22
711626	WO	MANOJ KUMAR	MED ASST	01-Oct-22
656677	WO	NARESH YADAV	MED ASST	01-Nov-22
656970	WO	JYOTISH ADHIKARY	MED ASST	01-Nov-22
710349	WO	RAMESH KUMAR BHARGAVA	MED ASST	01-Nov-22
710805	WO	SANJAY KUMAR KHURANA	MED ASST	01-Nov-22
711152	WO	BRAJESH KUMAR SHUKLA	MED ASST	01-Nov-22
711212	WO	DEVENDER SINGH DAGAR	MED ASST	01-Dec-22
711255	WO	AMAR NATH	MED ASST	01-Dec-22
711271	WO	LAL BAHADUR TIWARI	MED ASST	01-Dec-22
695599	WO	SANJAY KUMAR DAS	MED ASST	01-Jul-21
720957	WO	ASHOK KUMAR PANDIT	MED ASST	01-Feb-22
732421	WO	DULI CHAND VATS	MED ASST	01-Feb-22
732444	WO	BIKRAM SINGH SANDHU	MED ASST	01-Feb-22
720044	WO	KAMALUDEEN Y	MED ASST	01-Apr-22
732501	WO	RAJESH TIWARI	MED ASST	01-May-22
693405	WO	NARINDER KUMAR SHARMA	MED ASST	01-Jul-22
694505	WO	RAKESH SINGH CHAUHAN	MED ASST	01-Jul-22
694831	WO	DEEP NARAYAN SHARMA	MED ASST	01-Jul-22
695864	WO	RAM KUMAR THAKUR	MED ASST	01-Jul-22
695866	WO	RAJ NANDAN PRASAD	MED ASST	01-Jul-22
696625	WO	BIRANCHI NARAYAN SAHOO	MED ASST	01-Jul-22
696683	WO	DINA NATH YADAV	MED ASST	01-Jul-22
696970	WO	MAHESH CHANDRA GUPTA	MED ASST	01-Jul-22
698686	WO	ARVIND MANOHAR SINHA	MED ASST	01-Jul-22
699041	WO	KAILASH CHANDER KUMHAR	MED ASST	01-Jul-22
702220	WO	SUBRATA RAKSHIT	MED ASST	01-Jul-22
705214	WO	SHASHI BHUSHAN TIWARI	MED ASST	01-Jul-22
705849	WO	KRISHAN GOPAL SHARMA	MED ASST	01-Jul-22
720614	WO	MOJIBUR RAHAMAN	MED ASST	01-Jul-22
731245	WO	J K ANANDA ESWAR RAO	MED ASST	01-Jul-22
699882	WO	VIJAY DWIVEDI	MED ASST	01-Aug-22
731371	WO	RAJBIR SINGH	MED ASST	01-Aug-22
731781	WO	NARESH KUMAR SHARMA	MED ASST	01-Oct-22
732137	WO	VIJAY BABU	MED ASST	01-Oct-22
699486	WO	MOHD SHAMIM	MED ASST	01-Nov-22
731135	WO	RAJENDRA KUMAR CHATURVEDI	MED ASST	01-Nov-22
731780	WO	ISHWAR SINGH	MED ASST	01-Nov-22
733745	WO	YESUDAS K R	MED ASST	01-Nov-22
731729	WO	PRADEEP KUMAR ARORA	MED ASST	01-Dec-22
750693	WO	DINESH KUMAR	MS FIT(E)	01-Apr-22

750991	WO	MANOJ KUMAR	MS FIT(E)	01-Apr-22
751226	WO	HARBILAS	MS FIT(E)	01-Apr-22
750407	WO	DULAL KISHOR SHAW	MS FIT(E)	01-Jul-22
750454	WO	SANJIB KUMAR PAL	MS FIT(E)	01-Jul-22
755262	WO	ASIT MONDAL	MS FIT(E)	01-Jul-22
750079	WO	RAMNUJ PRASAD	MS FIT(E)	01-Sep-22
750088	WO	SIDHNATH SINGH	MS FIT(E)	01-Sep-22
750449	WO	MANOJ KUMAR SINGH	MS FIT(E)	01-Sep-22
750416	WO	RAKESH KUMAR SRIVASTAVA	MS FIT(E)	01-Oct-22
750679	WO	SURENDRA YADAVA	MS FIT(E)	01-Oct-22
750687	WO	SANJAY DOBHAL	MS FIT(E)	01-Oct-22
750741	WO	NASIM ALI	MS FIT(E)	01-Oct-22
751007	WO	KRISHNA JEE TRIVEDI	MS FIT(E)	01-Nov-22
751235	WO	KUMAR PANKAJ	MS FIT(E)	01-Nov-22
751029	WO	SANJAY KUMAR	MS FIT(L)	01-Feb-22
751284	WO	MANOJ KUMAR	MS FIT(L)	01-Feb-22
751332	WO	KANWAR PAL SINGH	MS FIT(L)	01-Feb-22
763569	WO	SURENDRA SINGH YADAV	MS FIT(L)	01-Feb-22
763910	WO	ANIL SINGH	MS FIT(L)	01-Feb-22
763577	WO	ARVIND KUMAR CHAUBEY	MS FIT(L)	01-Mar-22
750182	WO	RAVEENDRA D MULAMUTTAL	MS FIT(L)	01-Jul-22
750278	WO	SHALENDRA MOHAN	MS FIT(L)	01-Jul-22
750766	WO	KASHEE MAHTO	MS FIT(L)	01-Jul-22
750821	WO	KAMLESH PRASAD	MS FIT(L)	01-Jul-22
751341	WO	OM PRAKASH KESHRI	MS FIT(L)	01-Jul-22
750191	WO	MANOJ KUMAR DUBEY	MS FIT(L)	01-Aug-22
750218	WO	BIJAY CHANDRA CHOUDHARY	MS FIT(L)	01-Nov-22
751358	WO	MUNDRIKA SHARMA	MS FIT(L)	01-Nov-22
750642	WO	V RAMESH	MS FIT(M)	01-Jan-22
750291	WO	RAKESH CHAUHAN	MS FIT(M)	01-Feb-22
750605	WO	MADHU SUDAN MISRA	MS FIT(M)	01-Feb-22
750645	WO	NARENDRA PAL KAUSHIK	MS FIT(M)	01-Mar-22
750611	WO	KULDEEP SINGH	MS FIT(M)	01-Jun-22
699766	WO	PRAKASH SAH	MS FIT(M)	01-Jul-22
732871	WO	RAJENDRA PRASAD SHAW	MS FIT(M)	01-Jul-22
732872	WO	ASHIS KUMAR PAUL	MS FIT(M)	01-Jul-22
732953	WO	SANJAI KUMAR SINGH	MS FIT(M)	01-Jul-22
733083	WO	LAL BAHADUR THAKUR	MS FIT(M)	01-Jul-22
750842	WO	MANOJ KUMAR SINGH	MS FIT(M)	01-Jul-22
751607	WO	BIJAY KUMAR GOSHWAMI	MS FIT(M)	01-Jul-22
751663	WO	SANJAY KUMAR	MS FIT(M)	01-Jul-22
751619	WO	VIKRANT KUMAR	MS FIT(M)	01-Aug-22
751688	WO	BINOD KUMAR SINGH	MS FIT(M)	01-Sep-22
751626	WO	NARESH KUMAR	MS FIT(M)	01-Oct-22

751437	WO	SURENDRA SAH	MS FIT(M)	01-Dec-22
723550	WO	SANJOY MAJUMDER	MT FIT	01-Jul-21
699054	WO	KUMAR CHANDANAM	MT FIT	01-Jan-22
699082	WO	SHAUKAT ALI	MT FIT	01-Feb-22
678677	WO	VEDPAL DAHIYA	MT FIT	01-Apr-22
698428	WO	ASHOK KUMAR SINGH	MT FIT	01-Apr-22
721967	WO	SATYAVAN SINGH MOR	MT FIT	01-Apr-22
722229	WO	SUNIL KUMAR MISHRA	MT FIT	01-Apr-22
722261	WO	SANTOSH KUMAR ROY	MT FIT	01-Apr-22
730785	WO	SHASHI BHUSHAN KUMAR	MT FIT	01-Apr-22
730971	WO	ABHIRAM RAI	MT FIT	01-Apr-22
731319	WO	MUKESH KUMAR BHATI	MT FIT	01-Apr-22
696781	WO	MITHILESH KUMAR SINGH	MT FIT	01-Jun-22
699016	WO	MANOJ KUMAR SINGH	MT FIT	01-Jun-22
730486	WO	NARENDRA SINGH KUSHWAHA	MT FIT	01-Jun-22
731625	WO	VADADA RAM MOHANA RAO	MT FIT	01-Jun-22
676248	WO	UMA KANT SINGH	MT FIT	01-Jul-22
676343	WO	KALYAN BRATA SARKAR	MT FIT	01-Jul-22
677280	WO	MAHINDER SINGH PARMAR	MT FIT	01-Jul-22
677980	WO	RAVISH KUMAR	MT FIT	01-Jul-22
695053	WO	JABAR SINGH PAL	MT FIT	01-Jul-22
695705	WO	AWADHESH KUMAR CHOUDHARY	MT FIT	01-Jul-22
696849	WO	MURARI PRASAD SINGH	MT FIT	01-Jul-22
697320	WO	AJIT KUMAR BARI	MT FIT	01-Jul-22
697570	WO	TARUN KUMAR ROY	MT FIT	01-Jul-22
697951	WO	JAI SINGH	MT FIT	01-Jul-22
699433	WO	NEWTON	MT FIT	01-Jul-22
699570	WO	GOPI KRISHNA	MT FIT	01-Jul-22
699603	WO	SHAMBHU NATH SAH	MT FIT	01-Jul-22
699605	WO	ISHTEYAQUE AHMAD KHAN	MT FIT	01-Jul-22
730788	WO	DINA NATH RAI	MT FIT	01-Jul-22
731441	WO	RAM SUKH	MT FIT	01-Jul-22
699056	WO	RAJENDRA PRASAD	MT FIT	01-Aug-22
721954	WO	PRADIP PANGAS	MT FIT	01-Aug-22
722615	WO	GOPAL GIRI	MT FIT	01-Aug-22
722688	WO	SHANTANU SINGH	MT FIT	01-Aug-22
732319	WO	SUSHIL SINGH	MT FIT	01-Aug-22
698257	WO	CHHABI NATH SINGH	MT FIT	01-Sep-22
698421	WO	SAILEN KUMAR PAUL	MT FIT	01-Sep-22
698539	WO	MRINMOY HALDER	MT FIT	01-Sep-22
699677	WO	RAGHUVVEER SINGH	MT FIT	01-Sep-22
722922	WO	BIJENDER SINGH CHAHAR	MT FIT	01-Sep-22
699322	WO	PRAKASH CHANDRA SINGH	MT FIT	01-Oct-22
730204	WO	AVANINDRA KUMAR	MT FIT	01-Oct-22

730913	WO	JIWACHH PANDIT	MT FIT	01-Oct-22
732584	WO	GAJENDRA KUMAR	MT FIT	01-Oct-22
678573	WO	KRISHAN KUMAR VERMA	MT FIT	11-Oct-22
722618	WO	BHABATOSH SARKAR	MT FIT	01-Nov-22
733090	WO	BUDHA RAM	MT FIT	01-Nov-22
722188	WO	AMIT GAUTAM	MT FIT	01-Dec-22
731504	WO	RAJESH KUMAR MISHRA	MT FIT	01-Dec-22
723699	WO	RAJ KUMAR SINGH	MTD	01-Jan-22
723704	WO	JALVINDER SINGH SAINI	MTD	01-Jan-22
723956	WO	ABHILASH C	MTD	01-Jan-22
629771	WO	ASHOK KUMAR SINGH	MTD	01-Apr-22
720153	WO	AMAL KUMAR SINHA	MTD	01-Apr-22
721778	WO	SHASHI BHUSHAN	MTD	01-Apr-22
722338	WO	GOPAL KRISHNA ACHARJYA	MTD	01-Jun-22
722709	WO	VIJAY PAL SINGH	MTD	01-Jun-22
627843	WO	UJJWAL NATH	MTD	01-Jul-22
628107	WO	UMESH PRASAD YADAV	MTD	01-Jul-22
628224	WO	SATYENDRA KUMAR	MTD	01-Jul-22
628476	WO	JAGDISH	MTD	01-Jul-22
628599	WO	OM PRAKASH SINHA	MTD	01-Jul-22
628631	WO	HRUDANANDA MOHANTA	MTD	01-Jul-22
628774	WO	SATVINDER SINGH DHATHE	MTD	01-Jul-22
628810	WO	ANAND PRAKASH SINGH KUSHWAHA	MTD	01-Jul-22
628818	WO	HARISH CHANDRA SHUKLA	MTD	01-Jul-22
628931	WO	SUKHVIR SINGH	MTD	01-Jul-22
628940	WO	RAJAN JOSHI	MTD	01-Jul-22
629325	WO	MUKHTAYAR SINGH SHERAWAT	MTD	01-Jul-22
629341	WO	BARUN SARKAR	MTD	01-Jul-22
629374	WO	JAGDISH LAL KHURANA	MTD	01-Jul-22
629436	WO	SARVESH KUMAR MISHRA	MTD	01-Jul-22
629520	WO	VIJENDER SINGH JAKHAR	MTD	01-Jul-22
629573	WO	RAJENDRA SINGH	MTD	01-Jul-22
629591	WO	UMESH SINGH	MTD	01-Jul-22
629680	WO	DAVENDER SINGH	MTD	01-Jul-22
629770	WO	GYAN PRAKASH	MTD	01-Jul-22
629810	WO	DHARM RAJ REBARI	MTD	01-Jul-22
629838	WO	SATYBIR SINGH YADAV	MTD	01-Jul-22
705032	WO	NIRANJAN KUMAR BISWAS	MTD	01-Jul-22
705098	WO	KUNJUKUNJU JAMES	MTD	01-Jul-22
705136	WO	SATYENDRA PRASAD	MTD	01-Jul-22
705167	WO	MANPHOOL SINGH	MTD	01-Jul-22
705175	WO	LOKESH CHAND SHARMA	MTD	01-Jul-22
705196	WO	NARENDRA KUMAR TIWARY	MTD	01-Jul-22
705246	WO	RAM BHAROSE YADAV	MTD	01-Jul-22

705544	WO	BALWAN SINGH	MTD	01-Jul-22
705574	WO	RAJESH KUMAR NEHRA	MTD	01-Jul-22
705575	WO	OMPARKASH YADAV	MTD	01-Jul-22
705582	WO	SANTOSH KUMAR	MTD	01-Jul-22
705585	WO	NARANDER PAL SINGH	MTD	01-Jul-22
705592	WO	MADAN PAL SINGH	MTD	01-Jul-22
705629	WO	SURENDER KUMAR	MTD	01-Jul-22
705639	WO	SANTOSH SINGH	MTD	01-Jul-22
705846	WO	RANBIR SINGH	MTD	01-Jul-22
705853	WO	KUSHAL PAL	MTD	01-Jul-22
705891	WO	HARISCHANDRA PANDA	MTD	01-Jul-22
705900	WO	BALJIT LAMBA	MTD	01-Jul-22
705905	WO	SUNIL KUMAR GUPTA	MTD	01-Jul-22
705932	WO	JOHNSON BABY	MTD	01-Jul-22
705982	WO	PREM SHANKER TRIPATHI	MTD	01-Jul-22
706205	WO	GADHAVI HARISH KUMAR I	MTD	01-Jul-22
706230	WO	RAMA CHANDRA PANDA	MTD	01-Jul-22
706242	WO	RAJ SINGH YADAV	MTD	01-Jul-22
706281	WO	AJAYA PAL SINGH	MTD	01-Jul-22
706356	WO	HARISH KUMAR KNOWJIA	MTD	01-Jul-22
706380	WO	VINOD KUMAR SINGH	MTD	01-Jul-22
706590	WO	VED PARKASH YADAV	MTD	01-Jul-22
720104	WO	PANKAJ MISHRA	MTD	01-Jul-22
720246	WO	NARENDER KUMAR	MTD	01-Jul-22
720296	WO	JITENDRA KUMAR RATHI	MTD	01-Jul-22
720418	WO	VISHV KARMA MEHRANIA	MTD	01-Jul-22
720529	WO	JAGMOHAN SINGH JANGRA	MTD	01-Jul-22
720561	WO	SHAMSHER SINGH	MTD	01-Jul-22
720571	WO	HOSHIYAR SINGH	MTD	01-Jul-22
720681	WO	OM PRAKASH	MTD	01-Jul-22
720706	WO	NILAMADHAB RAY	MTD	01-Jul-22
720763	WO	DEEPAK PATHAK	MTD	01-Jul-22
720778	WO	RAJ KUMAR	MTD	01-Jul-22
721049	WO	ARUN KUMAR SINGH	MTD	01-Jul-22
721069	WO	SURESH KUMAR	MTD	01-Jul-22
721182	WO	ASHOK KUMAR SHARMA	MTD	01-Jul-22
721428	WO	MANOJ KUMAR SINGH	MTD	01-Jul-22
721444	WO	U R PRASAD	MTD	01-Jul-22
721506	WO	RABINDRA PRASAD SINGH	MTD	01-Jul-22
721563	WO	SATENDRA PAL	MTD	01-Jul-22
721826	WO	RAM AVTAR SAINI	MTD	01-Jul-22
722023	WO	ANIL KUMAR	MTD	01-Jul-22
722151	WO	BINNY V K	MTD	01-Jul-22
722293	WO	ASHOK KUMAR DHANKAR	MTD	01-Jul-22

722360	WO	MITHLESH KUMAR	MTD	01-Jul-22
722482	WO	SUSHIL KUMAR PATHAK	MTD	01-Jul-22
722717	WO	V SUNIL KUMAR NAIR	MTD	01-Jul-22
722844	WO	DEVENDER SINGH	MTD	01-Jul-22
723331	WO	SWINDER SINGH GILL	MTD	01-Jul-22
723428	WO	RANVEER KUMAR	MTD	01-Jul-22
723736	WO	HAWA SINGH	MTD	01-Jul-22
723854	WO	MUKESH KUMAR	MTD	01-Jul-22
629111	WO	RAM KRISHAN SINGH	MTD	01-Aug-22
629264	WO	ASIM KUMAR MANNA	MTD	01-Aug-22
629439	WO	BISHAN SINGH	MTD	01-Aug-22
705241	WO	ANIL KUMAR	MTD	01-Aug-22
705878	WO	DEVENDRA KUMAR	MTD	01-Aug-22
720159	WO	BHOOP SINGH CHAUHAN	MTD	01-Aug-22
720197	WO	SHYAM KUMAR SHUKLA	MTD	01-Aug-22
721300	WO	SATYAWAN BERWAL	MTD	01-Aug-22
721394	WO	OM PARKASH DAHMAN	MTD	01-Aug-22
721572	WO	VINOD KUMAR	MTD	01-Aug-22
721837	WO	JAGBIR SINGH	MTD	01-Aug-22
722166	WO	AMIYA KUMAR PANDA	MTD	01-Aug-22
722421	WO	HAMENDRA PAL SINGH	MTD	01-Aug-22
723600	WO	ALI AMEERUDDIN SIDDIQUI	MTD	01-Aug-22
723681	WO	PRITAM SINGH	MTD	01-Aug-22
629516	WO	DEVRAJ P S JOON	MTD	01-Oct-22
706342	WO	MAHENDRA MISHRA	MTD	01-Oct-22
720037	WO	SATYAPAL SINGH	MTD	01-Oct-22
720111	WO	KRISHNA KUMAR SINGH	MTD	01-Nov-22
720520	WO	SHAJI V C VAKATHARAYIL	MTD	01-Nov-22
721189	WO	RAVINDRA NATH PANDEY	MTD	01-Nov-22
723143	WO	SUBHASH SINGH TANWAR	MTD	01-Nov-22
723161	WO	GULSHAN YADAV	MTD	01-Nov-22
723185	WO	SANJEEV TIWARI	MTD	01-Nov-22
723266	WO	TAHAL SINGH	MTD	01-Nov-22
723275	WO	DINESH KUMAR SINGH	MTD	01-Nov-22
723601	WO	RAJIV PRASAD	MTD	01-Nov-22
723659	WO	VIJAY SINGH	MTD	01-Nov-22
723709	WO	ALOK KUMAR GHOSH	MTD	01-Nov-22
723723	WO	KARNAIL SINGH	MTD	01-Nov-22
723728	WO	JATENDER KUMAR CHAUHAN	MTD	01-Nov-22
723762	WO	K SURESH	MTD	01-Nov-22
723791	WO	NIRANKAR NATH PANDEY	MTD	01-Nov-22
723803	WO	BASHANT KUMAR	MTD	01-Nov-22
723913	WO	KONERU DURGA PRASAD	MTD	01-Nov-22
723250	WO	AJIT SINGH	MTD	01-Dec-22



723388	WO	HANSRAJ	MTD	01-Dec-22
749616	WO	MANISH KUMAR SHUKLA	MUSN	01-Aug-22
749010	WO	S JUSTUS JOHN	MUSN	01-Sep-22
760336	WO	BIJENDER SINGH MALIK	PHOTO FIT	01-Jan-22
760376	WO	SATYAPAL SINGH SOORA	PHOTO FIT	01-Jun-22
760825	WO	PRAMOD KUMAR YADAV	PHOTO FIT	01-Jun-22
761569	WO	KUMAR BHATTACHARYA	PHOTO FIT	01-Jun-22
762478	WO	IMTIYAZ ALAM	PHOTO FIT	01-Jun-22
762479	WO	SUBHASH KUMAR MEHTA	PHOTO FIT	01-Jul-22
782191	WO	AMAR SINGH	PJI	01-Nov-22
763344	WO	VINIT KUMAR DAS	PMF(ELEC)	01-Aug-22
734874	WO	SANJAY KUMAR	PMF(MECH)	01-Jul-22
785489	WO	VINAY SISODIA	PMF(MECH)	01-Oct-22
640644	WO	ANANTA KUMAR NAYAK	RAD FIT	01-Apr-22
686582	WO	DUSHYANT KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
716179	WO	KUMAR KAUSHAL KISHORE	RAD FIT	01-Apr-22
741686	WO	TARKESHWAR KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
741692	WO	MASADI PURUSHOTHAM RAO	RAD FIT	01-Apr-22
741693	WO	RAKESH KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
741704	WO	ARUP CHATTERJEE	RAD FIT	01-Apr-22
741710	WO	SHEKHAR KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
741725	WO	NRUSINGHA NATH MISHRA	RAD FIT	01-Apr-22
741729	WO	AMIT KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
741735	WO	ARTABANDHU BEHERA	RAD FIT	01-Apr-22
741736	WO	SANJEEV KUMAR	RAD FIT	01-Apr-22
741737	WO	DINESH KUMAR SINGH	RAD FIT	01-May-22
741745	WO	BIRANCHI NARAYAN KAR	RAD FIT	01-May-22
741748	WO	PRASANTA KUMAR BISWAL	RAD FIT	01-May-22
741755	WO	BIPIN KUMAR GIRI	RAD FIT	01-May-22
741758	WO	ARUN KUMAR NIRALA	RAD FIT	01-May-22
741721	WO	BINOD BIHARI SAMAL	RAD FIT	01-Jun-22
741759	WO	SHASHI KANT SHARMA	RAD FIT	01-Jun-22
741761	WO	MUNNA CHOUDHARY	RAD FIT	01-Jun-22
741764	WO	MITHILESH KUMAR SINGH	RAD FIT	01-Jun-22
741876	WO	T SUDHAKAR	RAD FIT	01-Aug-22
741887	WO	AJEET SINGH	RAD FIT	01-Aug-22
741889	WO	DEVENDRA SINGH RAWAT	RAD FIT	01-Aug-22
741896	WO	JYOTI PRAKASH DAS	RAD FIT	01-Aug-22
741899	WO	PRATAP KUMAR PATASANI	RAD FIT	01-Aug-22
741931	WO	AJIT SINGH	RAD FIT	01-Aug-22
741936	WO	SUBRAMANYAM POTHALA	RAD FIT	01-Aug-22
741955	WO	SHERAZUL HAQUE ANSARI	RAD FIT	01-Aug-22
741966	WO	SUSHIL KUMAR MISHRA	RAD FIT	01-Aug-22
741974	WO	NIXON KURISUVEETIL VARGHESE	RAD FIT	01-Aug-22

742025	WO	SALEEM AHAMAD	RAD FIT	01-Aug-22
742043	WO	LAKSHMAN PRASAD	RAD FIT	01-Aug-22
742059	WO	DHIRAJ KUMAR SINGH	RAD FIT	01-Aug-22
742072	WO	SHASHI BHUSHAN KUMAR	RAD FIT	01-Aug-22
742102	WO	SOUMEN GARAI	RAD FIT	01-Aug-22
742116	WO	MANOJ MAURYA	RAD FIT	01-Aug-22
742130	WO	FAIZ AHMAD	RAD FIT	01-Aug-22
742144	WO	ASHWANI KUMAR	RAD FIT	01-Aug-22
742218	WO	KOTESWAR RAO KOLLI	RAD FIT	01-Aug-22
742226	WO	THALLAM NAGA VENKATA SIVA RAMA RAO	RAD FIT	01-Sep-22
742261	WO	NAGESWARA RAO MINDALA	RAD FIT	01-Sep-22
742263	WO	PROSENJIT DAS	RAD FIT	01-Oct-22
742272	WO	PREM KUMAR	RAD FIT	01-Oct-22
742314	WO	LAL AJAY KUMAR SINGH	RAD FIT	01-Oct-22
742320	WO	RANJIT KUMAR	RAD FIT	01-Oct-22
741866	WO	SANJAYA KUMAR SATHUA	RAD FIT	01-Nov-22
741880	WO	KUNDAN PAL	RAD FIT	01-Nov-22
741885	WO	KUL BHUSAN JHA	RAD FIT	01-Nov-22
742069	WO	SANTOSH KUMAR BARANWAL	RAD FIT	01-Nov-22
742315	WO	SANTOSH KUMAR	RAD FIT	01-Nov-22
742344	WO	KAULESHWAR PRASAD	RAD FIT	01-Nov-22
742364	WO	GOPAL KUMAR	RAD FIT	01-Nov-22
742359	WO	KESHAV CHANDRA DIMRI	RAD FIT	10-Nov-22
741904	WO	SANJAY SUBHASH	RAD FIT	01-Dec-22
741911	WO	PATEE RAM	RAD FIT	01-Dec-22
741937	WO	UDAY KUMAR SINHA	RAD FIT	01-Dec-22
741957	WO	SUSHANT KUMAR BISWAL	RAD FIT	01-Dec-22
747650	WO	MANOJ KUMAR	RDO FIT	01-Aug-21
748564	WO	CHENNURU MOHANA KRISHNAYYA	RDO FIT	01-Dec-21
748581	WO	SHAILENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
748584	WO	GHANSHYAM MISHRA	RDO FIT	01-Jan-22
748653	WO	JAY PRAKASH SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
748659	WO	DEBABRATA MANDAL	RDO FIT	01-Jan-22
748870	WO	BHAGWAT PRASAD	RDO FIT	01-Jan-22
748877	WO	RAM NARAYAN SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
748893	WO	MOHMED KHAJA RAHAMTULLA	RDO FIT	01-Jan-22
749030	WO	RAJESH KUMAR SHARMA	RDO FIT	01-Jan-22
749118	WO	PIJUSH BHATTACHARJEE	RDO FIT	01-Jan-22
749127	WO	GAUTAM KUMAR	RDO FIT	01-Jan-22
749141	WO	NEERAJ KUMAR	RDO FIT	01-Jan-22
749164	WO	ARJUN KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
749214	WO	MANJUNATHA RAI H M	RDO FIT	01-Jan-22
749236	WO	SURESH BABU	RDO FIT	01-Jan-22
749393	WO	ARVIND KUMAR YADAV	RDO FIT	01-Jan-22

749452	WO	SANJAY KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-Jan-22
749474	WO	RAJEEB KUMAR PUHAN	RDO FIT	01-Jan-22
749484	WO	BRIJESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
749648	WO	CHANDRA BHUSHAN SINGH	RDO FIT	01-Jan-22
749651	WO	SATYANDRA SHARMA	RDO FIT	01-Jan-22
749672	WO	CHANDRA BHUSHAN KUMAR	RDO FIT	01-Jan-22
705388	WO	ANIL KUMAR GARG	RDO FIT	01-Feb-22
748606	WO	GOPAL JEE RAY	RDO FIT	01-Feb-22
748609	WO	KUMAR DHARMENDRA	RDO FIT	01-Feb-22
748617	WO	BHUPENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
748663	WO	PRAHLAD PRAJAPATI	RDO FIT	01-Feb-22
748717	WO	SHAILESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
748945	WO	SHIV SHANKER SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
749028	WO	ACHYUTANANDA MAHANTA	RDO FIT	01-Feb-22
749047	WO	UMA SHANKAR PANDIT	RDO FIT	01-Feb-22
749168	WO	OM PRAKASH ARYA	RDO FIT	01-Feb-22
749186	WO	SUSHEEL KUMAR SHARMA	RDO FIT	01-Feb-22
749238	WO	UPENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
749353	WO	TEJVEER SINGH BISHT	RDO FIT	01-Feb-22
749356	WO	DALEEP SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
749409	WO	JAY PRAKASH SHARMA	RDO FIT	01-Feb-22
749432	WO	SATENDRA SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
749653	WO	DHARMENDRA KUMAR	RDO FIT	01-Feb-22
749683	WO	RAJENDRA PRASAD	RDO FIT	01-Feb-22
749724	WO	BINEESH KUMAR K K	RDO FIT	01-Feb-22
749738	WO	RASHID BAIG	RDO FIT	01-Feb-22
749741	WO	PRAKASH CHANDRA BISWAL	RDO FIT	01-Feb-22
749764	WO	BIRESH KUMAR	RDO FIT	01-Feb-22
749797	WO	SUSHIL KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Feb-22
749799	WO	SHYAM NARAYAN KUNWAR	RDO FIT	01-Feb-22
747863	WO	JAY SHANKAR SINGH	RDO FIT	01-Mar-22
748587	WO	DEWA NAND UPADHYAY	RDO FIT	01-Apr-22
748601	WO	MUKESH KUMAR SRIVASTAVA	RDO FIT	01-Apr-22
748623	WO	AMITAVA BARMAN	RDO FIT	01-Apr-22
748673	WO	MANOHAR KUMAR	RDO FIT	01-Apr-22
748686	WO	ANIL KUMAR	RDO FIT	01-Apr-22
748735	WO	SUDISTA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Apr-22
748923	WO	PATTAN HAROON KHAN	RDO FIT	01-Apr-22
748939	WO	ANIL KUMAR	RDO FIT	01-Apr-22
749023	WO	AYLOO SHREENATH	RDO FIT	01-Apr-22
749024	WO	GAURI SHANKAR BHARGAVA	RDO FIT	01-Apr-22
749171	WO	VINOD KUMAR PANDEY	RDO FIT	01-Apr-22
749213	WO	SHASHI SHANKAR PRADHAN	RDO FIT	01-Apr-22
749233	WO	KAMALESH SINGH	RDO FIT	01-Apr-22

749259	WO	PRALAYA KUMAR SWAIN	RDO FIT	01-Apr-22
749411	WO	MUKUL SHARMA	RDO FIT	01-Apr-22
749415	WO	PRAKASH CHANDRA BEHERA	RDO FIT	01-Apr-22
749503	WO	MANOJ KUMAR NIRALA	RDO FIT	01-Apr-22
749534	WO	SHAILENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Apr-22
749677	WO	RAHUL JASU	RDO FIT	01-Apr-22
749717	WO	SUDIPTA TAPADER	RDO FIT	01-Apr-22
749795	WO	RAMESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Apr-22
749796	WO	RAKESH KUMAR	RDO FIT	01-Apr-22
749810	WO	MUKESH KUMAR	RDO FIT	01-Apr-22
749816	WO	BIRENDRA KUMAR PRASAD	RDO FIT	01-Apr-22
707618	WO	BISHNU CHARAN BEHERA	RDO FIT	01-Jun-22
747220	WO	SANTOSH KUMAR	RDO FIT	01-Jun-22
749234	WO	PUSHPAL DAS	RDO FIT	01-Jun-22
748593	WO	PRAVEEN KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
748628	WO	SARATHI MAJUMDAR	RDO FIT	01-Jul-22
748635	WO	NILESH KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
748637	WO	SANJAY GIRIDHAR WALAVALKAR	RDO FIT	01-Jul-22
748648	WO	RAKESH KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
748655	WO	ARUN KUMAR JHA	RDO FIT	01-Jul-22
748661	WO	PREM CHAND SAH	RDO FIT	01-Jul-22
748666	WO	KUMAR BARAJENDRA	RDO FIT	01-Jul-22
748668	WO	SARAT CHANDRA BEHERA	RDO FIT	01-Jul-22
748679	WO	UDAI SINGH	RDO FIT	01-Jul-22
748683	WO	DEB DULAL NANDI	RDO FIT	01-Jul-22
748685	WO	RAVI RANJAN	RDO FIT	01-Jul-22
748693	WO	ANIL KUMAR GUPTA	RDO FIT	01-Jul-22
748707	WO	JAGDISH PRASAD SINGH	RDO FIT	01-Jul-22
748708	WO	LAL BAHADUR YADAW	RDO FIT	01-Jul-22
748728	WO	MOHAMMAD SAGIR	RDO FIT	01-Jul-22
748736	WO	SUJEET KUMAR SHARMA	RDO FIT	01-Jul-22
748837	WO	KRISHAN KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
748902	WO	DANDA BHAGAVAN	RDO FIT	01-Jul-22
748920	WO	JAY PRAKASH SINGH	RDO FIT	01-Jul-22
748927	WO	MAHENDRA KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
748938	WO	SATYENDRA PRASAD	RDO FIT	01-Jul-22
749021	WO	SRIBAT CHHA KUMAR BEHERA	RDO FIT	01-Jul-22
749049	WO	SHAILESH KUMAR DHURIYA	RDO FIT	01-Jul-22
749072	WO	DILIP KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
749262	WO	BHARAT KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
749995	WO	PANKAJ KUMAR PRAM BHAKT	RDO FIT	01-Jul-22
790005	WO	BIMLESH KUMAR JHA	RDO FIT	01-Jul-22
790012	WO	MRITUNJAY KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
790013	WO	SHAILENDRA PRATAP SINGH	RDO FIT	01-Jul-22

790027	WO	RANBIR SENAPATI	RDO FIT	01-Jul-22
790035	WO	AVINASH KUMAR JHA	RDO FIT	01-Jul-22
790042	WO	DINESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Jul-22
790075	WO	SANJEEV KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
790085	WO	NITIN GARG	RDO FIT	01-Jul-22
790179	WO	LALIT KUMAR CHOUBEY	RDO FIT	01-Jul-22
790229	WO	SHAILESH KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-Jul-22
790281	WO	MOHD KHALID ZAFAR	RDO FIT	01-Jul-22
790320	WO	RAJNISH KUMAR	RDO FIT	01-Jul-22
717163	WO	SNEHASIS MOITRA	RDO FIT	01-Aug-22
748639	WO	RANJEET PRASAD	RDO FIT	01-Aug-22
749070	WO	RAJESH KUMAR	RDO FIT	01-Aug-22
749922	WO	SANTOSH KUMAR SAHOO	RDO FIT	01-Aug-22
749955	WO	DABAL SINGH	RDO FIT	01-Aug-22
749977	WO	VIVEK KUMAR DIXIT	RDO FIT	01-Aug-22
749983	WO	PANKAJ KUMAR JHA	RDO FIT	01-Aug-22
790077	WO	SUDHIR KUMAR JHA	RDO FIT	01-Aug-22
790371	WO	VEERAGONI SHASHIDHAR GOUD	RDO FIT	01-Aug-22
790410	WO	SUBODH KUMAR JHA	RDO FIT	01-Aug-22
790422	WO	ATUL KUMAR	RDO FIT	01-Aug-22
790478	WO	UPENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Aug-22
790510	WO	DHIRAJ KUMAR	RDO FIT	01-Aug-22
790600	WO	PANKAJ KUMAR TIWARI	RDO FIT	01-Aug-22
748096	WO	RAJESH KUMAR SINHA	RDO FIT	01-Sep-22
749172	WO	ANIL KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Sep-22
749425	WO	RAJA DIWAKAR	RDO FIT	01-Sep-22
790243	WO	YADU NANDAN MEHTA	RDO FIT	01-Sep-22
790321	WO	HARI PRASAD DIXIT	RDO FIT	01-Sep-22
790331	WO	RAM BABU SINGH	RDO FIT	01-Sep-22
790502	WO	SHASHI KANT SINGH	RDO FIT	01-Sep-22
790543	WO	ASHISH KUMAR	RDO FIT	01-Sep-22
749459	WO	BASANT KUMAR SAHOO	RDO FIT	01-Oct-22
749518	WO	SK RIYAJUDDIN	RDO FIT	01-Oct-22
749911	WO	PRADIP KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Oct-22
749952	WO	SHASHI PRAKASH RAI	RDO FIT	01-Oct-22
790029	WO	MANOJ KUMAR	RDO FIT	01-Oct-22
790031	WO	PRAMOD KUMAR TIWARY	RDO FIT	01-Oct-22
790032	WO	AMIT KUMAR	RDO FIT	01-Oct-22
790053	WO	SURENDRA KUMAR SAHNI	RDO FIT	01-Oct-22
790057	WO	SOHAN JEE THAKUR	RDO FIT	01-Oct-22
749789	WO	RAKESH KUMAR SINHA	RDO FIT	01-Nov-22
790081	WO	DINESH KUMAR	RDO FIT	01-Nov-22
790093	WO	PRABHAT RANJAN KUMAR	RDO FIT	01-Nov-22
790172	WO	SANTOSH KUMAR DUBEY	RDO FIT	01-Nov-22

790196	WO	SANDIP KUMAR PANDEY	RDO FIT	01-Nov-22
790289	WO	MAHATAM KUMAR SINGH	RDO FIT	01-Nov-22
790303	WO	PANKAJ KUMAR	RDO FIT	01-Nov-22
749475	WO	SANJAY KUMAR CHOUDHARY	RDO FIT	01-Dec-22
749514	WO	NEWTON KISHOR GUPTA	RDO FIT	01-Dec-22
749688	WO	CHANDAN SINGH YADAV	RDO FIT	01-Dec-22
749966	WO	BIJAY KUMAR BEHERA	RDO FIT	01-Dec-22
790342	WO	RAJEEV KUMAR CHOUDHARY	RDO FIT	01-Dec-22
790378	WO	ABHINAV JAISWAL	RDO FIT	01-Dec-22
790500	WO	UDAY KANT THAKUR	RDO FIT	01-Dec-22
790518	WO	RANJEET KUMAR YADAV	RDO FIT	01-Dec-22
790540	WO	SANIL KUMAR T	RDO FIT	01-Dec-22
790578	WO	SANJEEV KUMAR KATIYAR	RDO FIT	01-Dec-22
790598	WO	BHOLA NATH VERMA	RDO FIT	01-Dec-22
790637	WO	CHHOTE LAL YADAV	RDO FIT	01-Dec-22
715089	WO	GURMEET SINGH SAINI	RDO TECH	01-Jun-22
745644	WO	ANIL KUMAR CHOUDHARY	RDO TECH	01-Jun-22
654733	WO	GANESH KUMAR CHOUDHARY	RDO TECH	01-Jul-22
674388	WO	VIJAY KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
682189	WO	PRAMOD KUMAR CHOURASIA	RDO TECH	01-Jul-22
685275	WO	SATENDRA KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
685556	WO	UMESH KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
685639	WO	BIRENDRA KUMAR SINGH	RDO TECH	01-Jul-22
685856	WO	SHIV KUMAR YADAV	RDO TECH	01-Jul-22
687047	WO	RAJIV RANJAN KUMAR SINGH	RDO TECH	01-Jul-22
690541	WO	AJEET KUMAR YADAV	RDO TECH	01-Jul-22
690877	WO	HARISH CHANDRA SINGH	RDO TECH	01-Jul-22
691445	WO	RAJ KUMAR TYAGI	RDO TECH	01-Jul-22
691692	WO	BIMAL KUMAR JHA	RDO TECH	01-Jul-22
705370	WO	RAJA RAM PANDEY	RDO TECH	01-Jul-22
705646	WO	GOPAL CHANDRA MANDAL	RDO TECH	01-Jul-22
706117	WO	RAMESHWAR DAYAL	RDO TECH	01-Jul-22
706834	WO	AMAR MUMMAD	RDO TECH	01-Jul-22
707364	WO	AKHILESHWAR PANDEY	RDO TECH	01-Jul-22
707733	WO	SHOVNATH SHARMA	RDO TECH	01-Jul-22
715168	WO	VEERESH RAI	RDO TECH	01-Jul-22
715281	WO	SUMANT MISHRA	RDO TECH	01-Jul-22
716553	WO	DURGA PRASAD CHOURASIA	RDO TECH	01-Jul-22
718197	WO	DEODUTTA KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
718319	WO	YASHBIR SINGH YADAV	RDO TECH	01-Jul-22
718468	WO	GURINDER SINGH	RDO TECH	01-Jul-22
719403	WO	ANIL KUMAR TIWARI	RDO TECH	01-Jul-22
719510	WO	DAYA KISHAN KAUSHIK	RDO TECH	01-Jul-22
745263	WO	MANOJ KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22

745480	WO	P SATISH	RDO TECH	01-Jul-22
745487	WO	MANAS KUMAR BHUYAN	RDO TECH	01-Jul-22
745609	WO	SANTOSH PACHAURI	RDO TECH	01-Jul-22
745812	WO	SANJEEV KUMAR SAHU	RDO TECH	01-Jul-22
746428	WO	SUNIL KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
746469	WO	MADHUBAN PRASAD	RDO TECH	01-Jul-22
746479	WO	ABDUL NAFIL KHAN	RDO TECH	01-Jul-22
746505	WO	ARUN KUMAR SINGH	RDO TECH	01-Jul-22
747144	WO	GYANENDRA PRASAD RATH	RDO TECH	01-Jul-22
747385	WO	SHISHIR DIXIT	RDO TECH	01-Jul-22
747391	WO	SHIV MANGAL PRASAD	RDO TECH	01-Jul-22
748016	WO	SURENDER KUMAR	RDO TECH	01-Jul-22
748296	WO	ALOK KUMAR JHA	RDO TECH	01-Jul-22
748300	WO	AJAY GAUTAM	RDO TECH	01-Jul-22
748519	WO	BIBHUTI BHUSAN SWAIN	RDO TECH	01-Jul-22
692144	WO	SHRI MOHAN	RDO TECH	01-Aug-22
715013	WO	GAJENDRA SINGH	RDO TECH	01-Aug-22
718826	WO	ASHOK KUMAR YADAV	RDO TECH	01-Aug-22
719379	WO	AMAN KUMAR CHAUHAN	RDO TECH	01-Aug-22
745280	WO	GIRIVIR SINGH SAJWAN	RDO TECH	01-Aug-22
746787	WO	SHYAM NARAYAN SINGH	RDO TECH	01-Sep-22
745981	WO	RAGHUBAR PANDEY	RDO TECH	01-Oct-22
733752	WO	MANOJKUMAR KARUVACHERRY	SEW	01-Jul-21
733368	WO	SAMAR RAY	SEW	01-Feb-22
730441	WO	RAKESH KUMAR	SEW	01-Apr-22
679582	WO	JAGDISH	SEW	01-Jul-22
679803	WO	RAM SWARUP MEHTA	SEW	01-Jul-22
695007	WO	VIRENDRA NATH PANDEY	SEW	01-Jul-22
695103	WO	MADAN PAL	SEW	01-Jul-22
696435	WO	SATYENDRA NATH SHARMA	SEW	01-Jul-22
696527	WO	DAYA SHANKAR	SEW	01-Jul-22
696835	WO	PRADIP KUMAR PRAMANIK	SEW	01-Jul-22
696919	WO	PARMA NAND SINGH YADAV	SEW	01-Jul-22
696996	WO	RISHI KESH SHARMA	SEW	01-Jul-22
697377	WO	PRATAP SINGH	SEW	01-Jul-22
697493	WO	TAPAN KUMAR MAITY	SEW	01-Jul-22
697823	WO	DWARIKA PRASAD	SEW	01-Jul-22
697913	WO	SHIV PRASAD YADAW	SEW	01-Jul-22
697984	WO	MANAS BHAUMIK	SEW	01-Jul-22
698393	WO	KAJAL ROY	SEW	01-Jul-22
698860	WO	RAMKISHAN	SEW	01-Jul-22
699229	WO	PIRVESH KUMAR SHARMA MUDGAL	SEW	01-Jul-22
699463	WO	MANOHAR SINGH	SEW	01-Jul-22
699608	WO	HARERAM UPADHYAY	SEW	01-Jul-22

730577	WO	UMESH KUMAR SINGH	SEW	01-Jul-22
732761	WO	JAGDISH SINGH	SEW	01-Jul-22
733170	WO	SUSHIL KUMAR TIWARY	SEW	01-Jul-22
733271	WO	GREESH KUMAR	SEW	01-Jul-22
696604	WO	PRADEEP KUMAR SHARMA	SEW	01-Aug-22
733006	WO	PARMINDER SINGH	SEW	01-Dec-22
745291	WO	KOVILAKUNTALA MOJAMMED MUBARAK BASHA	TELST RTO	01-Jan-22
746924	WO	KAMAL KUMAR MONDAL	TELST RTO	01-Jan-22
715720	WO	ASHIM KUMAR SARKAR	TELST RTO	01-Feb-22
718981	WO	RAJESH DUBEY	TELST RTO	01-Feb-22
747448	WO	ANIL KUMAR	TELST RTO	01-Feb-22
639875	WO	CHHAJU RAM	TELST RTO	01-Jul-22
639940	WO	BASHISITH SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
639950	WO	GHANSHYAM KUMAR INDORIA	TELST RTO	01-Jul-22
640004	WO	JUNAID ALI KHAN	TELST RTO	01-Jul-22
640009	WO	VIRENDRA KUMAR	TELST RTO	01-Jul-22
640017	WO	BISHAN SINGH BISHT	TELST RTO	01-Jul-22
640118	WO	ANIL KUMAR	TELST RTO	01-Jul-22
640130	WO	MAHENDRA SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
640134	WO	BISHAN DAYAL YADAV	TELST RTO	01-Jul-22
640593	WO	SHAIK MOHAMMAD MUSTAPHA	TELST RTO	01-Jul-22
640659	WO	GAUTAM SAHA	TELST RTO	01-Jul-22
640768	WO	SHIV RAM ROY	TELST RTO	01-Jul-22
640769	WO	SHIVA KANT JHA	TELST RTO	01-Jul-22
640953	WO	SANJAY KUMAR SINHA	TELST RTO	01-Jul-22
640968	WO	SHAJI MURIYANKAVUNKAL CHACKO	TELST RTO	01-Jul-22
715098	WO	RAM MEHAR	TELST RTO	01-Jul-22
715141	WO	KRISHNA NAND PRASAD	TELST RTO	01-Jul-22
715202	WO	BHASKAR MISHRA	TELST RTO	01-Jul-22
715203	WO	BUDHA BAHADUR	TELST RTO	01-Jul-22
715366	WO	SRI BABUL RAJBONSHI	TELST RTO	01-Jul-22
716687	WO	VINAY KUMAR SAXENA	TELST RTO	01-Jul-22
716690	WO	SHYAM NANDAN PRASAD SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
716735	WO	SUJIT KUMAR DATTA	TELST RTO	01-Jul-22
717300	WO	ARUN KUMAR DWIVEDI	TELST RTO	01-Jul-22
717340	WO	SUCHCHA SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
717481	WO	RAJENDRA KUMAR PRASAD	TELST RTO	01-Jul-22
717509	WO	GURMAIL SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
717900	WO	KAMALESH KUMAR PANDEY	TELST RTO	01-Jul-22
718689	WO	SATBIR SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
719462	WO	VINOD KUMAR SINGH	TELST RTO	01-Jul-22
719659	WO	BADRINATH DWIVEDI	TELST RTO	01-Jul-22
747441	WO	RAMBIR	TELST RTO	01-Jul-22
639941	WO	AMIRUZZAMA	TELST RTO	20-Jul-22



640518	WO	SUDHIR KUMAR VISHWAKARMA	TELST RTO	01-Aug-22
716343	WO	SATYENDRA KUMAR	TELST RTO	01-Aug-22
716399	WO	VINAY KUMAR	TELST RTO	01-Aug-22
716780	WO	MOHAMMED HUSNAIN	TELST RTO	01-Aug-22
718706	WO	DEBARATO NATH	TELST RTO	01-Aug-22
719085	WO	SHYAM MOHAN SINGH	TELST RTO	01-Aug-22
719757	WO	RAMPHAL SINGH SHEORAN	TELST RTO	01-Aug-22
746737	WO	SUBRAMANYAN LAKSHMI NARASIMHAN	TELST RTO	01-Aug-22
747711	WO	INDER JEET YADAV	TELST RTO	01-Sep-22
746456	WO	INDRA VEER SINGH	TELST RTO	01-Oct-22
747940	WO	DEBENDRA BISWAL	TELST RTO	01-Oct-22
640589	WO	SWAPAN KUMAR BISWAS	TELST RTO	01-Nov-22
715096	WO	OM PRAKASH	TELST RTO	01-Nov-22
767082	WO	DHARM NATH SHUKLA	WPN FIT	01-Jul-21
767802	WO	MUNNA KUMAR SINGH	WPN FIT	01-Nov-21
695897	WO	PARMA NAND SINGH	WPN FIT	01-Jan-22
729870	WO	MAHENDRA KUMAR DAS	WPN FIT	01-Jan-22
765995	WO	JAIBHAGWAN SINGH	WPN FIT	01-Jan-22
767430	WO	DEEPAK KUMAR	WPN FIT	01-Jan-22
767782	WO	SANJAY KUMAR MISHRA	WPN FIT	01-Jan-22
768377	WO	SANJAY KUMAR SINGH	WPN FIT	01-Jan-22
768389	WO	RAKESH SINGH	WPN FIT	01-Jan-22
768392	WO	AJIT KUMAR SINGH	WPN FIT	01-Jan-22
675090	WO	RADHA KRISHAN UPADHYAY	WPN FIT	01-Feb-22
768867	WO	SATYA PAL SINGH	WPN FIT	01-Feb-22
768872	WO	PRAMOD KUMAR GIRI	WPN FIT	01-Feb-22
769377	WO	DINESH KUMAR	WPN FIT	01-Feb-22
769691	WO	MANINDRA KAPRI	WPN FIT	01-Feb-22
769698	WO	RAJESH PRASAD GUPTA	WPN FIT	01-Feb-22
769733	WO	PAWAN KUMAR	WPN FIT	01-Feb-22
769742	WO	SANJAYA KUMAR	WPN FIT	01-Feb-22
769989	WO	SANJEEV KUMAR MITRA	WPN FIT	01-Feb-22
732180	WO	KUMAR MADHUSUDAN	WPN FIT	01-Apr-22
735977	WO	RAJESH KUMAR PAL	WPN FIT	01-Apr-22
767445	WO	RAM SAGAR YADAV	WPN FIT	01-Apr-22
768397	WO	SANJIT KUMAR	WPN FIT	01-Apr-22
699083	WO	VIBHAKAR JOTISWAROOP	WPN FIT	01-Jun-22
727912	WO	RATAN PAL YADAV	WPN FIT	01-Jun-22
728170	WO	MD MAMOON RASHID	WPN FIT	01-Jun-22
732385	WO	RAJENDER PRASAD	WPN FIT	01-Jun-22
766753	WO	PRAKASH CHANDRA SAMANTRAY	WPN FIT	01-Jun-22
767112	WO	MOHAMMAD QAISARUDDIN	WPN FIT	01-Jun-22
678830	WO	VIMLESH KUMAR TRIVEDI	WPN FIT	01-Jul-22
678836	WO	MAHABIR SINGH YADVA	WPN FIT	01-Jul-22

679546	WO	MANJIT SINGH	WPN FIT	01-Jul-22
679589	WO	JAI GOPAL SINGH	WPN FIT	01-Jul-22
695687	WO	HARSH NARAYAN MISHRA	WPN FIT	01-Jul-22
695712	WO	JAGADISH PRASAD YADAV	WPN FIT	01-Jul-22
696375	WO	SHRI RAM YADAV	WPN FIT	01-Jul-22
696549	WO	SHIRISH KUMAR TRIPATHI	WPN FIT	01-Jul-22
696571	WO	DHAN RAJ SINGH	WPN FIT	01-Jul-22
696840	WO	AWADHESH KUMAR	WPN FIT	01-Jul-22
696947	WO	JAGDISH	WPN FIT	01-Jul-22
697086	WO	PREM CHANDRA	WPN FIT	01-Jul-22
697223	WO	SACHCHIDANAND SINGH	WPN FIT	01-Jul-22
697350	WO	DASHARATH DUBEY	WPN FIT	01-Jul-22
697352	WO	ASHOK KUMAR KAPRI	WPN FIT	01-Jul-22
698109	WO	SHARWAN KUMAR SWAMI	WPN FIT	01-Jul-22
698232	WO	INDRADEO SINGH YADAW	WPN FIT	01-Jul-22
698412	WO	RANJAN KUMAR MONDAL	WPN FIT	01-Jul-22
698980	WO	PRADEEP KUMAR BHUYAN	WPN FIT	01-Jul-22
699491	WO	VIRBHAN	WPN FIT	01-Jul-22
699899	WO	JAYANTA DEBNATH	WPN FIT	01-Jul-22
728148	WO	MD SHAMSUL HUDA	WPN FIT	01-Jul-22
728966	WO	BIR SAIN	WPN FIT	01-Jul-22
730240	WO	RAJIV GUPTA	WPN FIT	01-Jul-22
730593	WO	RANJIT RAI	WPN FIT	01-Jul-22
730783	WO	SURENDRA PRASAD ROY	WPN FIT	01-Jul-22
730953	WO	RANJIT SARKAR	WPN FIT	01-Jul-22
731422	WO	AMRESH KUMAR SHARMA	WPN FIT	01-Jul-22
732332	WO	PARDEEP SHARMA	WPN FIT	01-Jul-22
736086	WO	ABDUL QUADIR	WPN FIT	01-Jul-22
679439	WO	BHUPENDRA KAUSHIK	WPN FIT	01-Aug-22
696117	WO	JAGVIR SINGH ARYA	WPN FIT	01-Aug-22
728978	WO	NARENDRA KUMAR PANCHAL	WPN FIT	01-Aug-22
729175	WO	BASANT KUMAR CHATURVEDI	WPN FIT	01-Aug-22
729990	WO	BINOD KUMAR SINGH	WPN FIT	01-Aug-22
731652	WO	RANJANANAND JHA	WPN FIT	01-Aug-22
729174	WO	RAJENDRA PRASAD	WPN FIT	01-Sep-22
730344	WO	HARIOM SHARMA	WPN FIT	01-Sep-22
765200	WO	RAJESH KUMAR TIWARI	WPN FIT	01-Sep-22
765204	WO	SURYESHWAR PANDEY	WPN FIT	01-Sep-22
769057	WO	KANHAIYA PRASAD SINGH	WPN FIT	01-Sep-22
728975	WO	RAM CHARIT KUSHWAHA	WPN FIT	01-Oct-22
731665	WO	MD TAUFIQUE KHAN	WPN FIT	01-Oct-22
731720	WO	SHEONATH MAHATO	WPN FIT	01-Oct-22
735024	WO	RAJESH KUMAR	WPN FIT	01-Oct-22
765928	WO	SUBODH KUMAR MISHRA	WPN FIT	01-Oct-22

766397	WO	SAMAR DEY	WPN FIT	01-Oct-22
699558	WO	SUBHASH PRASAD	WPN FIT	01-Nov-22
730387	WO	BISWANATH BADIYAKAR	WPN FIT	01-Nov-22
731482	WO	ASHIS MAJUMDER	WPN FIT	01-Nov-22
766363	WO	SATISH CHANDRA	WPN FIT	01-Nov-22
767452	WO	JAGAT SINGH	WPN FIT	01-Nov-22
767462	WO	SASIDHAR NARASIMHA	WPN FIT	01-Nov-22
767790	WO	PRASANTA KUMAR SAMANTA	WPN FIT	01-Nov-22
768675	WO	JAY SHANKER JHA	WPN FIT	01-Nov-22
768105	WO	GAURI SHANKER PRASAD	WPN FIT	01-Dec-22
769045	WO	SURJEET KUMAR	WPN FIT	01-Dec-22
769383	WO	DEEPAK KUMAR YADAV	WPN FIT	01-Dec-22
776286	WO	PANKAJ KUMAR SOOD	WPN FIT	01-Dec-22
733200	WO	RAJESH KUMAR	WS FIT(B)	01-Feb-22
732729	WO	ARVIND PAL SHAKHER	WS FIT(B)	01-Jun-22
697933	WO	JAI PRAKASH CHAUHAN	WS FIT(B)	01-Jul-22
734170	WO	MANORANJAN PANIGRAHI	WS FIT(B)	01-Dec-22
732893	WO	SUSANTA KUMAR DASH	WS FIT(C)	01-Aug-22
679117	WO	SHRI RAM YADAV	WS FIT(M)	01-Jul-22
679825	WO	MUNINDRA PRASAD SINHA	WS FIT(M)	01-Jul-22
695731	WO	MOHAMMAD SIRAJUL HAQUE ANSARI	WS FIT(M)	01-Jul-22
696541	WO	SURESH KUMAR GUPTA	WS FIT(M)	01-Jul-22
696783	WO	RAMDARASH SINGH YADAV	WS FIT(M)	01-Jul-22
696993	WO	RAJESH KUMAR PATHAK	WS FIT(M)	01-Jul-22
697015	WO	YOGENDRA SINGH	WS FIT(M)	01-Jul-22
699781	WO	RAJ BAHADUR SINGH	WS FIT(M)	01-Jul-22
699866	WO	BHAGWAN DAS	WS FIT(M)	01-Jul-22
730063	WO	TAPAS KANTI DAS	WS FIT(M)	01-Jul-22
733399	WO	ARUN KUMAR PANDIT	WS FIT(M)	01-Jul-22
734242	WO	RADHESHYAM PANDIT	WS FIT(M)	01-Jul-22
733400	WO	ANANT NARAYAN DWIVEDI	WS FIT(M)	01-Aug-22
695890	WO	MAHESH PRASAD YADAV	WS FIT(M)	01-Sep-22
734382	WO	AMAR NATH SHAH	WS FIT(M)	01-Oct-22
696651	WO	ANIL KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-Nov-22
785174	WO	RAMENDRA KUMAR MISHRA	WS FIT(M)	01-Dec-22

Total 1677 (One Thousand Six Hundred Seventy Seven) names only.

(SGTs to Sub JWOs)

SER NO	RANK	NAME	TRADE	SUB RANK DATE
702565	JWO	RAVINDER KUMAR MAHTO	ACH GD	01-JUL-21
770368	JWO	DEVESH YADAV	ACH GD	01-SEP-21
703726	JWO	BIRENDAR CHOUBEY	ACH GD	01-NOV-21

721757	JWO	PATNAIKUNI NARENDRA BABU	ACH GD	01-JAN-22
727040	JWO	RADHE SHYAM RAI	ACH GD	01-JAN-22
773232	JWO	KULDEEP	ACH GD	01-JAN-22
773566	JWO	RAKESH KUMAR SHARMA	ACH GD	01-JAN-22
773571	JWO	JITENDRA KUMAR KUSHAL	ACH GD	01-JAN-22
774165	JWO	SANTOSH KUMAR GUPTA	ACH GD	01-JAN-22
774482	JWO	SHALENDER KUMAR	ACH GD	01-JAN-22
693345	JWO	ONKAR SINGH MERTIA	ACH GD	01-FEB-22
737926	JWO	SURESH KUMAR VERMA	ACH GD	01-FEB-22
774493	JWO	ANTONY JAISON	ACH GD	01-FEB-22
706761	JWO	MOHAN LAL BHARDWAJ	ACH GD	01-MAR-22
774514	JWO	MANOJ KUMAR SINHA	ACH GD	01-MAR-22
694336	JWO	RAMSARAN	ACH GD	01-APR-22
694618	JWO	DHARM KISHORE SHARMA	ACH GD	01-APR-22
770829	JWO	ARUN KUMAR TIWARI	ACH GD	01-APR-22
795485	JWO	MUNNA KUMAR	ACH GD	01-APR-22
795493	JWO	SHAILENDRA PRASAD SINGH	ACH GD	01-APR-22
795507	JWO	SANTOSH KUMAR	ACH GD	01-APR-22
694624	JWO	VIRENDRA KUMAR	ACH GD	01-MAY-22
772271	JWO	PAWAN KUMAR	ACH GD	01-MAY-22
703015	JWO	RAJKUMAR	ACH GD	01-JUN-22
704845	JWO	KRISHNA KUMAR TIWARI	ACH GD	01-JUN-22
736702	JWO	NAVEEN PRAKASH	ACH GD	01-JUN-22
774500	JWO	SUNIL KUMAR JHA	ACH GD	01-JUN-22
774828	JWO	RAJESH KUMAR	ACH GD	01-JUN-22
693758	JWO	JAGDISHWAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
694757	JWO	PREMRANJAN TRIPATHY	ACH GD	01-JUL-22
694835	JWO	PREM KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
700351	JWO	SUNIL KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
700726	JWO	SATISH KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
701382	JWO	GAYA PRASAD	ACH GD	01-JUL-22
701698	JWO	SATYABIR SINGH YADAV	ACH GD	01-JUL-22
701706	JWO	MAHAVIR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
701757	JWO	OMPAL SINGH	ACH GD	01-JUL-22
702280	JWO	RAM KUMAR MISHRA	ACH GD	01-JUL-22
702428	JWO	PAWAN KUMAR DAS	ACH GD	01-JUL-22
702707	JWO	HARIPADA SANTRA	ACH GD	01-JUL-22

703018	JWO	VIJAY SINGH YADAV	ACH GD	01-JUL-22
703219	JWO	SRI RAMESH CHANDRA DAS	ACH GD	01-JUL-22
703952	JWO	SURESH BABU YADAV	ACH GD	01-JUL-22
704178	JWO	UMESH KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
704375	JWO	BUDH PRAKASH SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
704645	JWO	CHANDESHWAR PRASAD SINGH	ACH GD	01-JUL-22
704683	JWO	BIJAY SINGH	ACH GD	01-JUL-22
725873	JWO	HIRA MOHAN SINGH	ACH GD	01-JUL-22
725984	JWO	ISHWER CHAND VERMA	ACH GD	01-JUL-22
726253	JWO	MD JAHANGEER ALAM	ACH GD	01-JUL-22
726783	JWO	KRISHAN KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
736632	JWO	DEBABRATA CHOWDHURY	ACH GD	01-JUL-22
736742	JWO	AKHILESH MISRA	ACH GD	01-JUL-22
736752	JWO	ANIL KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
736754	JWO	SHAMBHU KANT JHA	ACH GD	01-JUL-22
736799	JWO	BIBEKANANDA DASH	ACH GD	01-JUL-22
736810	JWO	ANAND KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
737096	JWO	BIRENDER KUMAR YADAV	ACH GD	01-JUL-22
737103	JWO	RAVINDER KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
737110	JWO	BIJU PUTHENPURACKAL KUNJAPPAN	ACH GD	01-JUL-22
737731	JWO	SANJEEV BHARDWAJ	ACH GD	01-JUL-22
737745	JWO	TAPAN KUMAR PRASAD	ACH GD	01-JUL-22
737747	JWO	RAMA KANT SAXENA	ACH GD	01-JUL-22
737748	JWO	MANOJ KUMAR SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
737927	JWO	HEMANT ROY	ACH GD	01-JUL-22
738354	JWO	MANOJ KUMAR SAVANT	ACH GD	01-JUL-22
738761	JWO	SANJAY KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
739201	JWO	JAI PRAKASH SHAVERN	ACH GD	01-JUL-22
739387	JWO	SANJAY KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
739392	JWO	TULSI DAS PANIGRAHI	ACH GD	01-JUL-22
739576	JWO	SANJAY KAUSHIK	ACH GD	01-JUL-22
739807	JWO	SANTOSH TIWARI	ACH GD	01-JUL-22
739822	JWO	SUBODHA KUMAR JENA	ACH GD	01-JUL-22
739839	JWO	HARI BABU	ACH GD	01-JUL-22
770111	JWO	RAJEEV KUMAR DUBEY	ACH GD	01-JUL-22
770123	JWO	KISAN PAL	ACH GD	01-JUL-22
770126	JWO	MOH ARAFAT	ACH GD	01-JUL-22
770380	JWO	ARUN KUMAR RAI	ACH GD	01-JUL-22

770383	JWO	SORABH SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
770590	JWO	RAKESH SONI	ACH GD	01-JUL-22
770603	JWO	DEEPAK SHARMA	ACH GD	01-JUL-22
770607	JWO	DEENDAYAL SINGH	ACH GD	01-JUL-22
770614	JWO	MD NAYEEMUDDIN	ACH GD	01-JUL-22
770828	JWO	ALOK KUMAR SRIVASTAVA	ACH GD	01-JUL-22
770844	JWO	PRATEEK CHOUHAN	ACH GD	01-JUL-22
771059	JWO	KUTTASSERI RAJESH	ACH GD	01-JUL-22
771065	JWO	PAVANAN P V	ACH GD	01-JUL-22
771074	JWO	AJAY SIWACH	ACH GD	01-JUL-22
771075	JWO	MUNNA KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
771076	JWO	XAVIER JOSHWIN T R	ACH GD	01-JUL-22
771080	JWO	RAJESH YADAV	ACH GD	01-JUL-22
771083	JWO	NALIN KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
771345	JWO	VINAY KUMAR	ACH GD	01-JUL-22
771368	JWO	BIRENDRA SINGH	ACH GD	01-JUL-22
771667	JWO	ABHIMANYU SENAPATI	ACH GD	01-JUL-22
771975	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
771980	JWO	PRAVEEN KUMAR SINGH	ACH GD	01-JUL-22
771984	JWO	DAYA RAM SONKAR	ACH GD	01-JUL-22
771991	JWO	SUSANTA KUMAR BHOLA	ACH GD	01-JUL-22
694998	JWO	RAVINDRA NATH PANDEY	ACH GD	01-AUG-22
703485	JWO	SUDIP SARKAR	ACH GD	01-AUG-22
725472	JWO	CHANDAN NAG	ACH GD	01-AUG-22
737976	JWO	MUKESH PAL	ACH GD	01-AUG-22
738560	JWO	MD JABIR HUSSAIN	ACH GD	01-AUG-22
739025	JWO	AMEDARAM GODARA	ACH GD	01-AUG-22
739192	JWO	SONAM GYATSO BHUTIA	ACH GD	01-AUG-22
739825	JWO	LAKSHMISHWAR SINGH KUSHWAHA	ACH GD	01-AUG-22
772268	JWO	B JAGADEESWARA RAO	ACH GD	01-AUG-22
772272	JWO	SUTHEESH CHEMMALA	ACH GD	01-AUG-22
772276	JWO	SUNIL SINGH	ACH GD	01-AUG-22
772278	JWO	BINAYA KUMAR SWAIN	ACH GD	01-AUG-22
772287	JWO	ZEESHAN KHAN	ACH GD	01-AUG-22
772608	JWO	RAJINDER KUMAR	ACH GD	01-AUG-22
772609	JWO	SHAILESH KUMAR PANDEY	ACH GD	01-AUG-22
772615	JWO	SHIV KUMAR SHARMA	ACH GD	01-AUG-22
772916	JWO	SHYAM SUNDAR KISHORE	ACH GD	01-AUG-22

772918	JWO	DUDEKULA PAPANNAGARI ASHOK	ACH GD	01-AUG-22
772937	JWO	SANJAY KUMAR DUBEY	ACH GD	01-AUG-22
725448	JWO	ASHOK KUMAR DEBNATH	ACH GD	01-SEP-22
772940	JWO	SUBHASH CHANDRA PANDEY	ACH GD	01-SEP-22
773231	JWO	GANESH KUMAR MANJHI	ACH GD	01-OCT-22
773558	JWO	RAKESH RAMACHANDRAN	ACH GD	01-OCT-22
773567	JWO	LALIT KUMAR	ACH GD	01-OCT-22
773582	JWO	RAJU KUMAR SINGH	ACH GD	01-OCT-22
773865	JWO	MANISH KUMAR SINGH	ACH GD	01-OCT-22
694206	JWO	HARIBANDHU SAHOO	ACH GD	01-NOV-22
704387	JWO	HARI PARKASH KAUSHIK	ACH GD	01-NOV-22
724463	JWO	SANJEEVA KUMAR MISHRA	ACH GD	01-NOV-22
771670	JWO	NAGESWARA RAO T V S	ACH GD	01-NOV-22
773864	JWO	ANIL KUMAR	ACH GD	01-NOV-22
773878	JWO	BABLU KUMAR SINGH	ACH GD	01-NOV-22
774177	JWO	SUNIL KUMAR	ACH GD	01-NOV-22
774485	JWO	ANIL KUMAR SHARMA	ACH GD	01-NOV-22
774515	JWO	VIKASH KUMAR SINGH	ACH GD	01-NOV-22
774813	JWO	SHASHI BHUSHAN SHARMA	ACH GD	01-NOV-22
774814	JWO	RAMAN KUMAR JHA	ACH GD	01-NOV-22
774832	JWO	VIRENDER KUMAR THAKUR	ACH GD	01-NOV-22
774838	JWO	SUBEDAR	ACH GD	01-NOV-22
774846	JWO	RAKESH KUMAR SINGH	ACH GD	01-NOV-22
774853	JWO	MAHMOOD ALAM	ACH GD	01-NOV-22
774855	JWO	PRAVIN KUMAR	ACH GD	01-NOV-22
795172	JWO	RAJNEESH KUMAR	ACH GD	01-NOV-22
795181	JWO	RAJNISH KUMAR RANJAN	ACH GD	01-NOV-22
795481	JWO	K MADHU SUDAN RAO	ACH GD	01-DEC-22
795482	JWO	HIMANSU SHAKHAR CHOUBEY	ACH GD	01-DEC-22
795486	JWO	SANDEEP KUMAR TRIVEDI	ACH GD	01-DEC-22
795495	JWO	SHOBHRAJ YADAVA	ACH GD	01-DEC-22
795509	JWO	JITENDRA PRATAP	ACH GD	01-DEC-22
795513	JWO	MOHAMMAD ASIFAQUE AHAMAD	ACH GD	01-DEC-22
796098	JWO	SATISH KUMAR	ACH GD	01-DEC-22
948142	JWO	JASPREET SINGH	ADM ASST(GD)	02-JAN-21
937117	JWO	SREEJITH R J	ADM ASST(GD)	01-JAN-22
948663	JWO	ATUL KUMAR	ADM ASST(GD)	01-JAN-22
937920	JWO	RAVINDER	ADM ASST(GD)	01-JUL-22

743516	JWO	RANDHIR KUMAR SHARMA	ADSO	01-NOV-21
743551	JWO	KANASE DIPAK HANMANT	ADSO	01-JAN-22
743552	JWO	UMA SHANKAR	ADSO	01-JAN-22
743560	JWO	DHARMENDRA KUMAR	ADSO	01-JAN-22
743565	JWO	SAROJ KUMAR	ADSO	01-JAN-22
743566	JWO	M VENKAT KRISHNA MURTY	ADSO	01-JAN-22
743602	JWO	PRADEEP KUMAR	ADSO	01-APR-22
743649	JWO	SUNIL KUMAR M	ADSO	01-APR-22
743675	JWO	MUNISH KUMAR	ADSO	01-APR-22
743696	JWO	RANJAY SINGH KUSHWAHA	ADSO	01-APR-22
743820	JWO	BRIJ RAJ PANDEY	ADSO	01-APR-22
743834	JWO	MANOJ KUMAR AVASTHI	ADSO	01-APR-22
743843	JWO	AMARESH KUMAR GIRI	ADSO	01-APR-22
744057	JWO	RAJESH KUMAR JANU	ADSO	01-APR-22
744078	JWO	PANKAJ SINGH	ADSO	01-APR-22
741801	JWO	BACHCHA BABU	ADSO	01-JUN-22
743581	JWO	SUNIL KUMAR TIWARI	ADSO	01-JUL-22
743624	JWO	HARERAM YADAV	ADSO	01-JUL-22
743625	JWO	DHARMENDRA KUMAR SINGH	ADSO	01-JUL-22
743634	JWO	NARENDER KUMAR	ADSO	01-JUL-22
743639	JWO	AMJAD KHAN	ADSO	01-JUL-22
743652	JWO	SURESH KUMAR	ADSO	01-JUL-22
743659	JWO	RAKESH BIHARI SINGH	ADSO	01-JUL-22
743668	JWO	GANESH KUMAR GUPTA	ADSO	01-JUL-22
743670	JWO	MANISH KUMAR	ADSO	01-JUL-22
743687	JWO	RAJESH T R	ADSO	01-JUL-22
743689	JWO	SAATVIK SHARMA	ADSO	01-JUL-22
743693	JWO	AMIT YAGNIK	ADSO	01-JUL-22
743695	JWO	SURESH DUGGIRALA	ADSO	01-JUL-22
743702	JWO	SUSHIL KUMAR VATSA	ADSO	01-JUL-22
743870	JWO	ARVIND KUMAR	ADSO	01-JUL-22
743881	JWO	ASHISH KUMAR	ADSO	01-JUL-22
743887	JWO	SHASHI BHUSHAN	ADSO	01-JUL-22
743888	JWO	MRINMOY PAUL CHOWDHURY	ADSO	01-JUL-22
744054	JWO	SITA RAM YADAV	ADSO	01-JUL-22
744056	JWO	UPENDER PAL	ADSO	01-JUL-22
744067	JWO	ASHWINI KUMAR	ADSO	01-JUL-22
744082	JWO	MUKESH KUMAR	ADSO	01-JUL-22



744406	JWO	SARVJEET KUMAR SINGH	ADSO	01-JUL-22
744408	JWO	PRADEEP KUMAR	ADSO	01-JUL-22
744414	JWO	DIPAK KUMAR MAHAPATRA	ADSO	01-JUL-22
744419	JWO	RAJEEV KUMAR	ADSO	01-JUL-22
744420	JWO	GIRISH CHANDRA	ADSO	01-JUL-22
744423	JWO	SUMAN KUMAR GHOSH	ADSO	01-JUL-22
744424	JWO	MAHENDRA SINGH SAHU	ADSO	01-JUL-22
744429	JWO	SHEKH SHAMSHAD ALAM MENHADI	ADSO	01-JUL-22
743865	JWO	MANOJ KUMAR	ADSO	01-AUG-22
744399	JWO	DEVENDER KUMAR	ADSO	01-AUG-22
744433	JWO	SUSHANT KUMAR SINGH	ADSO	01-AUG-22
744435	JWO	RAJ KUMAR SINGH AZAD	ADSO	01-AUG-22
744446	JWO	MANJEET	ADSO	01-AUG-22
744458	JWO	PARAMJIT SINGH	ADSO	01-AUG-22
744756	JWO	SHATRUNJAY KUMAR SINGH	ADSO	01-AUG-22
744769	JWO	AJIT KUMAR SINGH	ADSO	01-AUG-22
744770	JWO	SHAHNAWAZUL HAQUE	ADSO	01-AUG-22
744774	JWO	KAPIL TARGOTRA	ADSO	01-AUG-22
744775	JWO	NAVEEN	ADSO	01-SEP-22
744778	JWO	RAJEEV RANJAN	ADSO	01-SEP-22
744798	JWO	INDRAJEET KUMAR	ADSO	01-OCT-22
744809	JWO	SANTOSH KUMAR	ADSO	01-OCT-22
744820	JWO	SAILESH KUMAR	ADSO	01-OCT-22
743844	JWO	MAINUL HAQUE	ADSO	01-NOV-22
744792	JWO	MANI SHANKAR MANI	ADSO	01-NOV-22
744800	JWO	NISHANT KUMAR	ADSO	01-NOV-22
744821	JWO	MOPARTHI THOMSON	ADSO	01-NOV-22
744836	JWO	ANUJ KUMAR	ADSO	01-NOV-22
744840	JWO	DINESH KUMAR	ADSO	01-NOV-22
777559	JWO	UDAY KUMAR MANDAL	AF FIT	01-JUL-21
777586	JWO	NITIN NISHCHHAL AWASTHI	AF FIT	01-FEB-22
777748	JWO	ANAND KUMAR JOSHI	AF FIT	01-JUL-22
777773	JWO	GYANARANJAN MISHRA	AF FIT	01-JUL-22
777988	JWO	BRIJA NAND YADAV	AF FIT	01-JUL-22
777994	JWO	KRISHAN SINGH SHEKHAWAT	AF FIT	01-JUL-22
777998	JWO	AMIT KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778006	JWO	RABINDRA PANDIT	AF FIT	01-JUL-22
778007	JWO	UDAY KUMAR	AF FIT	01-JUL-22

778008	JWO	MANOJ KUMAR BHARDWAJ	AF FIT	01-JUL-22
778016	JWO	SANKARSHAN SAHU	AF FIT	01-JUL-22
778019	JWO	MANOJ KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778021	JWO	KUSHAPAL SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778022	JWO	AJAY KUMAR SHARMA	AF FIT	01-JUL-22
778036	JWO	ABHISHEK KUMAR SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778037	JWO	ASHISH KUMAR TYAGI	AF FIT	01-JUL-22
778043	JWO	BINOD KUMAR CHAUDHARY	AF FIT	01-JUL-22
778055	JWO	RAKESH VERMA	AF FIT	01-JUL-22
778059	JWO	MUKESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778069	JWO	SANJU SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778070	JWO	MAHAVEER PRASAD MISRA	AF FIT	01-JUL-22
778074	JWO	VIPIN KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778077	JWO	RAGHUNANDAN GUJJARU	AF FIT	01-JUL-22
778080	JWO	JYOTI PRAKASH NIRALA	AF FIT	01-JUL-22
778089	JWO	MOHAMMAD FIROJ	AF FIT	01-JUL-22
778090	JWO	JYOTISH CHANDRA MANDAL	AF FIT	01-JUL-22
778091	JWO	RANJEET KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778096	JWO	RAKESH KUMAR SETHI	AF FIT	01-JUL-22
778099	JWO	PAPU KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778100	JWO	RAJESH PASWAN	AF FIT	01-JUL-22
778105	JWO	ABHAY KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778106	JWO	ROHIT KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778108	JWO	RAHUL KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778114	JWO	PRASANNA KUMAR NAIK	AF FIT	01-JUL-22
778115	JWO	AKHILESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778116	JWO	GAUTAM KUMAR DWIVEDI	AF FIT	01-JUL-22
778120	JWO	POLICHERLA HARI BABU	AF FIT	01-JUL-22
778125	JWO	RAJESH RAI	AF FIT	01-JUL-22
778126	JWO	SANJAY SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778127	JWO	PANKAJ KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778128	JWO	LALJEE SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778135	JWO	AWANISH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778136	JWO	MOHAMMAD ABDULLAH	AF FIT	01-JUL-22
778141	JWO	MUKESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778142	JWO	AJIT KUMAR SINHA	AF FIT	01-JUL-22
778144	JWO	NIRANJAN RAY	AF FIT	01-JUL-22
778149	JWO	MUKESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22

778150	JWO	KUMAR ANUBHAW	AF FIT	01-JUL-22
778155	JWO	KUMAR AGNIHOTRA	AF FIT	01-JUL-22
778156	JWO	ARBIND KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778167	JWO	VIVEKANAND	AF FIT	01-JUL-22
778171	JWO	DHARMENDRA KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778176	JWO	MANISH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778184	JWO	MANORANJAN KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778387	JWO	ALOK GYANENDU	AF FIT	01-JUL-22
778390	JWO	DEVESH KUMAR JHA	AF FIT	01-JUL-22
778391	JWO	MUKESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778393	JWO	SANJEEV KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778394	JWO	CHANDAN KUMAR BHARDWAJ	AF FIT	01-JUL-22
778395	JWO	DILIP KUMAR ROY	AF FIT	01-JUL-22
778398	JWO	SATISH GIDUTURI	AF FIT	01-JUL-22
778405	JWO	SANJAY VERMA	AF FIT	01-JUL-22
778409	JWO	M MAHENDER	AF FIT	01-JUL-22
778414	JWO	NITIN DHULIYA	AF FIT	01-JUL-22
778419	JWO	AZHAR ALAM	AF FIT	01-JUL-22
778421	JWO	GOVIND SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778434	JWO	MUDADLA DHARMA RAO	AF FIT	01-JUL-22
778438	JWO	ASHUTOSH KUMAR TRIPATHI	AF FIT	01-JUL-22
778440	JWO	HARISH KUMAR K G	AF FIT	01-JUL-22
778441	JWO	PANKAJ KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778450	JWO	MANOJ KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778457	JWO	RAJESH RANJAN	AF FIT	01-JUL-22
778459	JWO	MEDISETTY RAJESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778470	JWO	RAJNISH KUMAR PANDEY	AF FIT	01-JUL-22
778472	JWO	ARUN KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778480	JWO	MOHIT KUMAR TRIVEDI	AF FIT	01-JUL-22
778490	JWO	CHANDRA BHUSHAN PRASAD	AF FIT	01-JUL-22
778491	JWO	HEMENDRA KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778492	JWO	LALU LUKOSE	AF FIT	01-JUL-22
778506	JWO	ARUN GULERIA	AF FIT	01-JUL-22
778507	JWO	SAURABH CHAKRABORTY	AF FIT	01-JUL-22
778508	JWO	SRIPRAKASH SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778509	JWO	SANJEEV KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778517	JWO	VINAY KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778525	JWO	SANJEEV JHA	AF FIT	01-JUL-22

778531	JWO	LALIT NARAYAN	AF FIT	01-JUL-22
778533	JWO	PARIKSHIT MAHATO	AF FIT	01-JUL-22
778534	JWO	JITENDRA KUMAR YADAVA	AF FIT	01-JUL-22
778540	JWO	BIKASH KUMAR BHATTACHARJEE	AF FIT	01-JUL-22
778543	JWO	DINESH CHANDRA JOSHI	AF FIT	01-JUL-22
778548	JWO	LAKSHMANA RAO RELLI	AF FIT	01-JUL-22
778553	JWO	ABHILASH T NAIR	AF FIT	01-JUL-22
778555	JWO	DHANANJAY KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778556	JWO	RAJ KUMAR SHARMA	AF FIT	01-JUL-22
778558	JWO	JADHAV VAIBHAV DHARMAJI	AF FIT	01-JUL-22
778559	JWO	PINKOO SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778562	JWO	KAUSHALENDRA SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778563	JWO	BAIJ NATH PAL	AF FIT	01-JUL-22
778564	JWO	NIRAJ KUMAR SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778567	JWO	PURAN CHANDRA	AF FIT	01-JUL-22
778579	JWO	OKRAM RABICHANDRA SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778580	JWO	MUKESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778584	JWO	MUKESH KUMAR RAWAT	AF FIT	01-JUL-22
778585	JWO	DEBASISH SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778587	JWO	PAWAN KUMAR SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778588	JWO	DEEPAK SINGH SENGAR	AF FIT	01-JUL-22
778592	JWO	KHALIQUR RAHAMAN ANSARI	AF FIT	01-JUL-22
778598	JWO	NITISH SATHYAN	AF FIT	01-JUL-22
778601	JWO	PREMNATH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778621	JWO	SHIREESH BAJPAYEE	AF FIT	01-JUL-22
778628	JWO	ADESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778635	JWO	JEEVAN KUMAR NADAGANA	AF FIT	01-JUL-22
778638	JWO	KAMLESH KUMAR	AF FIT	01-JUL-22
778639	JWO	RAJESH KUMAR SINGH	AF FIT	01-JUL-22
778649	JWO	RANJIT KUMAR NEMALAPURI	AF FIT	01-JUL-22
778653	JWO	PRAMOD KUMAR VISHWAKARMA	AF FIT	01-JUL-22
778163	JWO	AVINASH GAURAV	AF FIT	01-SEP-22
786276	JWO	DHANI RAM YADAV	AFSO	01-APR-22
786286	JWO	LADU LAL CHANIYA	AFSO	01-APR-22
786287	JWO	SUMIT KUMAR THAKUR	AFSO	01-APR-22
786288	JWO	NEERAJ KUMAR SINGH	AFSO	01-APR-22
786291	JWO	SANDEEP SINGH DALAL	AFSO	01-APR-22
786395	JWO	PRAMOD KUMAR	AFSO	01-APR-22

786407	JWO	DEEPAN SINGH NEGI	AFSO	01-APR-22
786415	JWO	SUJEET KUMAR	AFSO	01-APR-22
786706	JWO	PRADEEP KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786708	JWO	PRABHAKAR KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786711	JWO	DEEPAK KUMAR SAHOO	AFSO	01-JUL-22
786714	JWO	BABLU MAHATO	AFSO	01-JUL-22
786721	JWO	PRAVEEN KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786726	JWO	ABHISHEK KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786733	JWO	SAPTARSHI MUKHERJEE	AFSO	01-JUL-22
786734	JWO	MANEESH TIWARI	AFSO	01-JUL-22
786736	JWO	RUPESH RANJAN	AFSO	01-JUL-22
786748	JWO	SANJAY CHAUDHARY	AFSO	01-JUL-22
786755	JWO	PRABHAT KUMAR RAI	AFSO	01-JUL-22
786756	JWO	GIRISH KR	AFSO	01-JUL-22
786759	JWO	CHANDER MOHAN	AFSO	01-JUL-22
786763	JWO	SOUBHAGYA RANJAN SAHOO	AFSO	01-JUL-22
786764	JWO	SANTOSH KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786765	JWO	RAVI KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786770	JWO	MD TANVIR KHAN	AFSO	01-JUL-22
786787	JWO	YOGENDRA SINGH	AFSO	01-JUL-22
786791	JWO	ALOK KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786792	JWO	JITENDRA NATH SAMAL	AFSO	01-JUL-22
786794	JWO	ALOK KUMAR	AFSO	01-JUL-22
787027	JWO	RAJ KUMAR PRABHAKAR	AFSO	01-JUL-22
787033	JWO	DEEPAK JADAUN	AFSO	01-JUL-22
787035	JWO	PANKAJ KUMAR	AFSO	01-JUL-22
786771	JWO	RAMJI SHARAN BAIDHYA	AFSO	01-AUG-22
787042	JWO	K R RAMACHANDRAN	AFSO	01-AUG-22
786790	JWO	RATAN GIR	AFSO	01-SEP-22
787049	JWO	AMIT KUMAR BAJWAN	AFSO	01-SEP-22
787053	JWO	MUNESH KUMAR	AFSO	01-SEP-22
787058	JWO	S K MISBAUDDIN	AFSO	01-SEP-22
787059	JWO	PRANVEER SINGH NAIN	AFSO	01-SEP-22
787065	JWO	RAKESH KUMAR	AFSO	01-SEP-22
787071	JWO	OM PRAKASH	AFSO	01-SEP-22
787072	JWO	KAMAL KISHOR RAJAK	AFSO	01-SEP-22
787076	JWO	ANISH KUMAR	AFSO	01-SEP-22
787079	JWO	JITENDRA KUMAR	AFSO	01-SEP-22

787083	JWO	DRABESH KUMAR	AFSO	01-SEP-22
787085	JWO	KOUSIK DEY	AFSO	01-SEP-22
787086	JWO	SWARUP MAJUMDER	AFSO	01-SEP-22
787077	JWO	SUNIL KUMAR	AFSO	21-OCT-22
693470	JWO	SATISH KUMAR RAJPUT	CAT ASST	01-JAN-22
692570	JWO	VIRENDER SINGH YADAV	CAT ASST	01-MAY-22
689372	JWO	SUDESH PAL	CAT ASST	01-JUL-22
699447	JWO	MUKESH KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22
700347	JWO	BIJAY KRISHNA PANDEY	CAT ASST	01-JUL-22
720336	JWO	DHARAM DEO YADAV	CAT ASST	01-JUL-22
726468	JWO	MOHD VASEEM	CAT ASST	01-JUL-22
736692	JWO	NARINDER KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22
736693	JWO	ASHOK KUMAR YADAV	CAT ASST	01-JUL-22
738185	JWO	MANOJ KUMAR TYAGI	CAT ASST	01-JUL-22
739793	JWO	SANJAY MISHRA	CAT ASST	01-JUL-22
771326	JWO	SOOJA RAM	CAT ASST	01-JUL-22
771332	JWO	SANJEEV KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22
771949	JWO	PRABHASH KUMAR	CAT ASST	01-JUL-22
771958	JWO	JAY KARAN SINGH BHADAURIA	CAT ASST	01-AUG-22
700244	JWO	AVIJIT GHOSH	CAT ASST	01-SEP-22
739560	JWO	MOHAMMED SAFI ALAM	CAT ASST	01-SEP-22
772581	JWO	NISHIKANTA PANDA	CAT ASST	01-SEP-22
773179	JWO	SREEJITH S R	CAT ASST	01-SEP-22
700820	JWO	BASANTA SAHA	CAT ASST	01-OCT-22
773183	JWO	SANJAY KUMAR	CAT ASST	01-OCT-22
773181	JWO	RAVINDER SINGH	CAT ASST	01-NOV-22
694057	JWO	SHYAM DHAR VERMA	CAT ASST	01-DEC-22
773520	JWO	PARSHURAM SINGH	CAT ASST	01-DEC-22
773363	JWO	DURGA DUTTA HOTA	CLK ACCTS	27-JUN-21
796759	JWO	ANIL KUMAR	CLK ACCTS	01-SEP-21
770470	JWO	MANOJ DHABEKAR	CLK ACCTS	01-FEB-22
701265	JWO	MANOJ KUMAR SAH	CLK ACCTS	01-APR-22
729618	JWO	SANDEEP KUMAR	CLK ACCTS	01-APR-22
737491	JWO	ASHOK KUMAR	CLK ACCTS	01-APR-22
737780	JWO	GAJENDRA SINGH	CLK ACCTS	01-APR-22
770480	JWO	RAMESH CHOUDHARY	CLK ACCTS	01-APR-22
772643	JWO	SHIJU MITTATHULLIMADATHIL FRANCIS	CLK ACCTS	01-APR-22

774889	JWO	BIJAY KUMAR	CLK ACCTS	01-APR-22
795811	JWO	PRAKASH KUMAR	CLK ACCTS	01-APR-22
692860	JWO	SUNIL KUMAR SHUKLA	CLK ACCTS	01-MAY-22
773716	JWO	RAVI KUMAR CHAURASIA	CLK ACCTS	01-MAY-22
738621	JWO	RAMA SHANKAR SINGH	CLK ACCTS	01-JUN-22
771800	JWO	PRADEEP KUMAR MISHRA	CLK ACCTS	01-JUN-22
774900	JWO	ANAND KUMAR	CLK ACCTS	01-JUN-22
692857	JWO	ASHOK KUMAR TRIPATHI	CLK ACCTS	01-JUL-22
694009	JWO	KRISHNA LAL GUPTA	CLK ACCTS	01-JUL-22
694010	JWO	RAM PRAKASH	CLK ACCTS	01-JUL-22
694746	JWO	CHOWDHURY BHASKAR CHANDRA	CLK ACCTS	01-JUL-22
696869	JWO	SHIVENDRA KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
700232	JWO	PANDAB KUMAR SAH	CLK ACCTS	01-JUL-22
703374	JWO	ANIL KUMAR MISRA	CLK ACCTS	01-JUL-22
703657	JWO	NISHCHAL KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-JUL-22
704466	JWO	NITAY PRASAD DAS	CLK ACCTS	01-JUL-22
704679	JWO	SUBHASISH DE	CLK ACCTS	01-JUL-22
726620	JWO	NARINDER KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
726629	JWO	VINOD KUMAR MAKKAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
729669	JWO	DAYA NAND	CLK ACCTS	01-JUL-22
729696	JWO	PREM CHANDRA RAJPUT	CLK ACCTS	01-JUL-22
729717	JWO	NARENDRA CHAND	CLK ACCTS	01-JUL-22
736252	JWO	MAHESH KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
736837	JWO	RAJIV MANDAL	CLK ACCTS	01-JUL-22
736860	JWO	PRADEEP KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
737161	JWO	DINESH PRASAD	CLK ACCTS	01-JUL-22
737788	JWO	RAKESH SUHAG	CLK ACCTS	01-JUL-22
738029	JWO	MUKESH KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
738602	JWO	ANSU LAL	CLK ACCTS	01-JUL-22
738820	JWO	MD ABDUL MANNAN	CLK ACCTS	01-JUL-22
738834	JWO	ANIL KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
739068	JWO	AWADH BIHARI SINGH	CLK ACCTS	01-JUL-22
739431	JWO	RANJEET KUMAR YADAV	CLK ACCTS	01-JUL-22
739442	JWO	SATYAPAL SINGH RAWAT	CLK ACCTS	01-JUL-22
739943	JWO	RAVENDRA SINGH ATTRI	CLK ACCTS	01-JUL-22
739969	JWO	SHAKTI SHARAN SINHA	CLK ACCTS	01-JUL-22
770260	JWO	PRAVENDRA KUMAR BHATI	CLK ACCTS	01-JUL-22
770261	JWO	NARENDRA SINGH CHOUDHARY	CLK ACCTS	01-JUL-22

770458	JWO	BRIJESH NIRWAN	CLK ACCTS	01-JUL-22
770471	JWO	PRAFULLA KUMAR BEHERA	CLK ACCTS	01-JUL-22
770472	JWO	DHRUB KUMAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
770629	JWO	UPENDRA KUMAR DUTTA	CLK ACCTS	01-JUL-22
771118	JWO	SHUBHENDRA KUMAR TRIPATHI	CLK ACCTS	01-JUL-22
771211	JWO	SANJAI KUMAR GUPTA	CLK ACCTS	01-JUL-22
771491	JWO	INDRA PRAKASH	CLK ACCTS	01-JUL-22
771803	JWO	SANTOSH KUMAR KESHRI	CLK ACCTS	01-JUL-22
772108	JWO	MUKESH KUMAR JAIN	CLK ACCTS	01-JUL-22
772110	JWO	BHEENWA RAM MANDAD	CLK ACCTS	01-JUL-22
772749	JWO	PRITAM PANKAR	CLK ACCTS	01-JUL-22
773358	JWO	ANAND KUMAR UPADHYAY	CLK ACCTS	01-JUL-22
773371	JWO	SANDEEP BAJPAI	CLK ACCTS	01-JUL-22
773710	JWO	NEELESH KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-JUL-22
774002	JWO	BIPENDRA RAI	CLK ACCTS	01-JUL-22
774004	JWO	RAJIV KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-JUL-22
704904	JWO	ANIL KUMAR	CLK ACCTS	01-AUG-22
771206	JWO	PANKAJ KUMAR DAS	CLK ACCTS	01-AUG-22
771706	JWO	AJAY KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-AUG-22
771707	JWO	AJAY KUMAR YADAV	CLK ACCTS	01-AUG-22
772027	JWO	VIKAS KUMAR	CLK ACCTS	01-SEP-22
772345	JWO	PRASHANT KUMAR	CLK ACCTS	01-SEP-22
772972	JWO	RAJ KUMAR	CLK ACCTS	01-SEP-22
773249	JWO	SUKIRTY NAUTIYAL	CLK ACCTS	01-SEP-22
773626	JWO	RAJ KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-SEP-22
773630	JWO	MANOJ KUMAR PANDEY	CLK ACCTS	01-SEP-22
773898	JWO	SANJAY KUMAR PRASAD	CLK ACCTS	01-OCT-22
774634	JWO	SUSHANTA KUMAR NAYAK	CLK ACCTS	01-OCT-22
774636	JWO	MUNNA RAM	CLK ACCTS	01-OCT-22
795004	JWO	RANJEET KUMAR YADAV	CLK ACCTS	01-OCT-22
774197	JWO	VIPENDRA KUMAR	CLK ACCTS	01-NOV-22
795012	JWO	BRAJENDRA KUMAR	CLK ACCTS	01-NOV-22
795013	JWO	DEEPAK KUMAR S	CLK ACCTS	01-NOV-22
795015	JWO	SANTOSH KUMAR KHARGA	CLK ACCTS	01-NOV-22
795302	JWO	AJAY KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-NOV-22
795909	JWO	PREM KUMAR	CLK ACCTS	01-NOV-22
795917	JWO	VIJAY KUMAR	CLK ACCTS	01-NOV-22
796174	JWO	DINESH KUMAR CHAUDHARY	CLK ACCTS	01-NOV-22



796475	JWO	OM PRAKASH RAI	CLK ACCTS	01-NOV-22
796650	JWO	SURENDRA KUMAR	CLK ACCTS	01-NOV-22
796766	JWO	DHARMENDRA KUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-NOV-22
797070	JWO	SUNIL KUMAR JOSHI	CLK ACCTS	01-NOV-22
774520	JWO	SANJAY KUMAR OJHA	CLK ACCTS	01-DEC-22
774894	JWO	CHITRANJAN KUMAR	CLK ACCTS	01-DEC-22
797071	JWO	SATBIR BHARDWAJ	CLK ACCTS	01-DEC-22
797082	JWO	SUNIL KUMAR RAI	CLK ACCTS	01-DEC-22
797084	JWO	KUTHURU JAYA KRISHNA	CLK ACCTS	01-DEC-22
900080	JWO	SURENDRA KUMAR SHARMA	CLK ACCTS	01-DEC-22
900087	JWO	JYOTI RANJAN MISHRA	CLK ACCTS	01-DEC-22
900091	JWO	NINGTHOUJAM DEVKUMAR SINGH	CLK ACCTS	01-DEC-22
900098	JWO	SHYAM LATWAL	CLK ACCTS	01-DEC-22
900100	JWO	ANIL KUMAR THAKUR	CLK ACCTS	01-DEC-22
773984	JWO	JITENDRA KUMAR	CLK GD	01-JAN-22
774297	JWO	RAM PRAVESH KUMAR YADAV	CLK GD	01-FEB-22
774530	JWO	KRISHNA KUMAR SHARMA	CLK GD	01-FEB-22
774532	JWO	RAJEEV KUMAR YADAV	CLK GD	01-FEB-22
774550	JWO	SANJAY BARUA	CLK GD	01-FEB-22
774557	JWO	NASHER NIYAZ	CLK GD	01-FEB-22
774559	JWO	MAHESH PANDEY	CLK GD	01-FEB-22
774572	JWO	YOGESH KUMAR JATWAR	CLK GD	01-FEB-22
774584	JWO	RATHEESH D B	CLK GD	01-FEB-22
774927	JWO	RAMESH TIWARI	CLK GD	01-FEB-22
774941	JWO	AJAY KUMAR SINGH	CLK GD	01-FEB-22
774980	JWO	VIKAS KUMAR SINGH	CLK GD	01-FEB-22
795229	JWO	AJAY KOUNDAL	CLK GD	01-FEB-22
795246	JWO	JITENDRA KUMAR GUPTA	CLK GD	01-FEB-22
693912	JWO	MOHAN LAL	CLK GD	01-MAR-22
774280	JWO	SANTOSH TIWARY	CLK GD	01-APR-22
795559	JWO	SANJAY KUMAR	CLK GD	01-APR-22
795566	JWO	AJAY KUMAR	CLK GD	01-APR-22
795605	JWO	DINESH KUMAR	CLK GD	01-APR-22
795842	JWO	VIVEK KUMAR	CLK GD	01-APR-22
796138	JWO	GIRJA SHANKAR JOSHI	CLK GD	01-APR-22
737556	JWO	VERIENDER KUMAR	CLK GD	20-APR-22
796278	JWO	RAJEEV RANJAN	CLK GD	01-MAY-22
796281	JWO	VIVEK VERMA	CLK GD	01-MAY-22

774549	JWO	PRITESH KUMAR SRIVASTVA	CLK GD	01-JUN-22
795221	JWO	SHASHI BHUSHAN SINGH	CLK GD	01-JUN-22
795574	JWO	SUVENDU KUMAR KAR	CLK GD	01-JUN-22
796433	JWO	ROHIT SHARMA	CLK GD	01-JUN-22
796450	JWO	RAKESH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-JUN-22
796461	JWO	ABHISHEK DOGRA	CLK GD	01-JUN-22
796570	JWO	KULDEEP ATTRI	CLK GD	01-JUN-22
796720	JWO	MANISH KUMAR VERMA	CLK GD	01-JUN-22
796724	JWO	LAXMI SHANKAR RAI	CLK GD	01-JUN-22
796738	JWO	P RAJU RATHEESH KUMAR	CLK GD	01-JUN-22
689164	JWO	ANIL KUMAR MANNA	CLK GD	01-JUL-22
725034	JWO	RANVEER SINGH	CLK GD	01-JUL-22
725216	JWO	SANJAY KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
725708	JWO	RAMESH KUMAR SHAW	CLK GD	01-JUL-22
726076	JWO	SAJAL BHATTACHARYYA	CLK GD	01-JUL-22
727397	JWO	BALJIT SHARMA PARASHAR	CLK GD	01-JUL-22
728504	JWO	GAURI SHANKER	CLK GD	01-JUL-22
735179	JWO	CHANDRA KISHOR SHEKHAR	CLK GD	01-JUL-22
736288	JWO	VIJAY KUMAR MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
736598	JWO	ASIT KUMAR GHOSH	CLK GD	01-JUL-22
737254	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	CLK GD	01-JUL-22
737497	JWO	RAJESH KUMAR TIWARI	CLK GD	01-JUL-22
737557	JWO	MUKESH KUMAR RAGHAV	CLK GD	01-JUL-22
737560	JWO	HOSHIAR SINGH YADAV	CLK GD	01-JUL-22
738252	JWO	UJJWAL KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
738263	JWO	PHOOLA RAM	CLK GD	01-JUL-22
739134	JWO	BHULLUR MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
739304	JWO	MANOJ KUMAR MAHTO	CLK GD	01-JUL-22
739500	JWO	VINOD KUMAR VISHVAS	CLK GD	01-JUL-22
739646	JWO	PERKASH PRASAD	CLK GD	01-JUL-22
739672	JWO	ALOK KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
770173	JWO	AMIYA RANJAN NAYAK	CLK GD	01-JUL-22
770209	JWO	PHARSA RAM VISHNOI	CLK GD	01-JUL-22
770397	JWO	JITENDRA	CLK GD	01-JUL-22
770418	JWO	LALIT KUMAR NAYAK	CLK GD	01-JUL-22
770429	JWO	RISHI KUMAR MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
770444	JWO	SONVIR SINGH YADAV	CLK GD	01-JUL-22
770690	JWO	SATWINDER SINGH	CLK GD	01-JUL-22

770695	JWO	RAJNISH RAI	CLK GD	01-JUL-22
770705	JWO	VIJAY KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
770714	JWO	MOHMAD FAYYAZ	CLK GD	01-JUL-22
770935	JWO	RAJESH KUMAR VERMA	CLK GD	01-JUL-22
771132	JWO	AWNEESH KUMAR TRIPATHI	CLK GD	01-JUL-22
771143	JWO	JITENDRA SINGH	CLK GD	01-JUL-22
771155	JWO	RAKESHWAR PRASAD	CLK GD	01-JUL-22
771156	JWO	SHIO KUMAR PRASAD	CLK GD	01-JUL-22
771178	JWO	RAHUL MISHRA	CLK GD	01-JUL-22
771470	JWO	SANJEEV KUMAR PANDEY	CLK GD	01-JUL-22
771477	JWO	PRADEEP KUMAR K	CLK GD	01-JUL-22
771725	JWO	AJMER ALAM	CLK GD	01-JUL-22
771731	JWO	ANIL KUMAR	CLK GD	01-JUL-22
771747	JWO	SHASHI BHUSAN SHARMA	CLK GD	01-JUL-22
772039	JWO	RAKESH YADAV	CLK GD	01-JUL-22
701630	JWO	LAL SINGH	CLK GD	01-AUG-22
726583	JWO	JANARDAN PANDEY	CLK GD	01-AUG-22
729627	JWO	RAM PAL YADAV	CLK GD	01-AUG-22
771169	JWO	MAHENDER KUMAR	CLK GD	01-AUG-22
772056	JWO	VINOD KUMAR	CLK GD	01-AUG-22
772095	JWO	MANOJ KUMAR S I	CLK GD	01-AUG-22
772358	JWO	DINA NATH MANDAL	CLK GD	01-AUG-22
772380	JWO	AMIT KUMAR PATRO	CLK GD	01-AUG-22
772419	JWO	HARA PRASAD MISHRA	CLK GD	01-AUG-22
772428	JWO	BIPIN KUMAR SINGH	CLK GD	01-AUG-22
772685	JWO	SANTOSH KUMAR PANDEY	CLK GD	01-AUG-22
772696	JWO	JIBI P P	CLK GD	01-AUG-22
772708	JWO	SONU VERMA	CLK GD	01-AUG-22
772716	JWO	RANDHIR SINGH	CLK GD	01-AUG-22
694237	JWO	RAMCHANDRA MANJHI	CLK GD	01-SEP-22
700665	JWO	SOMESH CHANDRA DEY	CLK GD	01-SEP-22
771737	JWO	SATYAENDRA KUMAR SINGH	CLK GD	01-SEP-22
773022	JWO	RANJEET KUMAR	CLK GD	01-SEP-22
693975	JWO	NIRANJAN SINGH	CLK GD	01-OCT-22
700457	JWO	GOPAL LAL YADAV	CLK GD	01-OCT-22
739511	JWO	BIJU MOHAMMED KHANI NABEEZA	CLK GD	01-OCT-22
773057	JWO	PAWAN KUMAR	CLK GD	01-OCT-22
773274	JWO	ABHISHEK PORWAL	CLK GD	01-OCT-22

773289	JWO	RAKESH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-OCT-22
773330	JWO	SANJIB KUMAR SATAPATHY	CLK GD	01-OCT-22
773335	JWO	SATYANARAIN YADAV	CLK GD	01-OCT-22
773637	JWO	BIKAU MAHTO	CLK GD	01-OCT-22
773644	JWO	KAMLESH KUMAR	CLK GD	01-OCT-22
773652	JWO	RUPESH PANDIT	CLK GD	01-OCT-22
773679	JWO	DHRUVA KUMAR MISHRA	CLK GD	01-OCT-22
773690	JWO	KUMAR PREM	CLK GD	01-OCT-22
773940	JWO	V RAVI SHANKAR	CLK GD	01-OCT-22
773949	JWO	DIPANKAR BISWAS	CLK GD	01-OCT-22
773952	JWO	SAMAR KUMAR	CLK GD	01-NOV-22
773986	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	CLK GD	01-NOV-22
773992	JWO	VINOD KUMAR SAH	CLK GD	01-NOV-22
774221	JWO	RAVI SHANKAR MISHRA	CLK GD	01-NOV-22
774228	JWO	VINAY KUMAR RAI	CLK GD	01-NOV-22
774253	JWO	AJAI KUMAR CHAUDHUR	CLK GD	01-NOV-22
774288	JWO	YOGESH KUMAR	CLK GD	01-NOV-22
774289	JWO	NARAYAN CHANDRA SAHA	CLK GD	01-NOV-22
774536	JWO	RITESH PANWAR	CLK GD	01-NOV-22
774539	JWO	SURENDER SINGH	CLK GD	01-NOV-22
774551	JWO	VIJAY KR GANDHI	CLK GD	01-NOV-22
774554	JWO	GOUTAM BISWAS	CLK GD	01-NOV-22
693724	JWO	SUNIL KUMAR SHARMA	CLK GD	01-DEC-22
694791	JWO	SUDHIR KUMAR SINGH	CLK GD	01-DEC-22
774570	JWO	KANHAIYA KUMAR	CLK GD	01-DEC-22
774594	JWO	SHAILESH KUMAR	CLK GD	01-DEC-22
774595	JWO	SUDHANSHU KUMAR	CLK GD	01-DEC-22
774926	JWO	RAJEEV SINGH CHOUHAN	CLK GD	01-DEC-22
774984	JWO	RAJIV RANJAN MISHRA	CLK GD	01-DEC-22
774985	JWO	ARUN KUMAR SINGH	CLK GD	01-DEC-22
774987	JWO	RAM KRISHNA GOKHLE	CLK GD	01-DEC-22
795272	JWO	RAJESH KUMAR SINGH	CLK GD	01-DEC-22
792929	JWO	VISHAL SINGH	CRYPTO	01-JAN-22
793598	JWO	ARUN LAL	CRYPTO	01-JAN-22
793681	JWO	VIJAY PRAKASH	CRYPTO	01-JAN-22
903927	JWO	MALI GIRISH DHRUPAD	CRYPTO	01-JAN-22
904280	JWO	RAJEEV KUMAR	CRYPTO	01-JAN-22
915349	JWO	SATYENDER TYAGI	CRYPTO	01-JAN-22

792394	JWO	DEVESH TRIPATHI	CRYPTO	01-APR-22
792917	JWO	SACHIN KUMAR SHARMA	CRYPTO	01-APR-22
792925	JWO	KALIM INDAL SHEIKH	CRYPTO	01-JUL-22
792970	JWO	NEERAJ YADAV	CRYPTO	01-JUL-22
793244	JWO	PINNA OBULESH	CRYPTO	01-JUL-22
793590	JWO	SHAKATI KUMAR	CRYPTO	01-JUL-22
793677	JWO	SUVEER VERMA	CRYPTO	01-JUL-22
902224	JWO	SUNIL KUMAR	CRYPTO	01-JUL-22
902272	JWO	JEETENDRA KUMAR	CRYPTO	01-JUL-22
902301	JWO	DHANESH KUMAR PRAJAPAT	CRYPTO	01-JUL-22
793604	JWO	VINEET KUMAR	CRYPTO	01-SEP-22
794170	JWO	BHOMA RAM	CRYPTO	01-SEP-22
903297	JWO	RAJESH KUMAR	CRYPTO	01-SEP-22
903819	JWO	MUKESH KUMAR	CRYPTO	01-SEP-22
793595	JWO	SANDEEP KUMAR	CRYPTO	01-OCT-22
793621	JWO	MUL CHAND KUMAR	CRYPTO	01-OCT-22
793702	JWO	ANSHUL KUMAR GUPTA	CRYPTO	01-OCT-22
794077	JWO	JAWED HUSSAIN RABBANI	CRYPTO	01-NOV-22
794088	JWO	SAFIK AHMAD	CRYPTO	01-NOV-22
794119	JWO	DILIP KUMAR	CRYPTO	01-NOV-22
794140	JWO	RAKESH PANWAR	CRYPTO	01-DEC-22
794889	JWO	RAJAN SAMBYAL	CRYPTO	01-DEC-22
784797	JWO	RAMSHARAN KUMAR CHANCHAL	EDN INSTR	01-JUL-22
794809	JWO	VIKRAM RAMDAS DHAPADE	EDN INSTR	01-JUL-22
902812	JWO	TARAK NATH SADHU	EDN INSTR	01-JUL-22
904688	JWO	AVINASH	EDN INSTR	01-JUL-22
907233	JWO	SANDEEP RAJ	EDN INSTR	01-JUL-22
916855	JWO	VIKASH KUMAR RAY	EDN INSTR	01-JUL-22
921962	JWO	CHANDAN KUMAR	EDN INSTR	01-JUL-22
970488	JWO	MICHAEL DAS	EDN INSTR	01-JUL-22
970489	JWO	AMAR REZA	EDN INSTR	01-JUL-22
970490	JWO	SANDIP ROY	EDN INSTR	01-JUL-22
970491	JWO	DATTATREYA BHADURY	EDN INSTR	01-JUL-22
970492	JWO	ANIMESH DAS	EDN INSTR	01-JUL-22
970493	JWO	SUBHANKAR MITRA	EDN INSTR	01-JUL-22
970494	JWO	JOY GOSWAMI	EDN INSTR	01-JUL-22
970495	JWO	MIR RIAZUDDIN	EDN INSTR	01-JUL-22
970496	JWO	DIPANKAR GAIN	EDN INSTR	01-JUL-22

970497	JWO	DHRUBAJYOTI ROY	EDN INSTR	01-JUL-22
970498	JWO	AMULYA JANA	EDN INSTR	01-JUL-22
970499	JWO	MAHESH SHIVANAND HIREMATH	EDN INSTR	01-JUL-22
970500	JWO	BIPLOB BISWAS	EDN INSTR	01-JUL-22
798450	JWO	SUDHIR SINGH	ELECT FIT	01-JUL-22
798454	JWO	RAM TUVEKYA PANDEY	ELECT FIT	01-JUL-22
798455	JWO	BIMLESH KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798462	JWO	ANADHI KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798467	JWO	KRISHAN DUTT	ELECT FIT	01-JUL-22
798468	JWO	AJAY KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798472	JWO	RAKESH TIWARY	ELECT FIT	01-JUL-22
798857	JWO	RAJU KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798859	JWO	ARVIND KUMAR PANDEY	ELECT FIT	01-JUL-22
798865	JWO	UMESH PRASAD	ELECT FIT	01-JUL-22
798873	JWO	CHANDAN KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798880	JWO	VIVEK NEGI	ELECT FIT	01-JUL-22
798885	JWO	MANISH KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798888	JWO	PREM RANJAN KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798892	JWO	MANOJ KUMAR RATHOURE	ELECT FIT	01-JUL-22
798894	JWO	ALOK KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798896	JWO	UPENDRA KUMAR	ELECT FIT	01-JUL-22
798903	JWO	SANTOSH KUMAR CHAURASIYA	ELECT FIT	01-JUL-22
798909	JWO	SHATRUGHAN PRASAD	ELECT FIT	01-JUL-22
799371	JWO	RAJ MOHAN KUMAR PANDEY	ELECT FIT	01-JUL-22
799374	JWO	BUDHI RAM SINGH	ELECT FIT	01-JUL-22
798476	JWO	OM PRAKASH BABALU	ELECT FIT	01-AUG-22
777599	JWO	SHAILENDRA KUMAR	ENG FIT	01-JUL-21
778190	JWO	PANKAJ KUMAR RAI	ENG FIT	01-JUL-22
778196	JWO	RAJESH KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778204	JWO	DAVINDER KAUSHIK	ENG FIT	01-JUL-22
778218	JWO	KRISHNA DEO PRASAD	ENG FIT	01-JUL-22
778219	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778222	JWO	AMITESH KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778233	JWO	TARKESHWAR SHARMA	ENG FIT	01-JUL-22
778246	JWO	RAMAKANT SHARMA	ENG FIT	01-JUL-22
778249	JWO	KRISHNA MURARI MISHRA	ENG FIT	01-JUL-22
778254	JWO	JAGRAJ SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778255	JWO	NIRAJ KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22

778259	JWO	RANJEET KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778260	JWO	MANISH KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778261	JWO	MANOJ KUMAR YADAV	ENG FIT	01-JUL-22
778262	JWO	NIRAJ KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778265	JWO	T A N MURTHY BODDETI	ENG FIT	01-JUL-22
778272	JWO	AMBRISH KUMAR TIWARI	ENG FIT	01-JUL-22
778278	JWO	DHANANJAY KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778280	JWO	RAJ KUMAR RAJESH	ENG FIT	01-JUL-22
778282	JWO	ADITYA KUMAR PANDEY	ENG FIT	01-JUL-22
778288	JWO	SAKALESH KUMAR SUMAN	ENG FIT	01-JUL-22
778294	JWO	DINESH KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778295	JWO	VALLURI SAM KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778661	JWO	RANA PRATAP SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778681	JWO	UDAY PRATAP SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778682	JWO	BRAJESH	ENG FIT	01-JUL-22
778691	JWO	ABHISHEK KUMAR SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778695	JWO	SHAKIR ALI	ENG FIT	01-JUL-22
778700	JWO	PRAHALAD TIWARI	ENG FIT	01-JUL-22
778712	JWO	SATISH KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778720	JWO	SRINU KOTINI	ENG FIT	01-JUL-22
778724	JWO	RAJIV KUMAR SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778738	JWO	KRISHNA CHANDRA KOLA	ENG FIT	01-JUL-22
778741	JWO	PRADEEP PRASAD	ENG FIT	01-JUL-22
778742	JWO	TRILOK SINGH AIRI	ENG FIT	01-JUL-22
778745	JWO	M LOKESH	ENG FIT	01-JUL-22
778754	JWO	RAJENDER YADAV	ENG FIT	01-JUL-22
778755	JWO	KESHAW KANT	ENG FIT	01-JUL-22
778756	JWO	SANJAY KUMAR GUPTA	ENG FIT	01-JUL-22
778758	JWO	DANGE SANGRAM TUKARAM	ENG FIT	01-JUL-22
778765	JWO	MANOJ KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778768	JWO	ASHOK KUMAR GAYALI	ENG FIT	01-JUL-22
778771	JWO	VISHNU GOPAN K G	ENG FIT	01-JUL-22
778772	JWO	RAJVERDHAN SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778775	JWO	SHAILENDRA KUMAR	ENG FIT	01-JUL-22
778777	JWO	AMRESH KUMAR SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778780	JWO	VIKASH SINGH	ENG FIT	01-JUL-22
778263	JWO	PUNYATMA PATHAK	ENG FIT	01-AUG-22
778785	JWO	SURESH KUMAR	ENG FIT	01-AUG-22

737664	JWO	RAJ NARAYAN SHUKLA	EQPT ASST	01-JUL-21
774353	JWO	RAMESH CHANDER	EQPT ASST	01-AUG-21
693559	JWO	GAURI SHANKER JHA	EQPT ASST	01-JAN-22
795312	JWO	SHAMBHU KUMAR JHA	EQPT ASST	01-JAN-22
795339	JWO	RANJEET KUMAR	EQPT ASST	01-JAN-22
795345	JWO	UPENDRA ROY	EQPT ASST	01-JAN-22
795354	JWO	NIRAJ KUMAR	EQPT ASST	01-JAN-22
795356	JWO	RAMAN MAHAPATRA	EQPT ASST	01-JAN-22
795657	JWO	PRAMOD KUMAR	EQPT ASST	01-JAN-22
693648	JWO	DARSHAN SINGH	EQPT ASST	01-FEB-22
795664	JWO	SATENDRA KUMAR	EQPT ASST	01-FEB-22
795671	JWO	ANUJ KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-FEB-22
795689	JWO	RANDHIR KUMAR	EQPT ASST	01-FEB-22
795690	JWO	RAKESH RANJAN	EQPT ASST	01-FEB-22
795925	JWO	VIJAY KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-FEB-22
795961	JWO	RAJESH K	EQPT ASST	01-FEB-22
795965	JWO	DHARMENDRA KUMAR DHIRAJ	EQPT ASST	01-FEB-22
795972	JWO	CHANDRA SEKHAR SENAPATI	EQPT ASST	01-FEB-22
796191	JWO	SATYARTH MISHRA	EQPT ASST	01-FEB-22
796200	JWO	VIKRAM KUMAR RAY	EQPT ASST	01-FEB-22
796338	JWO	NEELI VENKAT SHIVA KUMAR	EQPT ASST	01-FEB-22
796486	JWO	SATYA RANJAN	EQPT ASST	01-FEB-22
796490	JWO	AJEESH T	EQPT ASST	01-MAR-22
796601	JWO	MAHESH KUMAR	EQPT ASST	01-MAR-22
796775	JWO	DILIP KUMAR	EQPT ASST	01-MAR-22
739753	JWO	DHARAM PAL	EQPT ASST	01-APR-22
770759	JWO	RAJESH S	EQPT ASST	01-APR-22
771232	JWO	MUZAFFAR KHAN	EQPT ASST	01-APR-22
772765	JWO	SANJAY KUMAR	EQPT ASST	01-APR-22
771233	JWO	VEER SINGH	EQPT ASST	01-JUN-22
773405	JWO	AWANINDRA GOSWAMI	EQPT ASST	01-JUN-22
774339	JWO	BALRAJ SINGH	EQPT ASST	01-JUN-22
795333	JWO	UMESH KUMAR OJHA	EQPT ASST	01-JUN-22
795379	JWO	AJAY KUMAR YADAV	EQPT ASST	01-JUN-22
795983	JWO	KUNDAN KUMAR	EQPT ASST	01-JUN-22
693764	JWO	JAI GOVIND SHUKLA	EQPT ASST	01-JUL-22
700884	JWO	RATAN KUMAR BISWAL	EQPT ASST	01-JUL-22
703155	JWO	BHAGWAN DASS SHARMA	EQPT ASST	01-JUL-22



703168	JWO	NARESH KUMAR ANTIL	EQPT ASST	01-JUL-22
725173	JWO	RAM DAYAL SAH	EQPT ASST	01-JUL-22
725580	JWO	KARNAIL SINGH CHAUDHARY	EQPT ASST	01-JUL-22
725715	JWO	SUBHENDU MUKHOPADHYAY	EQPT ASST	01-JUL-22
725721	JWO	SURENDRA KUMAR BHARATI	EQPT ASST	01-JUL-22
725950	JWO	AQEEQ AHMAD	EQPT ASST	01-JUL-22
727586	JWO	RAN SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
727675	JWO	MANOJ KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
727838	JWO	JYOTIRESHWAR PRASAD SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
728335	JWO	KAMAL THAKUR	EQPT ASST	01-JUL-22
728483	JWO	CHANDI PAL	EQPT ASST	01-JUL-22
728501	JWO	YUDHVIR SINGH DESWAL	EQPT ASST	01-JUL-22
729499	JWO	GIRJA SHANKAR	EQPT ASST	01-JUL-22
735145	JWO	JAGDISH CHANDER	EQPT ASST	01-JUL-22
737264	JWO	SATISH CHANDRA OJHA	EQPT ASST	01-JUL-22
737588	JWO	ASHOK KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
737663	JWO	SUSHIL KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
738152	JWO	BIRBAL SINGH PUNDIR	EQPT ASST	01-JUL-22
738495	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
738521	JWO	TRIBHUWAN PANT	EQPT ASST	01-JUL-22
738525	JWO	PRABUDDHA KUMAR BISWAS	EQPT ASST	01-JUL-22
738536	JWO	RAJESH KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-JUL-22
739782	JWO	LALAN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
739999	JWO	JAWAHAR LAL SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
770053	JWO	BISHWAJEET KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
770059	JWO	SANJIV KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
770332	JWO	SATYA BHAN SINGH NARUKA	EQPT ASST	01-JUL-22
770487	JWO	KAMLESH KUMAR RAI	EQPT ASST	01-JUL-22
770501	JWO	BHUAL KR THAKUR	EQPT ASST	01-JUL-22
770519	JWO	PRABIN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
770743	JWO	SHARAD KUMAR NIRMAL	EQPT ASST	01-JUL-22
770749	JWO	MANMOHAN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
770760	JWO	INDRAJIT PANDEY	EQPT ASST	01-JUL-22
771016	JWO	GANESH PRASAD SAHOO	EQPT ASST	01-JUL-22
771028	JWO	KISHAN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
771234	JWO	DHARMINDER SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
771833	JWO	BODAN LAL SHARMA	EQPT ASST	01-JUL-22
771881	JWO	AVISHEK KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22

771895	JWO	RAJ KUMAR TRIVEDI	EQPT ASST	01-JUL-22
772136	JWO	SUBHASH CHANDRA SHARMA	EQPT ASST	01-JUL-22
772193	JWO	SUDHEESH KUMAR V P	EQPT ASST	01-JUL-22
772200	JWO	BABLU TIWARI	EQPT ASST	01-JUL-22
772482	JWO	MURARI BHAGAT	EQPT ASST	01-JUL-22
772496	JWO	KULDEEP	EQPT ASST	01-JUL-22
772542	JWO	ARUN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
772773	JWO	MUKESH KUMAR BADOLA	EQPT ASST	01-JUL-22
772807	JWO	SHAIK ATHAVUL RAHIMAN	EQPT ASST	01-JUL-22
773097	JWO	BINAY KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
773101	JWO	SACHIN KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
773110	JWO	KALYAN GUPTA	EQPT ASST	01-JUL-22
773116	JWO	MD ABDUL AHED	EQPT ASST	01-JUL-22
773121	JWO	MRINMOY GOSWAMI	EQPT ASST	01-JUL-22
773384	JWO	NARENDRA NARAYAN SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
773401	JWO	VINOD KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
773463	JWO	LAL BABU PRASAD	EQPT ASST	01-JUL-22
773727	JWO	RAMESH KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
773740	JWO	AJIT KUMAR JHA	EQPT ASST	01-JUL-22
773749	JWO	ARVIND KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
773750	JWO	SARDAR AKHTER	EQPT ASST	01-JUL-22
774022	JWO	RATNESH KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
774032	JWO	ANIL KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-JUL-22
774055	JWO	MUKUL BIST	EQPT ASST	01-JUL-22
774057	JWO	BINAY KUMAR OJHA	EQPT ASST	01-JUL-22
774061	JWO	SANJEEV KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
774330	JWO	LALAN PRASAD RAY	EQPT ASST	01-JUL-22
774354	JWO	LOKESH KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
795979	JWO	ABINASH KUMAR	EQPT ASST	01-JUL-22
737281	JWO	VIVEKANAND PATHAK	EQPT ASST	01-AUG-22
770063	JWO	SHASHI BUSHAN MISHRA	EQPT ASST	01-AUG-22
770988	JWO	DIGVIJAY SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
771261	JWO	ASHISH PAL	EQPT ASST	01-AUG-22
772174	JWO	S ARIVAZHAGAN	EQPT ASST	01-AUG-22
772811	JWO	RAJESH KUMAR PANKAJ	EQPT ASST	01-AUG-22
773073	JWO	PRASHANT KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
773742	JWO	RANJAN KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
774671	JWO	SUBHOJEET MUKHERJEE	EQPT ASST	01-AUG-22

774684	JWO	OM PRAKASH TIWARY	EQPT ASST	01-AUG-22
774685	JWO	ROSHAN KUMAR	EQPT ASST	01-AUG-22
774688	JWO	PREM CHANDRA CHAUDHARY	EQPT ASST	01-AUG-22
774719	JWO	JAY PRAKASH SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
795047	JWO	SANTOSH KUMAR	EQPT ASST	01-AUG-22
795062	JWO	PRAVAT KUMAR	EQPT ASST	01-AUG-22
795064	JWO	KAMLESH KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-AUG-22
795085	JWO	PRABHU DAYAL PRASAD	EQPT ASST	01-AUG-22
694815	JWO	KAUSHAL SINGH	EQPT ASST	01-OCT-22
736668	JWO	SATYA PRAKASH GOSWAMI	EQPT ASST	01-OCT-22
795341	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-OCT-22
795344	JWO	RAJ KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-OCT-22
795353	JWO	MD SARFRAZ AHSAN	EQPT ASST	01-OCT-22
795386	JWO	VIJAY KUMAR SHARMA	EQPT ASST	01-OCT-22
795667	JWO	LOUREMBAM KANTA SINGH	EQPT ASST	01-OCT-22
738994	JWO	RAM MURAT YADAV	EQPT ASST	01-NOV-22
795928	JWO	AJIT SAMANT SHIRU	EQPT ASST	01-NOV-22
796203	JWO	BINOD KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-NOV-22
796211	JWO	SUDHANSHU KUMAR	EQPT ASST	01-NOV-22
796494	JWO	MOHD ALTAF	EQPT ASST	01-NOV-22
796609	JWO	AMOD KUMAR	EQPT ASST	01-NOV-22
796792	JWO	VIJAY TIWARI	EQPT ASST	01-NOV-22
796798	JWO	RAHUL KUMAR	EQPT ASST	01-NOV-22
796805	JWO	ASHOK KUMAR THAKUR	EQPT ASST	01-NOV-22
797101	JWO	SUDHIR KUMAR DIXIT	EQPT ASST	01-NOV-22
797104	JWO	RAKESH KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-NOV-22
797111	JWO	AJIT KUMAR SHRIVASTAVA	EQPT ASST	01-NOV-22
797121	JWO	SHASHI BHUSHAN MISHRA	EQPT ASST	01-NOV-22
797103	JWO	JAI DEV SINGH	EQPT ASST	01-DEC-22
797132	JWO	HARISH KAUSHIK	EQPT ASST	01-DEC-22
797145	JWO	P K PRAFUL	EQPT ASST	01-DEC-22
797154	JWO	ANIL KUMAR SAINI	EQPT ASST	01-DEC-22
797160	JWO	ALOK UTTAM	EQPT ASST	01-DEC-22
797171	JWO	SANTOSH DUBEY	EQPT ASST	01-DEC-22
797179	JWO	SAMIR RANJAN NATH	EQPT ASST	01-DEC-22
797220	JWO	SANJAY SINGH KUSHWAHA	EQPT ASST	01-DEC-22
797227	JWO	ANIL KUMAR SINGH	EQPT ASST	01-DEC-22
797249	JWO	MANOJ SINGH	EQPT ASST	01-DEC-22

918672	JWO	POKHAR MAL SAMOTA	ESSA	01-JUL-22
935588	JWO	DEEPAK KUMAR	ESSA	01-JUL-22
914384	JWO	SONU KUMAR	FLT ENG	01-FEB-22
779231	JWO	UPENDRA DUBEY	FLT ENG	01-APR-22
914474	JWO	ROHIT KUMAR	FLT ENG	01-APR-22
914041	JWO	PREMJEET KUMAR	FLT ENG	01-JUL-22
914235	JWO	JAGESH KUMAR	FLT ENG	01-JUL-22
914853	JWO	RAJESH RANJAN	FLT ENG	01-JUL-22
914866	JWO	DEEPAK MISHRA	FLT ENG	01-JUL-22
930700	JWO	UTPAL BORAH	FLT ENG	01-JUL-22
931095	JWO	YOGESH KUMAR	FLT ENG	01-JUL-22
932577	JWO	MANOJ KUMAR	FLT ENG	01-JUL-22
931110	JWO	AVNEESH KUMAR	FLT ENG	01-SEP-22
930461	JWO	BHUSHAN KUMAR	FLT GUN	01-JAN-22
914637	JWO	ANOOP	FLT GUN	01-APR-22
779744	JWO	CHANDAN KUMAR SINHA	FLT GUN	01-JUL-22
913559	JWO	ABHISHEK KUMAR SRIVASTAV	FLT GUN	01-JUL-22
930535	JWO	JAYESH KV	FLT GUN	01-JUL-22
932645	JWO	ANOOP SHARMA	FLT GUN	01-NOV-22
901373	JWO	GOWTHAM KUMAR GHOSE	GTI	01-APR-22
902698	JWO	ANEESH MENON	GTI	01-APR-22
900397	JWO	VINOD KUMAR VERMA	GTI	01-JUL-22
900398	JWO	LAKSHUMAN SINGH	GTI	01-JUL-22
900400	JWO	KULDEEP SINGH YADAV	GTI	01-JUL-22
900401	JWO	RANJAY KUMAR SINGH	GTI	01-JUL-22
902968	JWO	RATNESH RAJ	GTI	01-JUL-22
902969	JWO	NIHAR RANJAN MOHAPATRA	GTI	01-AUG-22
902971	JWO	AKHILESHWAR MISHRA	GTI	01-AUG-22
903667	JWO	VIJAY YADAV	GTI	01-AUG-22
903677	JWO	MOHAN	GTI	01-SEP-22
903682	JWO	PANKAJ JOSHI	GTI	01-SEP-22
903683	JWO	S SHIVAKUMAR	GTI	01-NOV-22
903690	JWO	PANKAJ KANDPAL	GTI	01-NOV-22
903695	JWO	RAVI SHANKAR JOSHI	GTI	01-NOV-22
903716	JWO	SANTOSH KUMAR YETCHERLA	GTI	01-NOV-22
903671	JWO	MD WAHIDUR RAHMAN	GTI	01-DEC-22
774445	JWO	SATISH KUMAR RAMBHU	IAF (P)	01-JUL-21
796828	JWO	RAJESH KUMAR SINGH	IAF (P)	01-NOV-21

771594	JWO	SAPTARSHI SENGUPTA	IAF (P)	01-APR-22
774125	JWO	ABHIMANYU CHAUHAN	IAF (P)	01-APR-22
774764	JWO	VINOD ANANDAN	IAF (P)	01-APR-22
795130	JWO	AJAI SINGH	IAF (P)	01-APR-22
796239	JWO	ANIL KUMAR	IAF (P)	01-APR-22
796390	JWO	SHASHANK SHEKHAR SINGH	IAF (P)	01-APR-22
796535	JWO	ARUN K P	IAF (P)	01-APR-22
796636	JWO	MANOJ KUMAR CHAUHAN	IAF (P)	01-APR-22
796637	JWO	SACHIN KUMAR JHA	IAF (P)	01-APR-22
737398	JWO	BIJAY PRASAD JAISWAL	IAF (P)	01-JUN-22
795446	JWO	RAKESH KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUN-22
796817	JWO	ANOOP KUMAR BAJPAI	IAF (P)	01-JUN-22
796830	JWO	RAKESH KUMAR	IAF (P)	01-JUN-22
736464	JWO	SETENDER SINGH BHASIN	IAF (P)	01-JUL-22
737055	JWO	MANOJ KUMAR PURI	IAF (P)	01-JUL-22
771590	JWO	RAJESH POOKKAT	IAF (P)	01-JUL-22
771607	JWO	ROHIT KOPANI	IAF (P)	01-JUL-22
771928	JWO	BIBHUTI KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
771935	JWO	MANOJ KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
772546	JWO	BRIJESH KUMAR MISHRA	IAF (P)	01-JUL-22
772569	JWO	OM PRAKASH BISHNOI	IAF (P)	01-JUL-22
773151	JWO	BALJINDER SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
773803	JWO	DEEPAK KUMAR YADAV	IAF (P)	01-JUL-22
773821	JWO	ANIL KUMAR PANDEY	IAF (P)	01-JUL-22
774452	JWO	JAYANT KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
774781	JWO	MANTOSH KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
795763	JWO	ARUN KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
796053	JWO	RONI MATHEW	IAF (P)	01-JUL-22
796370	JWO	MADAN LAL	IAF (P)	01-JUL-22
796389	JWO	GURMANSITAL SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
796645	JWO	DHARMENDRA SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
796648	JWO	AKHILESH KUMAR PANDEY	IAF (P)	01-JUL-22
797262	JWO	JAYANT KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22
797271	JWO	ARUN KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
797272	JWO	SACHEEN KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
797273	JWO	MITU SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
797285	JWO	PANKAJ KUMAR SINGH	IAF (P)	01-JUL-22
797290	JWO	VIJAY KUMAR	IAF (P)	01-JUL-22

797291	JWO	JITENRA YADAW	IAF (P)	01-JUL-22
703964	JWO	JAYANTA DAS	IAF (P)	01-AUG-22
797277	JWO	AJIT MISHRA	IAF (P)	01-AUG-22
797304	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	IAF (P)	01-AUG-22
797314	JWO	SANTOSH KUMAR GUPTA	IAF (P)	01-AUG-22
797318	JWO	SATYAM TIWARI	IAF (P)	01-AUG-22
797295	JWO	ASHISH KUMAR	IAF (P)	01-SEP-22
900250	JWO	RANJEET KUMAR TRIPATHI	IAF (P)	01-SEP-22
900251	JWO	KAMAL KUMAR TRIPATHI	IAF (P)	01-SEP-22
900256	JWO	DHANANJAY KUMAR PANDEY	IAF (P)	01-SEP-22
900282	JWO	A SHAHID	IAF (P)	01-SEP-22
900284	JWO	SANTHOSH KUMAR S	IAF (P)	01-SEP-22
795457	JWO	ASHUTOSH TIWARI	IAF (P)	01-OCT-22
900275	JWO	VIDYANIDHI MISHRA	IAF (P)	01-OCT-22
900388	JWO	BANKA BIHARI PANI	IAF (P)	01-OCT-22
772215	JWO	NAIR VINOD KUMAR VASUDEVAN	IAF (P)	01-NOV-22
797280	JWO	DHARMENDRA KUMAR	IAF (P)	01-NOV-22
900283	JWO	MUDASIR HAMID	IAF (P)	01-NOV-22
900383	JWO	AMIT MISHRA	IAF (P)	01-NOV-22
902871	JWO	INDER DEV	IAF(G)	01-JUL-22
902888	JWO	MANTU KUMAR	IAF(G)	01-JUL-22
904159	JWO	PRABHAKAR PANDEY	IAF(G)	01-JUL-22
904173	JWO	PARDEEP KUMAR	IAF(G)	01-JUL-22
904504	JWO	VIKAS RAGHAV	IAF(G)	01-JUL-22
904514	JWO	DEEPAK KUMAR	IAF(G)	01-JUL-22
905090	JWO	SANJEET	IAF(G)	01-JUL-22
905106	JWO	YOGENDER KUMAR	IAF(G)	01-AUG-22
798262	JWO	TRINATH PRASAD SAMANTARAY	INST FIT	01-JUL-22
798286	JWO	TRILOCHANA SAHOO	INST FIT	01-JUL-22
798490	JWO	PRADEEP KUMAR SINGH	INST FIT	01-JUL-22
798499	JWO	NITESH KUMAR SINHA	INST FIT	01-JUL-22
798508	JWO	SUNIL KUMAR RAY	INST FIT	01-JUL-22
798513	JWO	AVINASH KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798521	JWO	SHASHI RAJ	INST FIT	01-JUL-22
798523	JWO	JAYRAM RAMAM	INST FIT	01-JUL-22
798525	JWO	SHASHANK SHEKHAR SINGH	INST FIT	01-JUL-22
798526	JWO	BIRENDRA KUMAR SINGH	INST FIT	01-JUL-22
798541	JWO	VIVEK CHANDRA	INST FIT	01-JUL-22

798733	JWO	SUJEET KUMAR MISHRA	INST FIT	01-JUL-22
798742	JWO	A RAJARAM	INST FIT	01-JUL-22
798748	JWO	PRADEEP KUMAR DAS	INST FIT	01-JUL-22
798764	JWO	VISHAL KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798782	JWO	HRIDYESH TIWARI	INST FIT	01-JUL-22
798784	JWO	KALPESH KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798786	JWO	RAM JANAM RAM	INST FIT	01-JUL-22
798789	JWO	RAJNEESH KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798795	JWO	DALVEER SINGH	INST FIT	01-JUL-22
798808	JWO	KULDEEP PARASHAR	INST FIT	01-JUL-22
798812	JWO	NIRANJAN KUMAR THAKUR	INST FIT	01-JUL-22
798814	JWO	SATYENDRA KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798817	JWO	AMIT KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798820	JWO	SHRI PRAKASH GUPTA	INST FIT	01-JUL-22
798833	JWO	ANAND KUMAR JHA	INST FIT	01-JUL-22
798835	JWO	MUKESH KUMAR TIWARI	INST FIT	01-JUL-22
798836	JWO	DHANANJAY KUMAR	INST FIT	01-JUL-22
798841	JWO	AMIT KUMAR CHOURASIA	INST FIT	01-JUL-22
798530	JWO	HEMANT HINA	INST FIT	01-AUG-22
798745	JWO	DEO KUMAR SINGH	INST FIT	01-AUG-22
798809	JWO	PANKAJ SINGH CHAUHAN	INST FIT	01-AUG-22
798815	JWO	RAVI PRAKASH PATEL	INST FIT	01-AUG-22
711915	JWO	SOMNATH GHOSH	MED ASST	01-SEP-21
712236	JWO	MOHD ARMAN ANSARI	MED ASST	01-DEC-21
712242	JWO	RAVINDRA SINGH YADAV	MED ASST	01-JAN-22
712244	JWO	UDAY PRATAP SINGH	MED ASST	01-JAN-22
710396	JWO	JASMER SINGH	MED ASST	01-FEB-22
712247	JWO	BABAN KUMAR	MED ASST	01-FEB-22
656454	JWO	SATYA NARAYAN DAS	MED ASST	01-APR-22
656869	JWO	SUBHASH CHAND	MED ASST	01-APR-22
710610	JWO	JIWAN PRAKASH SINGH	MED ASST	01-APR-22
710879	JWO	RABINDRANATH BISWAS	MED ASST	01-APR-22
710938	JWO	MIRTUNAJAY SHARMA	MED ASST	01-APR-22
711916	JWO	RAJESH KUMAR	MED ASST	01-APR-22
712052	JWO	SANTHOSH KUMAR PACHUNAIR PULIYARIL	MED ASST	01-APR-22
712118	JWO	VIJAY KUMAR	MED ASST	01-APR-22
710581	JWO	MUHAMMAD IMRON	MED ASST	01-JUN-22

710678	JWO	RAJAGOPAL K	MED ASST	01-JUN-22
711870	JWO	PANKAJ KUMAR MISHRA	MED ASST	01-JUN-22
656853	JWO	ASHOK KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
656867	JWO	UMED SINGH	MED ASST	01-JUL-22
656969	JWO	RABINDRA NATH GHOSH	MED ASST	01-JUL-22
710088	JWO	BIBEKANANDA CHATTOPADHAYAY	MED ASST	01-JUL-22
710122	JWO	OM PRAKASH TIWARI	MED ASST	01-JUL-22
710123	JWO	KUMAR ARVIND	MED ASST	01-JUL-22
710372	JWO	RAMESH KUMAR SINGH	MED ASST	01-JUL-22
710585	JWO	JAIPRAKASH JAKHMOLA	MED ASST	01-JUL-22
710723	JWO	ASHWANI KUMAR SRIVASTAVA	MED ASST	01-JUL-22
710857	JWO	ANIL KUMAR SINGH	MED ASST	01-JUL-22
710893	JWO	SANJAY PRASAD	MED ASST	01-JUL-22
710913	JWO	SATISH ANAND	MED ASST	01-JUL-22
710953	JWO	MADAN MOHAN SHARMA	MED ASST	01-JUL-22
711058	JWO	BRAHMA LAL SAW	MED ASST	01-JUL-22
711154	JWO	SUDHA SEKHAR PARVATI	MED ASST	01-JUL-22
711208	JWO	GUNDAVELLI VENKATESH	MED ASST	01-JUL-22
711306	JWO	HEMANT KUMAR JHA	MED ASST	01-JUL-22
711440	JWO	SANJEEV KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
711473	JWO	BIJOY PAL NATH	MED ASST	01-JUL-22
711629	JWO	SHAIENDRA KUMAR SINGH	MED ASST	01-JUL-22
711713	JWO	SANJAY KUMAR SRIVASTAVA	MED ASST	01-JUL-22
711764	JWO	GYANENDRA KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
711779	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	MED ASST	01-JUL-22
711795	JWO	TAJDAR ALAM	MED ASST	01-JUL-22
711839	JWO	PRADIP KUMAR SENAPATI	MED ASST	01-JUL-22
711844	JWO	VIJAY SINGH	MED ASST	01-JUL-22
711852	JWO	RAKESH KUMAR SAINI	MED ASST	01-JUL-22
711890	JWO	MANOJ KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
711899	JWO	JAGMAL	MED ASST	01-JUL-22
711938	JWO	PREM MISHRA	MED ASST	01-JUL-22
711941	JWO	GOPAL TANTI	MED ASST	01-JUL-22
712013	JWO	CHANDRA SHEKHAR GUPTA	MED ASST	01-JUL-22
712014	JWO	RAMESH KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
712018	JWO	GANESH SINGH	MED ASST	01-JUL-22
712024	JWO	RAJEEV KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
712061	JWO	TARATE UMESH ANANDA	MED ASST	01-JUL-22



712120	JWO	BHASKAR PATTABHIRAMAN	MED ASST	01-JUL-22
656672	JWO	BIKASH KUMAR RAY	MED ASST	01-AUG-22
656921	JWO	ANIL KUMAR	MED ASST	01-AUG-22
710601	JWO	PURAN SINGH	MED ASST	01-AUG-22
711443	JWO	PARAB DAMODAR CHANDRAKANT	MED ASST	01-AUG-22
712121	JWO	RAMANUJ PRASAD	MED ASST	01-AUG-22
712127	JWO	JACOB GEORGE	MED ASST	01-AUG-22
712150	JWO	SUNEEL KUMAR YADAV	MED ASST	01-AUG-22
712152	JWO	ANUJ KUMAR	MED ASST	01-AUG-22
712166	JWO	DINESH KUMAR SINGH	MED ASST	01-AUG-22
712178	JWO	DIPESH CHAKRABORTY	MED ASST	01-AUG-22
712188	JWO	HITESH KUMAR DWIVEDI	MED ASST	01-AUG-22
711433	JWO	RAMACHANDRAN NAIR VINOD KUMAR	MED ASST	01-OCT-22
712199	JWO	OM PRAKASH SINGH	MED ASST	01-OCT-22
712204	JWO	DHANANJAY KUMAR	MED ASST	01-OCT-22
712205	JWO	SANOJ KUMAR SINGH	MED ASST	01-OCT-22
710786	JWO	TRILOK SINGH	MED ASST	01-NOV-22
712210	JWO	NARESH SINGH	MED ASST	01-NOV-22
712220	JWO	DHARAMENDER	MED ASST	01-NOV-22
712229	JWO	MANJUL DIXIT	MED ASST	01-NOV-22
712235	JWO	ASHOK KUMAR VERMA	MED ASST	01-NOV-22
712238	JWO	KHURSHID ALAM	MED ASST	01-NOV-22
712246	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	MED ASST	01-NOV-22
712252	JWO	BHAGABAN PRADHAN	MED ASST	01-DEC-22
712254	JWO	AKHILESH GIRI	MED ASST	01-DEC-22
786813	JWO	MOHIT KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
786816	JWO	RANJEEV SINGH	MED ASST	01-JUL-22
786817	JWO	SANJEEV KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
786819	JWO	AVISH KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
786820	JWO	KUNDAN SINHA	MED ASST	01-JUL-22
786824	JWO	IBRAHIM KHALEELULLA KHAN	MED ASST	01-JUL-22
786829	JWO	SHEKHAR KUMAR SHARMA	MED ASST	01-JUL-22
786832	JWO	SANJEEV KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
786833	JWO	SHESHNATH TRIPATHI	MED ASST	01-JUL-22
786834	JWO	RAJAN KUMAR	MED ASST	01-JUL-22
786836	JWO	VIVEK CHAUBEY	MED ASST	01-JUL-22
786837	JWO	BANTI MISHRA	MED ASST	01-JUL-22

786838	JWO	RAJESH KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
786839	JWO	SANTOSH KUMAR YADAV	MET ASST	01-JUL-22
786840	JWO	SANAL SS	MET ASST	01-JUL-22
786841	JWO	KAPIL DEO MISHRA	MET ASST	01-JUL-22
786842	JWO	SUNDEEP GUSAI	MET ASST	01-JUL-22
786843	JWO	BIRENDRA KUMAR PANDIT	MET ASST	01-JUL-22
786846	JWO	VIJAY KUMAR SINGH	MET ASST	01-JUL-22
786847	JWO	RAKESH KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
786848	JWO	AJAY KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
786849	JWO	MANISH THAKUR	MET ASST	01-JUL-22
786854	JWO	MANGAL SINGH	MET ASST	01-JUL-22
786855	JWO	SHYAM SINGH PARMAR	MET ASST	01-JUL-22
786856	JWO	CINU K	MET ASST	01-JUL-22
786857	JWO	GULSON KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
786858	JWO	KESHAW KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
786863	JWO	MADAN SINGH	MET ASST	01-JUL-22
786864	JWO	SANJEEV KUMAR PRASAD	MET ASST	01-JUL-22
786869	JWO	RANJAN KUMAR MAURYA	MET ASST	01-JUL-22
786900	JWO	UMESH SINGH G RANA	MET ASST	01-JUL-22
786902	JWO	AMIT PRAKASH	MET ASST	01-JUL-22
787125	JWO	IMAMUDDIN ANSARI	MET ASST	01-JUL-22
787126	JWO	PRASHANT KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
787128	JWO	RAJENDER KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
787130	JWO	RASHEESH KASHYAP	MET ASST	01-JUL-22
787131	JWO	RAKESH RANJAN SINGH	MET ASST	01-JUL-22
787133	JWO	TARUN KUMAR	MET ASST	01-JUL-22
787137	JWO	SATYENDRA KUMAR OJHA	MET ASST	01-JUL-22
787138	JWO	GOPAL KUMAR SAW	MET ASST	01-JUL-22
787139	JWO	ABHAY KUMAR SINGH	MET ASST	01-JUL-22
787143	JWO	AJEET KUMAR DWIVEDI	MET ASST	01-JUL-22
787150	JWO	SOURAV BHADRA	MET ASST	01-JUL-22
787151	JWO	OM PRAKASH YADAV	MET ASST	01-JUL-22
787155	JWO	SUNIL SINGH	MET ASST	01-JUL-22
798375	JWO	ARVIND KUMAR SRIVASTAVA	MS FIT(E)	01-JUL-22
798377	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	MS FIT(E)	01-JUL-22
798383	JWO	AJAY KUMAR VERMA	MS FIT(E)	01-JUL-22
798601	JWO	CHINGANGBAM ROMEN MEETEI	MS FIT(E)	01-JUL-22
798602	JWO	E RAM PRASAD	MS FIT(E)	01-JUL-22

798603	JWO	VIPIN KUMAR	MS FIT(E)	01-JUL-22
798620	JWO	PATIL AMARKUMAR ASHOK	MS FIT(E)	01-JUL-22
798621	JWO	DURGA PRASAD	MS FIT(E)	01-JUL-22
798622	JWO	DHAMAL NILESH VILASRAO	MS FIT(E)	01-JUL-22
798624	JWO	SANTOSH KUMAR	MS FIT(E)	01-JUL-22
798625	JWO	CHANDRAMANI PANDEY	MS FIT(E)	01-JUL-22
798633	JWO	ARUN KUMAR YADAV	MS FIT(E)	01-JUL-22
798636	JWO	MAYENGBAM SANATOMBA SINGH	MS FIT(E)	01-JUL-22
798637	JWO	RAJESH KARKI	MS FIT(E)	01-JUL-22
798639	JWO	VIJAYPAL SINGH	MS FIT(E)	01-JUL-22
798641	JWO	PRADEEP KUMAR SAHU	MS FIT(E)	01-JUL-22
799386	JWO	DESHRAJ SINGH	MS FIT(E)	01-JUL-22
798126	JWO	UMA SHANKAR KAUSHIK	MS FIT(L)	01-JUL-21
798385	JWO	PARDEEP KUMAR	MS FIT(L)	01-JUL-22
798387	JWO	GAJENDRA SINGH	MS FIT(L)	01-JUL-22
798389	JWO	JITENDRA KUMAR JHA	MS FIT(L)	01-JUL-22
798390	JWO	VISHAL TIWARI	MS FIT(L)	01-JUL-22
798392	JWO	UMAKANTA PATRA	MS FIT(L)	01-JUL-22
798395	JWO	VEER SINGH	MS FIT(L)	01-JUL-22
798397	JWO	SURENDRA PRATAP YADAV	MS FIT(L)	01-JUL-22
798408	JWO	VIRENDRA KUMAR	MS FIT(L)	01-JUL-22
798409	JWO	VINOD RAJENDRA NISHAD	MS FIT(L)	01-JUL-22
798412	JWO	PRASHANT CHATURVEDI	MS FIT(L)	01-JUL-22
798413	JWO	RITURAJ	MS FIT(L)	01-JUL-22
798416	JWO	SURENDRA SINGH	MS FIT(L)	01-JUL-22
798417	JWO	MANOJIT SAHA	MS FIT(L)	01-JUL-22
798421	JWO	RITESH ANAND	MS FIT(L)	01-JUL-22
798424	JWO	ATANU PAL	MS FIT(L)	01-JUL-22
798442	JWO	MAHESH PAL PRAJAPATI	MS FIT(L)	01-JUL-22
798446	JWO	HARI PRASAD	MS FIT(L)	01-JUL-22
798447	JWO	DEEPAK KUMAR SHUKLA	MS FIT(L)	01-JUL-22
798643	JWO	G KURMA RAO	MS FIT(L)	01-JUL-22
798645	JWO	RAMA KRISHNA SALADI	MS FIT(L)	01-JUL-22
798652	JWO	AJEET KUMAR SINGH	MS FIT(L)	01-JUL-22
798656	JWO	JYOTIRMOY PALIT	MS FIT(L)	01-JUL-22
798664	JWO	NAWAL KISHORE YADAV	MS FIT(L)	01-JUL-22
798667	JWO	RAVISH KUMAR	MS FIT(L)	01-JUL-22
798673	JWO	AJITH V	MS FIT(L)	01-JUL-22

798674	JWO	PAIDI RAJU YANDAMURI	MS FIT(L)	01-JUL-22
798676	JWO	MULA CHANDRA SEKHARA RAO	MS FIT(L)	01-JUL-22
798683	JWO	THONGLLEN KHAIDEM	MS FIT(L)	01-JUL-22
798685	JWO	CHANDRA KISHOR	MS FIT(L)	01-JUL-22
798686	JWO	HARI BABU MANDALA	MS FIT(L)	01-JUL-22
799359	JWO	MUKESH KUMAR JHA	MS FIT(L)	01-JUL-22
798422	JWO	KUMAR NANDAN	MS FIT(L)	01-AUG-22
798670	JWO	GALLA SYAM PRASAD	MS FIT(L)	01-AUG-22
798647	JWO	DHANRAJ P D	MS FIT(L)	01-OCT-22
797998	JWO	YOGESH KUMAR KAUSHIK	MS FIT(M)	01-JUL-22
798347	JWO	PURAN SINGH KIROULA	MS FIT(M)	01-JUL-22
798351	JWO	NITIN JAIN	MS FIT(M)	01-JUL-22
798354	JWO	HARPREET SINGH	MS FIT(M)	01-JUL-22
798355	JWO	SHIVENDRA TRIPATHI	MS FIT(M)	01-JUL-22
798359	JWO	ABHISHEK JAISWAL	MS FIT(M)	01-JUL-22
798360	JWO	RITURAJ CHANDRA SINHA	MS FIT(M)	01-JUL-22
798361	JWO	NAGENDRA KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798364	JWO	PANKAJ MISHRA	MS FIT(M)	01-JUL-22
798368	JWO	HARIDASU RAVINDRA SWAMY	MS FIT(M)	01-JUL-22
798369	JWO	YOGENDER KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798370	JWO	ASHWANI KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798371	JWO	RAMZAN SHEKH	MS FIT(M)	01-JUL-22
798554	JWO	RAJEEV KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798556	JWO	SREEKANTH M	MS FIT(M)	01-JUL-22
798559	JWO	BAJRANGI LAL	MS FIT(M)	01-JUL-22
798563	JWO	AWANISH KUMAR TIWARI	MS FIT(M)	01-JUL-22
798568	JWO	KAMBATI S SIVA SANKAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798569	JWO	RAKESH KUMAR CHOURASIA	MS FIT(M)	01-JUL-22
798576	JWO	RAJ KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798577	JWO	SREEJESH MS	MS FIT(M)	01-JUL-22
798580	JWO	GIREESH KUMAR MD	MS FIT(M)	01-JUL-22
798588	JWO	ARAVINDH A	MS FIT(M)	01-JUL-22
798594	JWO	AMAR KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
798597	JWO	SREERAJ R	MS FIT(M)	01-JUL-22
798599	JWO	JAY PRAKASH KUMAR	MS FIT(M)	01-JUL-22
781079	JWO	NAGENDRA KUMAR YADAV	MT FIT	01-JUL-21
721969	JWO	NARAIN DUTT	MT FIT	01-FEB-22
782119	JWO	KARTHIK K S	MT FIT	01-APR-22

782120	JWO	JAY PRAKASH NIRALA	MT FIT	01-APR-22
782133	JWO	ANKUR	MT FIT	01-APR-22
782135	JWO	SURESH KUMAR	MT FIT	01-APR-22
782138	JWO	RAVI PRAKASH SINHA	MT FIT	01-APR-22
782152	JWO	AMIT RAJ	MT FIT	01-APR-22
782180	JWO	RAHUL JANGID	MT FIT	01-APR-22
782181	JWO	MITHLESH KUMAR SAINI	MT FIT	01-APR-22
782460	JWO	PRABHAT KUMAR PATTANAİK	MT FIT	01-APR-22
782522	JWO	NEERAJ KUMAR	MT FIT	01-APR-22
782526	JWO	MUKESH SHARMA	MT FIT	01-APR-22
782527	JWO	KUMUD RANJAN KUMAR	MT FIT	01-APR-22
782535	JWO	ASHOK KUMAR DASH	MT FIT	01-APR-22
782542	JWO	PARMINDRA SINGH	MT FIT	01-APR-22
782975	JWO	DINESH VISHWAKARMA	MT FIT	01-APR-22
782981	JWO	VIJAY KUMAR JHA	MT FIT	01-APR-22
782992	JWO	GAURAV GAUTAM	MT FIT	01-APR-22
782998	JWO	SHAIENDRA KUMAR	MT FIT	01-APR-22
783018	JWO	PRASHANT KUMAR	MT FIT	01-APR-22
780920	JWO	ABHINANDAN KUMAR	MT FIT	01-JUN-22
782161	JWO	PRADEEP SINGH	MT FIT	01-JUN-22
783016	JWO	BINOD KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783293	JWO	GAURAV BHARDWAJ	MT FIT	01-JUL-22
783294	JWO	CHANDAN KUMAR BHAGAT	MT FIT	01-JUL-22
783298	JWO	KRISHNA PRASAD	MT FIT	01-JUL-22
783302	JWO	AMAN ABHISHEK	MT FIT	01-JUL-22
783303	JWO	BALWANT KUMAR SAH	MT FIT	01-JUL-22
783305	JWO	MANOJ KUMAR TRIPATHI	MT FIT	01-JUL-22
783309	JWO	AMRITESH JHA	MT FIT	01-JUL-22
783311	JWO	BIJENDRA KUMAR SINGH	MT FIT	01-JUL-22
783312	JWO	NANDKISHOR CHOUDHARY	MT FIT	01-JUL-22
783317	JWO	RAKESH	MT FIT	01-JUL-22
783319	JWO	BRIJESH KUMAR TIWARI	MT FIT	01-JUL-22
783320	JWO	SUDHAKAR KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783322	JWO	VIDYA DUTTA PATHAK	MT FIT	01-JUL-22
783323	JWO	AJAY KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783328	JWO	RAJEEV GAUTAM	MT FIT	01-JUL-22
783337	JWO	SHAMIM	MT FIT	01-JUL-22
783353	JWO	SANDEEP VARSHNEY	MT FIT	01-JUL-22

783360	JWO	SONA JEE	MT FIT	01-JUL-22
783372	JWO	RAJNEESH	MT FIT	01-JUL-22
783376	JWO	AJAY KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783379	JWO	MUKESH KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783385	JWO	SANJEET KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783387	JWO	ANANT SINGH	MT FIT	01-JUL-22
783388	JWO	SHARWAN KUMAR MANDAL	MT FIT	01-JUL-22
783390	JWO	NAGEN KUMAR BEHERA	MT FIT	01-JUL-22
783395	JWO	NILESH KUMAR MICKEY	MT FIT	01-JUL-22
783400	JWO	RAJESH KUMAR MAURYA	MT FIT	01-JUL-22
783404	JWO	SURAJ KUMAR	MT FIT	01-JUL-22
783405	JWO	RAJKAMAL SHIRO MANI	MT FIT	01-JUL-22
783411	JWO	RAGHUVANSH SINGH	MT FIT	01-JUL-22
783414	JWO	PANKAJ KUMAR SINGH	MT FIT	01-JUL-22
783418	JWO	M ANITH KUMAR	MT FIT	01-AUG-22
783420	JWO	VISHAL KUMAR	MT FIT	01-AUG-22
783421	JWO	AMOD KUMAR	MT FIT	01-AUG-22
783427	JWO	RAJIV RANJAN KUMAR	MT FIT	01-AUG-22
783431	JWO	RAVINDER KUMAR	MT FIT	01-SEP-22
783433	JWO	KUMAR TIPU	MT FIT	01-SEP-22
783434	JWO	RAJEEV KUMAR	MT FIT	01-SEP-22
783437	JWO	RAHUL SINGH	MT FIT	01-SEP-22
783438	JWO	SANJEEV KUMAR DEEPAK	MT FIT	01-SEP-22
783445	JWO	DEEPAK KUMAR	MT FIT	01-SEP-22
783448	JWO	BITU KUMAR SINGH	MT FIT	01-SEP-22
783456	JWO	CHANDER SINGH INDA	MT FIT	01-SEP-22
783463	JWO	PRASHANT SINGH	MT FIT	01-SEP-22
783470	JWO	RATAN KUMAR	MT FIT	01-SEP-22
783477	JWO	SACHIN KUMAR SINGH	MT FIT	01-SEP-22
783425	JWO	GUNJAN KR MISHRA	MT FIT	01-OCT-22
783488	JWO	AMIT SHARMA	MT FIT	01-OCT-22
783489	JWO	MANORANJAN KUMAR	MT FIT	01-OCT-22
783490	JWO	GOPAL KUMAR VIDHARATHI	MT FIT	01-OCT-22
783492	JWO	PRADEEP KUMAR	MT FIT	01-OCT-22
783497	JWO	MANOJ LAL	MT FIT	01-OCT-22
783504	JWO	PRADEEP KUMAR SINGH	MT FIT	01-OCT-22
783501	JWO	PANKAJ KUMAR	MT FIT	01-NOV-22
722422	JWO	KAPIL KUMAR	MTD	01-JUL-21

724728	JWO	RANJEET KUMAR	MTD	01-AUG-21
628274	JWO	PRAVAT KUMAR MANGARAJ	MTD	01-JAN-22
628980	JWO	NARESH CHANDRA	MTD	01-JAN-22
723805	JWO	M JOSEPH KENNEDY	MTD	01-JAN-22
629128	JWO	DINESH KUMAR	MTD	01-FEB-22
724912	JWO	VISHAL SINGH KUSHWAHA	MTD	01-FEB-22
780174	JWO	SHIBU SHANMUKHAN SHIJINIVAS	MTD	01-FEB-22
628244	JWO	HARINDRA PRASAD SHAW	MTD	01-APR-22
629510	JWO	BADAL KUMAR DEY	MTD	01-APR-22
629705	JWO	RAJ KUMAR	MTD	01-APR-22
705641	JWO	ISHWAR CHAND TYAGI	MTD	01-APR-22
706750	JWO	SATENDER SINGH SARROW	MTD	01-APR-22
720631	JWO	RAMESH KUMAR	MTD	01-APR-22
720641	JWO	JAI RAM YADAV	MTD	01-APR-22
720682	JWO	BHUPENDRU PATI TIWARI	MTD	01-APR-22
720720	JWO	AINASH KUMAR RATHORE	MTD	01-APR-22
721672	JWO	RAMESH PRASAD SINGH	MTD	01-APR-22
721724	JWO	MOHAMMAD JAMEEL	MTD	01-APR-22
722198	JWO	SANJAY KUMAR MAURYA	MTD	01-APR-22
722217	JWO	HAWA SINGH	MTD	01-APR-22
722566	JWO	JITENDRA KUMAR	MTD	01-APR-22
722867	JWO	GANGADHAR BEHERA	MTD	01-APR-22
722993	JWO	PREM ANAND SINGH PUNIA	MTD	01-APR-22
723473	JWO	RAJESH KUMAR	MTD	01-APR-22
723594	JWO	ANAWAR HUSAIN	MTD	01-APR-22
723608	JWO	DEEPAK DUBEY	MTD	01-APR-22
724065	JWO	MANOJ KUMAR KUNWAR	MTD	01-APR-22
724737	JWO	ABDUL HAMEED	MTD	01-APR-22
724740	JWO	ANUP KUMAR	MTD	01-APR-22
724898	JWO	MUKESH KUMAR	MTD	01-APR-22
780177	JWO	PRAVEEN KUMAR JAIN	MTD	01-APR-22
780410	JWO	RAM KUMAR RAM	MTD	01-APR-22
780878	JWO	ARVIND KUMAR MISHRA	MTD	01-APR-22
781349	JWO	SARAVANAN M VEERACHAMY	MTD	01-APR-22
628287	JWO	SUNANDA KUMAR PANDA	MTD	01-MAY-22
628778	JWO	HARI CHAND KAMBOJ	MTD	01-MAY-22
705051	JWO	SURENDER PARKASH KAUSHIK	MTD	01-MAY-22
629574	JWO	SHRI BHAGWAN SEHRAWAT	MTD	01-JUN-22

691581	JWO	SAROJ KUMAR DHAR	MTD	01-JUN-22
720878	JWO	DHANNA RAM SAINI	MTD	01-JUN-22
721036	JWO	SUBHASH SINGH	MTD	01-JUN-22
721396	JWO	SATISH KUMAR	MTD	01-JUN-22
721429	JWO	DINESH KUMAR TIWARY	MTD	01-JUN-22
721816	JWO	SUBE SINGH	MTD	01-JUN-22
721922	JWO	ABDUL RASSAK M M	MTD	01-JUN-22
722284	JWO	SHANTI RANJAN MOHANTY	MTD	01-JUN-22
722708	JWO	SHYAM VIR SINGH	MTD	01-JUN-22
722740	JWO	SURENDRA SINGH	MTD	01-JUN-22
723530	JWO	AVADH KISHOR SINGH	MTD	01-JUN-22
723624	JWO	RAJIV KUMAR RATHI	MTD	01-JUN-22
724036	JWO	ARBIND KUMAR	MTD	01-JUN-22
724534	JWO	BALWAN SINGH	MTD	01-JUN-22
724641	JWO	ANIL KUMAR SINGH	MTD	01-JUN-22
780872	JWO	MURSID ALAM	MTD	01-JUN-22
628992	JWO	JHANKAR KUNDU	MTD	01-JUL-22
629238	JWO	SATPAL SINGH KHOKHRA	MTD	01-JUL-22
629474	JWO	BALWAN SINGH	MTD	01-JUL-22
705063	JWO	VIJAY KUMAR SHARMA	MTD	01-JUL-22
705079	JWO	SEIKH ABUL KALAM	MTD	01-JUL-22
705228	JWO	PREM PAL SINGH RUHAL	MTD	01-JUL-22
705550	JWO	UMESH PRASAD	MTD	01-JUL-22
706293	JWO	ASHOK KUMAR GUPTA	MTD	01-JUL-22
720052	JWO	SHRI BHAGWAN	MTD	01-JUL-22
720240	JWO	JOGENDER SINGH	MTD	01-JUL-22
720733	JWO	KANHAIYA LAL YADAV	MTD	01-JUL-22
720734	JWO	BHAGAT SINGH	MTD	01-JUL-22
720812	JWO	RAJ SINGH MEHTA	MTD	01-JUL-22
720851	JWO	RAKESH KUMAR	MTD	01-JUL-22
720918	JWO	MITHLESH SHARMA	MTD	01-JUL-22
721265	JWO	ARJUN SINGH	MTD	01-JUL-22
721354	JWO	GORDHAN RATHEE	MTD	01-JUL-22
721368	JWO	FEROZ HUSSAIN	MTD	01-JUL-22
721619	JWO	PREM CHAND	MTD	01-JUL-22
721684	JWO	SANJEEV KUMAR MALIK	MTD	01-JUL-22
721770	JWO	RAJ KUMAR	MTD	01-JUL-22
722054	JWO	ABHILESH KUMAR CHOUDHARY	MTD	01-JUL-22



722352	JWO	RAKESH KUMAR	MTD	01-JUL-22
722644	JWO	ANIL KUMAR YADAV	MTD	01-JUL-22
722698	JWO	HARDEEP SINGH SHEKHAWAT	MTD	01-JUL-22
722874	JWO	YOGENDRA	MTD	01-JUL-22
722884	JWO	SUBHASH CHANDRA CHOURASIA	MTD	01-JUL-22
723013	JWO	RAM LAL	MTD	01-JUL-22
723015	JWO	RAJENDRA KUMAR PRAJAPAT	MTD	01-JUL-22
723136	JWO	SATYENDAR KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
723142	JWO	PRADEEP KUMAR JENA	MTD	01-JUL-22
723160	JWO	KUMAR GAUTAM	MTD	01-JUL-22
723166	JWO	RANJIT KUMAR SHAW	MTD	01-JUL-22
723183	JWO	SURENDER KUMAR	MTD	01-JUL-22
723198	JWO	MANJIT SINGH KADYAN	MTD	01-JUL-22
723199	JWO	RAM KUMAR	MTD	01-JUL-22
723203	JWO	BHAV DEEP KUMAR SHARMA	MTD	01-JUL-22
723283	JWO	KHUSHI RAM MEENA	MTD	01-JUL-22
723345	JWO	JASBIR SINGH	MTD	01-JUL-22
723365	JWO	ANAND KUMAR GUPTA	MTD	01-JUL-22
723368	JWO	SUBHASH CHANDRA MATHUR	MTD	01-JUL-22
723371	JWO	VINAY KUMAR SAHU	MTD	01-JUL-22
723448	JWO	OMVIR SINGH	MTD	01-JUL-22
723505	JWO	RAM NIWAS SINGH AZAD	MTD	01-JUL-22
723511	JWO	JITENDRA YADAV	MTD	01-JUL-22
723519	JWO	NARSINGH RAM CHOUDHARY	MTD	01-JUL-22
723687	JWO	VINIT KUMAR SINGH BHADAURIA	MTD	01-JUL-22
723693	JWO	ALOK KUMAR	MTD	01-JUL-22
723697	JWO	BHARTENDU	MTD	01-JUL-22
723710	JWO	BHAGAT SINGH RAJWAR	MTD	01-JUL-22
723745	JWO	MOHD SHUAB SIDDIQUI	MTD	01-JUL-22
723889	JWO	ANIL KUMAR PRASAD	MTD	01-JUL-22
723916	JWO	DEEPAK KUMAR JAIN	MTD	01-JUL-22
723948	JWO	HARENDRA SINGH CHAUHAN	MTD	01-JUL-22
723969	JWO	SATISH KUMAR RAI	MTD	01-JUL-22
724103	JWO	JAI PRAKASH	MTD	01-JUL-22
724114	JWO	JAYESH C K	MTD	01-JUL-22
724162	JWO	DHARAM SINGH KUSHWAH	MTD	01-JUL-22
724164	JWO	HANUMAN SONKARIA	MTD	01-JUL-22
724179	JWO	ASHOK KUMAR NATH	MTD	01-JUL-22

724306	JWO	HIRA SINGH RAWAT	MTD	01-JUL-22
724391	JWO	DILEEP KUMAR	MTD	01-JUL-22
724393	JWO	AWADHESH YADAV	MTD	01-JUL-22
724396	JWO	ARUN KUMAR YADAV	MTD	01-JUL-22
724457	JWO	BIPIN KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
724529	JWO	RAMNIWAS BHARANGAR	MTD	01-JUL-22
724574	JWO	NARESH KUMAR	MTD	01-JUL-22
724602	JWO	SAMAR KUMAR SAHA	MTD	01-JUL-22
724614	JWO	KESHAR SINGH	MTD	01-JUL-22
724640	JWO	MANINDRA KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
724643	JWO	PANKAJ KUMAR	MTD	01-JUL-22
724650	JWO	ASHOK KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
724656	JWO	AWADHESH KUMAR SINGH	MTD	01-JUL-22
724720	JWO	PRADEEP S	MTD	01-JUL-22
724725	JWO	NIRAJ KUMAR NAVIN	MTD	01-JUL-22
724746	JWO	DEVENDRA PRASAD CHOUDHARY	MTD	01-JUL-22
724756	JWO	BADSHAH YADAV	MTD	01-JUL-22
724767	JWO	VIJAY SINGH THAKUR	MTD	01-JUL-22
724768	JWO	BYASH SINHA	MTD	01-JUL-22
724779	JWO	SATYA PRAKASH SINGH	MTD	01-JUL-22
724790	JWO	NIRANJAN KUMAR	MTD	01-JUL-22
628561	JWO	CHHATRA PAL	MTD	01-AUG-22
720315	JWO	UTTAM KUMAR PATRA	MTD	01-AUG-22
721652	JWO	RAKESH KUMAR PANDEY	MTD	01-AUG-22
723105	JWO	NARENDER SINGH	MTD	01-AUG-22
723337	JWO	KULBIR SINGH	MTD	01-AUG-22
723340	JWO	PRAMOD KUMAR OJHA	MTD	01-AUG-22
723568	JWO	SHREE PATI PANDEY	MTD	01-AUG-22
723884	JWO	SHASHI KANT YADAV	MTD	01-AUG-22
723962	JWO	RAMAKANT YADAV	MTD	01-AUG-22
724796	JWO	AMAR KUMAR SHUKLA	MTD	01-AUG-22
724799	JWO	VIJAY KUMAR SINGH	MTD	01-AUG-22
724906	JWO	PUNEET PANDEY	MTD	01-AUG-22
724946	JWO	SARWAR ALAM ANSARY	MTD	01-AUG-22
724948	JWO	MAHESH SINGH	MTD	01-AUG-22
724954	JWO	MOHD NIYAZUDDIN	MTD	01-AUG-22
724965	JWO	MURARI KUMAR PRASAD	MTD	01-AUG-22
724991	JWO	JAI PRAKASH SINGH	MTD	01-AUG-22

724998	JWO	UMESH KUMAR BHARTI	MTD	01-AUG-22
780021	JWO	PRAVEEN KUMAR CHOUBEY	MTD	01-AUG-22
780046	JWO	RAVI KANT CHAUHAN	MTD	01-AUG-22
721802	JWO	SURAJ DEO PRASAD	MTD	05-AUG-22
628903	JWO	BHARAT PANDEY	MTD	01-SEP-22
705546	JWO	BRAHMA NAND YADAV	MTD	01-SEP-22
780168	JWO	RANJEET KUMAR	MTD	01-SEP-22
628412	JWO	SOHAN SINGH	MTD	01-OCT-22
684685	JWO	RAMESH CHANDRA SHAKYA	MTD	01-OCT-22
705171	JWO	INDER SINGH DHATTERWAL	MTD	01-OCT-22
705535	JWO	MAHIPAL BHATI	MTD	01-OCT-22
780181	JWO	NIRAJ KUMAR SAROJ	MTD	01-OCT-22
780188	JWO	N SRIDHAR RAO	MTD	01-OCT-22
780202	JWO	DHANANJAY SHANKAR VERMA	MTD	01-OCT-22
780220	JWO	SALEESH P K	MTD	01-OCT-22
780230	JWO	SATISH KUMAR	MTD	01-OCT-22
780342	JWO	SATYENDRA SINGH	MTD	01-OCT-22
780407	JWO	AJIT KUMAR SHARMA	MTD	01-OCT-22
780532	JWO	PAWAN KUMAR SINGH	MTD	01-OCT-22
780558	JWO	AJEET KUMAR	MTD	01-OCT-22
780569	JWO	SUNIL KUMAR SINGH	MTD	01-OCT-22
780574	JWO	BINAY KUMAR SINGH	MTD	01-OCT-22
780628	JWO	AJIT KUMAR	MTD	01-OCT-22
629278	JWO	RAJESH SINGH	MTD	01-NOV-22
720994	JWO	RANA PAPPU KUMAR	MTD	01-NOV-22
722101	JWO	SHYJU KA	MTD	01-NOV-22
780658	JWO	NERANJAN KUMAR SINGH	MTD	01-NOV-22
780692	JWO	VISHAL KUMAR	MTD	01-NOV-22
780821	JWO	GAJENDRA KUMAR SINGH	MTD	01-NOV-22
780857	JWO	NAGENDRA KUMAR	MTD	01-NOV-22
780892	JWO	SUSHIL KUMAR	MTD	01-NOV-22
780941	JWO	SHAILESH KUMAR PARASAR	MTD	01-NOV-22
780958	JWO	RAVI BHUSHAN TIWARI	MTD	01-NOV-22
781011	JWO	PRAKASH GUPTA	MTD	01-NOV-22
781040	JWO	RANVIJAY KUMAR	MTD	01-NOV-22
781056	JWO	ARBIND KUMAR SINGH	MTD	01-NOV-22
781058	JWO	AJIT KUMAR SUMAN	MTD	01-NOV-22
781109	JWO	Y SATISH KUMAR	MTD	01-NOV-22

781145	JWO	SUSANT KUMAR BALIYARSINGH	MTD	01-NOV-22
781170	JWO	UMAKANT NAYAK	MTD	01-NOV-22
781172	JWO	DHARMENDRA KUMAR	MTD	01-NOV-22
781258	JWO	SANJAY KUMAR PATHAK	MTD	01-NOV-22
781340	JWO	NEERAJ KUMAR	MTD	01-NOV-22
781354	JWO	UMA SHANKAR PRASAD SINGH	MTD	01-NOV-22
781391	JWO	RAJEEV KUMAR	MTD	01-DEC-22
781426	JWO	UMESH KUMAR	MTD	01-DEC-22
781430	JWO	RANJAN KUMAR SINGH	MTD	01-DEC-22
781493	JWO	MANISH KUMAR	MTD	01-DEC-22
781567	JWO	ANEESH KUMAR N	MTD	01-DEC-22
781572	JWO	DEEPU GOPINATH	MTD	01-DEC-22
790164	JWO	GANESH KUMAR PAL	MUSN	01-JAN-22
749622	JWO	DILIP KUMAR BERA	MUSN	01-AUG-22
749624	JWO	MD NUR JAMAL HUSSAIN	MUSN	01-AUG-22
791739	JWO	SRI PRANAB KUMAR BEHERA	MUSN	01-NOV-22
761180	JWO	PRADEEP PRABHAKAR TRIPATHI	PHOTO FIT	01-JAN-22
762157	JWO	UPENDRA KUMAR	PHOTO FIT	01-JUN-22
762812	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	PHOTO FIT	01-JUN-22
762854	JWO	JOGINDRA KUMAR	PHOTO FIT	01-JUN-22
764886	JWO	UMESH KUMAR SINGH	PHOTO FIT	01-JUN-22
797538	JWO	NARENDRA KUMAR VERMA	PHOTO FIT	01-JUL-22
919505	JWO	KULDEV SINGH	PJI	01-MAY-22
920562	JWO	GAJRAJ SINGH	PJI	01-JUN-22
921891	JWO	GAURAV DAGUR	PJI	01-JUN-22
764854	JWO	RAVI PRAKASH JAISWAL	PMF(ELEC)	01-MAY-22
764826	JWO	CHANDRA SHEKHAR MOHANTA	PMF(ELEC)	01-JUN-22
764950	JWO	CHANDRA MOHAN MAURYA	PMF(ELEC)	01-JUN-22
764395	JWO	LOKESH KUMAR	PMF(ELEC)	01-JUL-22
764829	JWO	MUKESH KUMAR SRIVASTAVA	PMF(ELEC)	01-JUL-22
764837	JWO	AZAD KUMAR BHATTAMISHRA	PMF(ELEC)	01-AUG-22
764997	JWO	SANJAY KUMAR	PMF(ELEC)	01-DEC-22
798928	JWO	RAKESH KUMAR SINGH	PMF(ELEC)	01-DEC-22
786470	JWO	BHUPENDER KUMAR	PMF(MECH)	01-APR-22
786486	JWO	RANJAN KANTI MAJUMDER	PMF(MECH)	01-APR-22
786344	JWO	V S N R VIJAYA KUMAR ADDEPALLI	PMF(MECH)	01-JUL-22
786349	JWO	RAVI BABA	PMF(MECH)	01-JUL-22
786351	JWO	RANJEET KUMAR UPADHYAY	PMF(MECH)	01-JUL-22

786909	JWO	PRAVESH KUMAR TIWARI	PMF(MECH)	01-DEC-22
786964	JWO	RENJITH RAMAKRISHNAN	PMF(MECH)	01-DEC-22
744088	JWO	MANJESH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744462	JWO	ATUL KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744463	JWO	VIKASH VISHWAKARMA	RAD FIT	01-JUL-22
744473	JWO	TEJVIR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744475	JWO	RAKESH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744484	JWO	DEEPAK KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744486	JWO	RITESH KUMAR SHARAN	RAD FIT	01-JUL-22
744490	JWO	JAI PAL	RAD FIT	01-JUL-22
744494	JWO	RAHUL KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744505	JWO	GAYADEEN PAL	RAD FIT	01-JUL-22
744513	JWO	PRAVEEN KUMAR PATHAK	RAD FIT	01-JUL-22
744519	JWO	PRAVIN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744524	JWO	ASHUTOSH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744537	JWO	SUNIL KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744540	JWO	RAVI RANJAN	RAD FIT	01-JUL-22
744547	JWO	DIGAMBER KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744556	JWO	DIPAK KUMAR SHARMA	RAD FIT	01-JUL-22
744560	JWO	KUMAR AMIT	RAD FIT	01-JUL-22
744565	JWO	RAJIV PRAKASH GUPTA	RAD FIT	01-JUL-22
744569	JWO	VARUN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744584	JWO	ARVIND KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744592	JWO	GAURAV KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744594	JWO	SUMAN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744595	JWO	VISHAL	RAD FIT	01-JUL-22
744597	JWO	SHIV KUMAR TIWARI	RAD FIT	01-JUL-22
744599	JWO	SHAIENDRA KUMAR OJHA	RAD FIT	01-JUL-22
744613	JWO	RANJAN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744619	JWO	DEEPAK KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744621	JWO	AMIT KUMAR CHOURASIA	RAD FIT	01-JUL-22
744622	JWO	RAJ KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744640	JWO	SUNIL PANDEY	RAD FIT	01-JUL-22
744641	JWO	NAWAB ALI	RAD FIT	01-JUL-22
744651	JWO	ASHWIN KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744654	JWO	RAM KISHOR KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744655	JWO	MUKESH KUMAR DWIVEDI	RAD FIT	01-JUL-22
744657	JWO	MILAN JEE	RAD FIT	01-JUL-22

744666	JWO	SUMIT KUMAR GUPTA	RAD FIT	01-JUL-22
744667	JWO	DEEPAK KUMAR RAJA	RAD FIT	01-JUL-22
744670	JWO	SUMMER PRATAP SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744672	JWO	TIRUKKOLLURU VINODH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744673	JWO	NIRALA	RAD FIT	01-JUL-22
744674	JWO	KAMALJEET KUMAR SINHA	RAD FIT	01-JUL-22
744678	JWO	K PAUL RAJASEKARAN	RAD FIT	01-JUL-22
744679	JWO	SANJAY KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744681	JWO	SATENDRA KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744685	JWO	ANAND KISHORE	RAD FIT	01-JUL-22
744689	JWO	JAI PRAKASH NARAIN GUPTA	RAD FIT	01-JUL-22
744705	JWO	BABLU KUMAR THAKUR	RAD FIT	01-JUL-22
744710	JWO	ABINASH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744715	JWO	MANOJ KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744724	JWO	SACHINDRA KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744739	JWO	MRITUNJAY KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744744	JWO	DHARMENDRA KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744746	JWO	JITENDER KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744754	JWO	BHUPENDRA KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744848	JWO	RAJEEV RANJAN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744852	JWO	AMBAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744853	JWO	SATYA PRAKASH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744856	JWO	SNEHA KUMAR GUPTA	RAD FIT	01-JUL-22
744858	JWO	ARUN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744859	JWO	VIVEK MOHAN YADAV	RAD FIT	01-JUL-22
744863	JWO	AJAY KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744865	JWO	VINAY KUMAR YADAV	RAD FIT	01-JUL-22
744867	JWO	VIJAY LAMBA	RAD FIT	01-JUL-22
744868	JWO	JIA ALAM	RAD FIT	01-JUL-22
744878	JWO	NARENDRA KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744885	JWO	MONU PRASAD MUNDA	RAD FIT	01-JUL-22
744887	JWO	PRANAW KUMAR PRAVIN	RAD FIT	01-JUL-22
744889	JWO	SHIVAM PANDEY	RAD FIT	01-JUL-22
744901	JWO	MOHAMMED SHOWKATH A	RAD FIT	01-JUL-22
744904	JWO	ASHISH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744906	JWO	K KISHORE YARRAMSETTY	RAD FIT	01-JUL-22
744907	JWO	AMIT KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744913	JWO	SUBE SINGH	RAD FIT	01-JUL-22

744914	JWO	PRAVEEN KUMAR GOPINADHU	RAD FIT	01-JUL-22
744917	JWO	KHUMUJAM SURJIT SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744924	JWO	SUJITH KUMAR C	RAD FIT	01-JUL-22
744932	JWO	VINAY KUMAR SHRESTHA	RAD FIT	01-JUL-22
744939	JWO	PANKAJ KUMAR CHETRY	RAD FIT	01-JUL-22
744940	JWO	DHANANJAY KUMAR SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744946	JWO	YATHRVENDRA PRATAP SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
744956	JWO	RAJEEV RANJAN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744961	JWO	SANJESH SINGH BHADAURIYA	RAD FIT	01-JUL-22
744968	JWO	NAILA KAMESWARA RAO	RAD FIT	01-JUL-22
744969	JWO	PRATAP KUMAR CHAUBEY	RAD FIT	01-JUL-22
744970	JWO	LAVKUSH	RAD FIT	01-JUL-22
744971	JWO	SUDHA KANT MISHRA	RAD FIT	01-JUL-22
744973	JWO	VIRMANI KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744977	JWO	PRAMOD SINGH BHANDARI	RAD FIT	01-JUL-22
744981	JWO	ARVIND KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744989	JWO	DINESH YADAV	RAD FIT	01-JUL-22
744997	JWO	RAJEEV RANJAN KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
906001	JWO	SANDEEP THAPLIYAL	RAD FIT	01-JUL-22
906006	JWO	BHASKAR DHYANI	RAD FIT	01-JUL-22
906007	JWO	BHASKAR BANERJEE	RAD FIT	01-JUL-22
906012	JWO	NITIN UTTAM	RAD FIT	01-JUL-22
906014	JWO	AVINASH PANDEY	RAD FIT	01-JUL-22
906019	JWO	LAKHINANA BHANUPRATAP	RAD FIT	01-JUL-22
906020	JWO	AMIT RAJ	RAD FIT	01-JUL-22
906033	JWO	SAMAR PAL SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
906035	JWO	RAMOJI RAO MALLA	RAD FIT	01-JUL-22
906037	JWO	DHARMARAO ANGA	RAD FIT	01-JUL-22
906039	JWO	RAMROOP SINGH	RAD FIT	01-JUL-22
906042	JWO	RITESH KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
906043	JWO	ALOK KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
906050	JWO	PRAMOD KUMAR SHUKLA	RAD FIT	01-JUL-22
906278	JWO	TRILOKI KUMAR	RAD FIT	01-JUL-22
744186	JWO	AMIT KUMAR	RAD FIT	01-AUG-22
744465	JWO	ANIL KUMAR	RAD FIT	01-AUG-22
744488	JWO	RAJEEV KUMAR RANJAN	RAD FIT	01-AUG-22
744536	JWO	MUKESH KUMAR THAKUR	RAD FIT	01-AUG-22
906282	JWO	PRASHANT KUMAR TIWARI	RAD FIT	01-AUG-22

906296	JWO	AVINASH KUMAR DUTTA	RAD FIT	01-AUG-22
906297	JWO	PRAMOD KUMAR	RAD FIT	01-AUG-22
906301	JWO	DIWAKAR JHA	RAD FIT	01-AUG-22
906302	JWO	PANKAJ KUMAR	RAD FIT	01-AUG-22
906307	JWO	KUMAR ANAND	RAD FIT	01-AUG-22
744902	JWO	RAJESH KUMAR	RAD FIT	01-SEP-22
744934	JWO	DHIRAJ SINGH	RAD FIT	01-SEP-22
744985	JWO	PANKAJ KUMAR KUSHWAHA	RAD FIT	01-SEP-22
906003	JWO	PRADEEP KUMAR	RAD FIT	01-SEP-22
906005	JWO	ADALARASAN R	RAD FIT	01-SEP-22
906286	JWO	KANETY SHANTHA RATNA RAJU	RAD FIT	01-SEP-22
744947	JWO	PRASHANT KUMAR TRIPATHI	RAD FIT	01-NOV-22
792827	JWO	BHARAT	RDO FIT	01-JUL-21
793109	JWO	SALINDER SINGH	RDO FIT	01-JUL-21
748446	JWO	CHAKKA BHASKARA RAO	RDO FIT	01-FEB-22
793122	JWO	DURGESH KUMAR SHUKLA	RDO FIT	01-JUL-22
793296	JWO	JAY PRAKASH TIWARY	RDO FIT	01-JUL-22
793300	JWO	AVINASH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793311	JWO	PHANINDRA BHUSHAN	RDO FIT	01-JUL-22
793316	JWO	ALOK KUMAR THAKUR	RDO FIT	01-JUL-22
793317	JWO	DIPAK KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793318	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793321	JWO	NISHIKANTA BAI	RDO FIT	01-JUL-22
793323	JWO	PURANJAY VIDYARTHI	RDO FIT	01-JUL-22
793326	JWO	S SRINIVAS	RDO FIT	01-JUL-22
793335	JWO	SUBHASH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793337	JWO	VINOD KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793339	JWO	AJEET KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793342	JWO	AJIT KUMAR SAH	RDO FIT	01-JUL-22
793345	JWO	LOKESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793349	JWO	SANTOSH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793350	JWO	SHYAM SUNDAR	RDO FIT	01-JUL-22
793354	JWO	ARVIND KUMAR MURMU	RDO FIT	01-JUL-22
793356	JWO	AVINASH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793363	JWO	MD FARID KHAN	RDO FIT	01-JUL-22
793366	JWO	VIJAY KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793368	JWO	CHHOTELAL SHARMA	RDO FIT	01-JUL-22
793369	JWO	SUNIL KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22



793372	JWO	AJAY KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793375	JWO	KRISHAN KANT DUBEY	RDO FIT	01-JUL-22
793378	JWO	PREM RANJAN KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793383	JWO	KUMAR GAURAV	RDO FIT	01-JUL-22
793385	JWO	SUJEET KUMAR CHOUDHARY	RDO FIT	01-JUL-22
793391	JWO	NOOR MOHAMMAD	RDO FIT	01-JUL-22
793392	JWO	RAJPAL YADAV	RDO FIT	01-JUL-22
793395	JWO	PAWAN KUMAR KESHRI	RDO FIT	01-JUL-22
793396	JWO	RANJEET KUMAR RANJAN	RDO FIT	01-JUL-22
793397	JWO	PARMESH KUMAR SHAW	RDO FIT	01-JUL-22
793398	JWO	RAVINDRA KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793413	JWO	ABHAY SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793416	JWO	UMA SHANKER BHARDWAJ	RDO FIT	01-JUL-22
793417	JWO	HARI BHUSHAN KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793418	JWO	TIRUMALA REDDY RAMESH	RDO FIT	01-JUL-22
793419	JWO	SUDHAKAR SHARMA	RDO FIT	01-JUL-22
793425	JWO	SUMIT KUMAR DAS	RDO FIT	01-JUL-22
793426	JWO	SUBHASH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793427	JWO	VIKAS KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793430	JWO	KARANA KUMAR SURAJ	RDO FIT	01-JUL-22
793432	JWO	SATISH KUMAR VERMA	RDO FIT	01-JUL-22
793433	JWO	RAJEEV RANJAN	RDO FIT	01-JUL-22
793435	JWO	SHAMASHER BAHADUR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793436	JWO	ARUN MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
793438	JWO	NARENDRA KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793444	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793446	JWO	MUKUL KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793449	JWO	RAVI SHANKER SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793450	JWO	ASHOK KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793456	JWO	SAKET SUMAN	RDO FIT	01-JUL-22
793460	JWO	NIRAJ KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793468	JWO	ATUL RAJVAIDYA	RDO FIT	01-JUL-22
793471	JWO	UPENDRA KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793474	JWO	RAJ KUMAR MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
793475	JWO	SUNIL KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793483	JWO	VIJAYPAL	RDO FIT	01-JUL-22
793490	JWO	MANORANJAN KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793491	JWO	NAND KISHOR JHA	RDO FIT	01-JUL-22

793492	JWO	VIJAY PRATAP SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793505	JWO	AMIT KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793510	JWO	PANKAJ KUMAR JHA	RDO FIT	01-JUL-22
793511	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793513	JWO	VISHWAJEET ANAND	RDO FIT	01-JUL-22
793519	JWO	ABHISHEK SINGH RATHOUR	RDO FIT	01-JUL-22
793520	JWO	ASUTOSH KUMAR PANDEY	RDO FIT	01-JUL-22
793521	JWO	MADHUBAN MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
793525	JWO	SANJEEV KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793526	JWO	MUKESH KUMAR JHA	RDO FIT	01-JUL-22
793528	JWO	MANORANJAN KUMAR PANDEY	RDO FIT	01-JUL-22
793536	JWO	ARUN KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793537	JWO	RAJU KULKARNI	RDO FIT	01-JUL-22
793538	JWO	RAJESH KUMAR SUMAN	RDO FIT	01-JUL-22
793711	JWO	NARESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793714	JWO	ABADESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793718	JWO	KULDEEP KUMAR TRIVEDI	RDO FIT	01-JUL-22
793720	JWO	MANOJ KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793722	JWO	AVISHEK KR THAKUR	RDO FIT	01-JUL-22
793723	JWO	SURENDRA SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793725	JWO	ANAND PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22
793729	JWO	SUJEET KUMAR PANDA	RDO FIT	01-JUL-22
793733	JWO	RAKESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793739	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793741	JWO	JASWANT SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793745	JWO	PRADEEP	RDO FIT	01-JUL-22
793747	JWO	SUNIL KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793748	JWO	UMESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793750	JWO	SAURABH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793751	JWO	BANDAL BHAUSAHEB SURYAKANT	RDO FIT	01-JUL-22
793753	JWO	MUHAMMAD THAMEEM P	RDO FIT	01-JUL-22
793757	JWO	SANJAY KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793760	JWO	NEERAJ PARIHAR	RDO FIT	01-JUL-22
793763	JWO	JITENDRA PRATAP SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793764	JWO	PRASAD K V	RDO FIT	01-JUL-22
793765	JWO	SUNIL KUMAR RAI	RDO FIT	01-JUL-22
793769	JWO	RAM KRIPAL	RDO FIT	01-JUL-22
793772	JWO	GOVIND BALLABH JOSHI	RDO FIT	01-JUL-22

793773	JWO	PRADEEP KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793776	JWO	RAVIRANJAN KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793779	JWO	SATYAPAL SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793780	JWO	RAJEEV MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
793784	JWO	IJJUROUTHU MURALI	RDO FIT	01-JUL-22
793785	JWO	RAKESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793791	JWO	MUKESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793793	JWO	DURGESH KUMAR YADAV	RDO FIT	01-JUL-22
793796	JWO	ASHRAF ANSARI	RDO FIT	01-JUL-22
793802	JWO	KISHORE KUMAR KUNCHA	RDO FIT	01-JUL-22
793803	JWO	DEEPAK MISHRA	RDO FIT	01-JUL-22
793805	JWO	NIRANJAN KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793806	JWO	ASHUTOSH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793815	JWO	RANDEV SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793823	JWO	SANDEEP KUMAR PILANIYA	RDO FIT	01-JUL-22
793825	JWO	SUJIT KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793827	JWO	VIJAY SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793834	JWO	VIKASH KUMAR YADAV	RDO FIT	01-JUL-22
793838	JWO	AMIT KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793844	JWO	RAJ KIRAN PAL	RDO FIT	01-JUL-22
793847	JWO	RAKESH KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793849	JWO	SUDHEER KUMAR CHAUHAN	RDO FIT	01-JUL-22
793858	JWO	AMIT KUMAR GUPTA	RDO FIT	01-JUL-22
793860	JWO	PANDIT NILKAMAL NIRALA	RDO FIT	01-JUL-22
793864	JWO	AJIT KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793865	JWO	MD SHAHID	RDO FIT	01-JUL-22
793869	JWO	MD FIROJ KHAN	RDO FIT	01-JUL-22
793872	JWO	YASHWANT KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793880	JWO	BIMAL KUMAR MANDAL	RDO FIT	01-JUL-22
793883	JWO	SACHIN NAYAK	RDO FIT	01-JUL-22
793888	JWO	HARIOM SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793890	JWO	RAJ KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793891	JWO	SUMESH S NAIR	RDO FIT	01-JUL-22
793893	JWO	DEEPESH U	RDO FIT	01-JUL-22
793897	JWO	ANUP KUMAR GUPTA	RDO FIT	01-JUL-22
793903	JWO	NARASIMHA MURTHY BARLA	RDO FIT	01-JUL-22
793909	JWO	UMENDRA KUMAR TRIPATHI	RDO FIT	01-JUL-22
793919	JWO	NIRANJAN MAHARANA	RDO FIT	01-JUL-22

793935	JWO	SHANTI BHUSHAN	RDO FIT	01-JUL-22
793938	JWO	VIJAY KUMAR MANDAL	RDO FIT	01-JUL-22
793939	JWO	THAVITI NAIDU KARRI	RDO FIT	01-JUL-22
793940	JWO	NAIDU BABU BYLAPUDI	RDO FIT	01-JUL-22
793943	JWO	AJAY KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793944	JWO	NAND KISHOR MANDAL	RDO FIT	01-JUL-22
793945	JWO	SANJAY KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793947	JWO	SREEJITH M	RDO FIT	01-JUL-22
793950	JWO	SHER BAHADUR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793951	JWO	SAILESH KUMAR SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793952	JWO	ANISH K A	RDO FIT	01-JUL-22
793953	JWO	RISHI KANT	RDO FIT	01-JUL-22
793955	JWO	SOMDUTT SHARMA	RDO FIT	01-JUL-22
793961	JWO	RAVISH KUMAR RAJAK	RDO FIT	01-JUL-22
793963	JWO	ANJANI KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793967	JWO	KSHITIJ KUMAR PANKAJ	RDO FIT	01-JUL-22
793968	JWO	SUNEEL KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793969	JWO	ASHEESH KUMAR CHAURASIA	RDO FIT	01-JUL-22
793974	JWO	RATHEESH G NAIR	RDO FIT	01-JUL-22
793980	JWO	CHETAN PANWAR	RDO FIT	01-JUL-22
793985	JWO	WAHED ALI AHMED	RDO FIT	01-JUL-22
793986	JWO	SHANTANU RUDRAPAUL	RDO FIT	01-JUL-22
793991	JWO	S S N PRASAD DEO	RDO FIT	01-JUL-22
793992	JWO	PARAS KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
793993	JWO	RAMAKANT SINGH	RDO FIT	01-JUL-22
793996	JWO	ANUJ SRIVASTAVA	RDO FIT	01-JUL-22
794000	JWO	SUMEET KUMAR	RDO FIT	01-JUL-22
794003	JWO	PRANAB DAS	RDO FIT	01-JUL-22
794005	JWO	NAWAL KISHORE	RDO FIT	01-JUL-22
794006	JWO	AMAR NATH	RDO FIT	01-JUL-22
794007	JWO	MOHANA RAO DUMPALA	RDO FIT	01-JUL-22
794010	JWO	PREM PRAKASH	RDO FIT	01-JUL-22
794012	JWO	DILLIP KUMAR SARANGI	RDO FIT	01-JUL-22
794018	JWO	ASHUTOSH KUMAR TIWARI	RDO FIT	01-JUL-22
794019	JWO	RAMESH CHANDRA SETHI	RDO FIT	01-JUL-22
794025	JWO	SAMIR KUMAR RATH	RDO FIT	01-JUL-22
793126	JWO	RAVINDER	RDO FIT	01-AUG-22
793387	JWO	PANKAJ KUMAR MANDAL	RDO FIT	01-AUG-22

793534	JWO	MAHENDRA PRATAP BHARTI	RDO FIT	01-AUG-22
793792	JWO	SUDHIR SAH	RDO FIT	01-AUG-22
793853	JWO	ARJUN KUMAR SINGH	RDO FIT	01-AUG-22
793896	JWO	RAHUL KUMAR	RDO FIT	01-AUG-22
794004	JWO	ANAND KAPOOR	RDO FIT	01-AUG-22
794016	JWO	ANIL KUMAR JHA	RDO FIT	01-AUG-22
719215	JWO	GAJENDER SINGH	RDO TECH	01-JUL-21
745026	JWO	ANIL KUMAR	RDO TECH	01-JUL-21
746362	JWO	AMBIKA RAMAN THAKUR	RDO TECH	01-JUL-21
687025	JWO	KASIM ANSARI	RDO TECH	01-FEB-22
691977	JWO	SURENDRA SHUKLA	RDO TECH	01-FEB-22
745691	JWO	JOSE G	RDO TECH	01-FEB-22
719260	JWO	RAJKUMAR SINGH YADAV	RDO TECH	01-APR-22
719943	JWO	SHIV KUMAR SINHA	RDO TECH	01-APR-22
719976	JWO	SHASHI KUMAR	RDO TECH	01-APR-22
745039	JWO	RAJNISH KUMAR SHAKYA	RDO TECH	01-APR-22
746249	JWO	SANJEEV KUMAR	RDO TECH	01-APR-22
746788	JWO	PRAMOD KUMAR SINGH	RDO TECH	01-APR-22
747916	JWO	BASUDEV SAHOO	RDO TECH	01-APR-22
685446	JWO	SANJAY KUMAR SRIVASTAVA	RDO TECH	01-JUN-22
687339	JWO	ARVIND KUMAR GUPTA	RDO TECH	01-JUN-22
706950	JWO	UMA SHANKAR DIXIT	RDO TECH	01-JUN-22
718205	JWO	DEVI DAYAL YADAV	RDO TECH	01-JUN-22
718341	JWO	SUVENDRA KUMAR TRIPATHY	RDO TECH	01-JUN-22
718897	JWO	JOSE K S	RDO TECH	01-JUN-22
719243	JWO	MUKESH KUMAR	RDO TECH	01-JUN-22
745985	JWO	KUMAR ABHAYA JEET SINGH	RDO TECH	01-JUN-22
745993	JWO	DEO KUMAR	RDO TECH	01-JUN-22
746137	JWO	SAT VIR SINGH	RDO TECH	01-JUN-22
746163	JWO	RAVINDER KUMAR SHARMA	RDO TECH	01-JUN-22
748742	JWO	AJEET KUMAR	RDO TECH	01-JUN-22
687178	JWO	CHAMAN PRAKASH SHARMA	RDO TECH	01-JUL-22
717373	JWO	SATYAPAL	RDO TECH	01-JUL-22
717717	JWO	MOHD NASIR	RDO TECH	01-JUL-22
718007	JWO	JITENDRA SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
718008	JWO	RAMKUMAR SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
718026	JWO	RISHI PAL SHARMA	RDO TECH	01-JUL-22
718027	JWO	KISHAN PAL SINGH RAGHAV	RDO TECH	01-JUL-22

718850	JWO	ANIL KUMAR SHARMA	RDO TECH	01-JUL-22
718913	JWO	NARENDRA KUMAR MISHRA	RDO TECH	01-JUL-22
719177	JWO	RAJENDER SINGH MALIK	RDO TECH	01-JUL-22
719179	JWO	VIJENDER	RDO TECH	01-JUL-22
719225	JWO	NARESH KUMAR BHARDWAJ	RDO TECH	01-JUL-22
719500	JWO	ARUN KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
719517	JWO	HASHIM ALI	RDO TECH	01-JUL-22
719554	JWO	GOPAL SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
719565	JWO	RAM BHAJAN CHAUHAN	RDO TECH	01-JUL-22
719568	JWO	ANUPA KUMAR PARIDA	RDO TECH	01-JUL-22
719576	JWO	DEOKANT DEOGHARIA	RDO TECH	01-JUL-22
719651	JWO	BACHCHAN BABU	RDO TECH	01-JUL-22
719915	JWO	RAJENDRA SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
719929	JWO	AMAR NATH RAJPUT	RDO TECH	01-JUL-22
719945	JWO	MIRTYUNJAY PRASAD MAURYA	RDO TECH	01-JUL-22
745001	JWO	RAM KRIPAL CHAUBEY	RDO TECH	01-JUL-22
745538	JWO	CHHOTELAL SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
745577	JWO	RAMESH CHANDRA PRAKASH	RDO TECH	01-JUL-22
745623	JWO	AVDHESH GAUTAM	RDO TECH	01-JUL-22
745734	JWO	KISHOR CHANDRA PRADHAN	RDO TECH	01-JUL-22
745781	JWO	MANOJ KUMAR SHARMA	RDO TECH	01-JUL-22
745789	JWO	SAHAJADA	RDO TECH	01-JUL-22
745796	JWO	BIPLAB DEY	RDO TECH	01-JUL-22
745975	JWO	SHRAVAN KUMAR SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
746160	JWO	SUNIL CHANDRA HALDER	RDO TECH	01-JUL-22
746262	JWO	AJAY KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
746407	JWO	SURENDRA KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
746699	JWO	SURYAN SINGH	RDO TECH	01-JUL-22
746991	JWO	SUNIL GUPTA	RDO TECH	01-JUL-22
747184	JWO	SANTOSH KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
747414	JWO	JITENDRA KUMAR	RDO TECH	01-JUL-22
747911	JWO	DHARMENDRA KUMAR DUBEY	RDO TECH	01-JUL-22
718947	JWO	JAY PRAKASH JHA	RDO TECH	01-AUG-22
745586	JWO	ABHAY KUMAR RAJPUT	RDO TECH	01-AUG-22
746245	JWO	TARUN KUMAR BALI	RDO TECH	01-AUG-22
746917	JWO	GYANESH KUMAR SHUKLA	RDO TECH	01-AUG-22
747192	JWO	PRAMOD KUMAR SINGH	RDO TECH	01-AUG-22
748048	JWO	SUKHBIR SINGH POONIA	RDO TECH	01-AUG-22

748256	JWO	KADAM DEEPAK KISAN	RDO TECH	01-AUG-22
748280	JWO	MD JAHANGIR AHMAD	RDO TECH	01-AUG-22
748755	JWO	DURGA PRASAD SAHU	RDO TECH	01-AUG-22
792421	JWO	PRAMOD KUMAR NAYAK	RDO TECH	01-AUG-22
686718	JWO	GIRI RAJ SHARAN SINGH	RDO TECH	01-SEP-22
748249	JWO	VIJAY KUMAR MANOREY	RDO TECH	01-SEP-22
686927	JWO	ASHOK KUMAR	RDO TECH	01-NOV-22
716841	JWO	PRATAPADITYA GHOSH	RDO TECH	01-NOV-22
745697	JWO	E L SUNIL KUMAR	RDO TECH	01-NOV-22
747906	JWO	KAUKAV ALAM	RDO TECH	01-NOV-22
792423	JWO	MANMOHAN PANIGRAHY	RDO TECH	01-NOV-22
786316	JWO	MANGAL PRASAD	SEW	01-APR-22
786321	JWO	VIJAI PRAKASH PRAJAPATI	SEW	01-APR-22
786452	JWO	RAJEEV KUMAR JHA	SEW	01-APR-22
786455	JWO	SATISH KUMAR	SEW	01-APR-22
786462	JWO	PINTU KUMAR	SEW	01-APR-22
786611	JWO	MD QAISER HEYAT	SEW	01-APR-22
786614	JWO	PRASUN GANGULY	SEW	01-APR-22
786617	JWO	VIJAY NAND	SEW	01-APR-22
786619	JWO	MANISH KUMAR SINGH	SEW	01-APR-22
786622	JWO	HARSHVARDHAN VARSHNEY	SEW	01-APR-22
786628	JWO	RANADEB PRADHAN	SEW	01-APR-22
786312	JWO	SHATRUGHNA PRASAD	SEW	01-JUL-22
786323	JWO	RAJESH KUMAR MISHRA	SEW	01-JUL-22
786454	JWO	BINOY JAYA KUMAR	SEW	01-JUL-22
786612	JWO	ARINDAM MALLICK	SEW	01-JUL-22
786625	JWO	ARNAB DAS GUPTA	SEW	01-JUL-22
786626	JWO	MANOJ KUMAR SINGH	SEW	01-JUL-22
786872	JWO	AMIT KUMAR	SEW	01-JUL-22
786887	JWO	PRADEEP KUMAR DUBEY	SEW	01-JUL-22
786889	JWO	RAJESH RANJAN	SEW	01-JUL-22
786890	JWO	AMIT KUMAR	SEW	01-JUL-22
786464	JWO	ASHWIN KUMAR	SEW	01-AUG-22
719485	JWO	NAVIN KUMAR TIWARI	TELST RTO	01-JUL-21
640980	JWO	DHARMBIR HOODA	TELST RTO	01-APR-22
716775	JWO	RAMESH KUMAR	TELST RTO	01-APR-22
717881	JWO	RABINDRA NATH OHDAR	TELST RTO	01-APR-22
718662	JWO	ARVIND KUMAR SHARMA	TELST RTO	01-APR-22

719465	JWO	SANJAY KUMAR YADAV	TELST RTO	01-APR-22
790433	JWO	ANIL KUMAR SINGH	TELST RTO	01-APR-22
792160	JWO	HUIDROM GOURAJIT SINGH	TELST RTO	01-APR-22
717090	JWO	GIRISH KUMAR GAUR	TELST RTO	01-JUN-22
718983	JWO	DEVENDRA KUMAR KARN	TELST RTO	01-JUN-22
748537	JWO	PARVEEN JHA	TELST RTO	01-JUN-22
790688	JWO	AJAY KUMAR	TELST RTO	01-JUN-22
640667	JWO	TAPASH SAHA	TELST RTO	01-JUL-22
640774	JWO	BISHWESHWAR DWIWEDY	TELST RTO	01-JUL-22
640978	JWO	BALRAJ SINGH DHANDA	TELST RTO	01-JUL-22
706963	JWO	PAWAN KUMAR HOODA	TELST RTO	01-JUL-22
716374	JWO	CHANDRA SHEKHAR DWIVEDI	TELST RTO	01-JUL-22
716713	JWO	ASHOK KUMAR	TELST RTO	01-JUL-22
716938	JWO	SWAPAN KUMAR SAU	TELST RTO	01-JUL-22
717018	JWO	DILIP KUMAR KUNDU	TELST RTO	01-JUL-22
717478	JWO	VIRENDRA SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
717518	JWO	SREE KUMAR K N	TELST RTO	01-JUL-22
717833	JWO	NARINDER SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
717926	JWO	SHAMU SHIDE	TELST RTO	01-JUL-22
718692	JWO	JITENDRA KUMAR TYAGI	TELST RTO	01-JUL-22
718976	JWO	VIKAS TRIPATHI	TELST RTO	01-JUL-22
719271	JWO	YOGENDRA SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
719431	JWO	RAJINDER SINGH DIDI	TELST RTO	01-JUL-22
719760	JWO	RAJ PAL YADAV	TELST RTO	01-JUL-22
719782	JWO	ARUN MAHTO	TELST RTO	01-JUL-22
745046	JWO	HARENDRA KUMAR SAH	TELST RTO	01-JUL-22
745071	JWO	KUBER KUMAR	TELST RTO	01-JUL-22
745115	JWO	DINESH PRASAD	TELST RTO	01-JUL-22
745352	JWO	SANWAR MAL KUMHAR	TELST RTO	01-JUL-22
745686	JWO	S AMARDEV	TELST RTO	01-JUL-22
745845	JWO	HARPAL SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
745878	JWO	BINOD KUMAR	TELST RTO	01-JUL-22
746168	JWO	RAM SHARAN SINGH CHAUHAN	TELST RTO	01-JUL-22
746178	JWO	MAMRAJ	TELST RTO	01-JUL-22
746181	JWO	PANDEY PARAS NATH	TELST RTO	01-JUL-22
746673	JWO	UTTAM SEN	TELST RTO	01-JUL-22
746834	JWO	UDAY BHAN SINGH	TELST RTO	01-JUL-22
747443	JWO	MAHESH KUMAR	TELST RTO	01-JUL-22



716021	JWO	GOBIN BORAH	TELST RTO	01-AUG-22
747719	JWO	NARENDER	TELST RTO	01-AUG-22
748217	JWO	RAM RATAN RAMAN	TELST RTO	01-AUG-22
748220	JWO	SANJAY KUMAR JHA	TELST RTO	01-AUG-22
748552	JWO	SHASHI BHAN	TELST RTO	01-AUG-22
748976	JWO	BIJENDER SINGH	TELST RTO	01-AUG-22
749307	JWO	SANJEEV KUMAR	TELST RTO	01-AUG-22
749310	JWO	RAJEEV KUMAR SRIVASTAVA	TELST RTO	01-AUG-22
749316	JWO	AJAI PRATAP SINGH	TELST RTO	01-AUG-22
749326	JWO	RAM KRISHNA RAY	TELST RTO	01-AUG-22
790109	JWO	MAHESH KUMAR YADAV	TELST RTO	01-AUG-22
790127	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	TELST RTO	01-AUG-22
639977	JWO	PRITHVI RAJ SHARMA	TELST RTO	01-SEP-22
640275	JWO	SHIBA PRASAD MOHANTA	TELST RTO	01-SEP-22
790134	JWO	RAJESH BHARTI	TELST RTO	01-SEP-22
790145	JWO	SANTOSH KUMAR SINGH	TELST RTO	01-SEP-22
790447	JWO	NARENDRA PRASAD GUPTA	TELST RTO	01-SEP-22
790448	JWO	MD JUBAIR ALAM	TELST RTO	01-SEP-22
791011	JWO	YASHWANT KUMAR	TELST RTO	01-OCT-22
791014	JWO	JAYANTA BANERJEE	TELST RTO	01-OCT-22
792449	JWO	VIJAY KUMAR	TELST RTO	01-OCT-22
792451	JWO	AMJAD KHAN	TELST RTO	01-OCT-22
792454	JWO	GAUTAM SINHA	TELST RTO	01-OCT-22
639998	JWO	SUBHASH CHAND GAUTAM	TELST RTO	01-NOV-22
792161	JWO	WANGKHEIMAYUM DEEPAK SINGH	TELST RTO	01-NOV-22
777964	JWO	CHANDRA PRAKASH	WPN FIT	01-JUL-22
778317	JWO	ROSHAN JAISWAL	WPN FIT	01-JUL-22
778321	JWO	PRASHANT KUMAR SHIVA	WPN FIT	01-JUL-22
778324	JWO	GOVIND KUMAR JHA	WPN FIT	01-JUL-22
778327	JWO	BASANT KUMAR SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778349	JWO	PRAMOD KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
778360	JWO	AMIT KUMAR SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778363	JWO	KILLI MUSALANNA	WPN FIT	01-JUL-22
778364	JWO	DEVESH SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778372	JWO	MOHAMMAD KAISH SIDDIQUI	WPN FIT	01-JUL-22
778384	JWO	SUNIL KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
778795	JWO	SAURABH SHUKLA	WPN FIT	01-JUL-22
778796	JWO	KUNWAR RAJ SINGH	WPN FIT	01-JUL-22

778806	JWO	KARUNA KUMAR REDDIPALLI	WPN FIT	01-JUL-22
778809	JWO	RAKESH SHARMA	WPN FIT	01-JUL-22
778815	JWO	NARENDRA KUMAR VEJENDLA	WPN FIT	01-JUL-22
778818	JWO	LAXMI KANT PATHAK	WPN FIT	01-JUL-22
778820	JWO	HARDEEP SINGH NEGI	WPN FIT	01-JUL-22
778822	JWO	SHYAM SUNDER	WPN FIT	01-JUL-22
778825	JWO	SANJAY KUMAR SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778827	JWO	WANGKHEM PRASANTA SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778828	JWO	SUNIL KUMAR	WPN FIT	01-JUL-22
778833	JWO	DUKHARAN SAH	WPN FIT	01-JUL-22
778837	JWO	RAJEEV KUMAR RANJAN	WPN FIT	01-JUL-22
778841	JWO	SERAM NINGTHEM SINGH	WPN FIT	01-JUL-22
778369	JWO	YOGENDRA SINGH	WPN FIT	01-AUG-22
778373	JWO	VIJAY KUMAR	WPN FIT	01-AUG-22
778832	JWO	SUMAN KUMAR	WPN FIT	01-AUG-22
778322	JWO	ROHIT KUMAR RAI	WPN FIT	01-OCT-22
778338	JWO	ASHOK KUMAR	WPN FIT	01-NOV-22
734069	JWO	BHUPESH KUMAR	WS FIT(B)	01-AUG-22
785916	JWO	SATENDRA SINGH	WS FIT(B)	01-SEP-22
785273	JWO	SYED THAHIR HUSSAIN	WS FIT(C)	01-JUL-22
785666	JWO	SAURABH KUMAR	WS FIT(C)	01-AUG-22
785687	JWO	AMRENDRA KUMAR	WS FIT(C)	01-AUG-22
786230	JWO	KUMAR CHANDAN	WS FIT(C)	01-DEC-22
785424	JWO	VIVEK KUMAR PATHAK	WS FIT(M)	01-APR-22
697711	JWO	P LAXMA REDDY	WS FIT(M)	01-JUN-22
732942	JWO	LAKHAN LAL	WS FIT(M)	01-JUN-22
734124	JWO	BALJEET KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-JUN-22
734035	JWO	RANJEET SUTAR	WS FIT(M)	01-JUL-22
734131	JWO	MUKESH KUMAR SINHA	WS FIT(M)	01-JUL-22
734480	JWO	RAJA RAM SINGH	WS FIT(M)	01-JUL-22
734488	JWO	MUKESH KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-JUL-22
734609	JWO	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT	WS FIT(M)	01-JUL-22
734964	JWO	BECHU SAH	WS FIT(M)	01-JUL-22
734968	JWO	MRITUNJAY KUMAR MISHRA	WS FIT(M)	01-JUL-22
785556	JWO	RADHE SHYAM PRASAD	WS FIT(M)	01-JUL-22
785573	JWO	KUMAR RAJU	WS FIT(M)	01-JUL-22
785574	JWO	SURENDRA MAHATO	WS FIT(M)	01-JUL-22
786297	JWO	AVINASH KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-JUL-22

786300	JWO	RAM BABU VERMA	WS FIT(M)	01-JUL-22
732469	JWO	PRARTHENDRA LAL DAS	WS FIT(M)	01-AUG-22
733731	JWO	RAVINDRA KUMAR SINGH	WS FIT(M)	01-AUG-22
786298	JWO	RAJESH ROUSHAN KUMAR	WS FIT(M)	01-AUG-22

Total 2093 (Two Thousand Ninety Three) names only.

WASANTA J. BOBADE  
Under Secretary

NAVY BRANCH  
DGN-JAN 21 COURSE

NO. 134, Dated 19 Aug 2023—THE PRESIDENT IS PLEASED TO MAKE THE FOLLOWING APPOINTMENT AS SUB LT IN THE VARIOUS BRANCH OF THE INDIAN NAVY UNDER SHORT SERVICE COMMISSION VIDE MINISTRY OF DEFENCE LETTER NO. MF/1506/DES/VOL-II/03 DATED 07 Oct 2021:—

EXECUTIVE BRANCH (ATC)		
Name of officer	Personal Number	Date of Commission
Vishal Singh	10328-Y	28/06/21
Mehak Biala	10329-Z	28/06/21
Simranpreet Kaur	10330-A	28/06/21
EXECUTIVE BRANCH (OBSERVER)		
Khushbu Chaudhary	10331-B	28/06/21
Dhawal Nagar	10332-F	28/06/21
Rajat Nitin Kadam	10333-H	28/06/21
Rama A	10334-K	28/06/21
Tanvi Guru	10335-N	28/06/21
Khyati Mohan	10336-R	28/06/21
EXECUTIVE BRANCH (PILOT-MR)		
Tushar Malik	10337-T	28/06/21
Anmol Agnihotri	10338-W	28/06/21
Sakshi Ragini	10339-Y	28/06/21
EXECUTIVE BRANCH (PILOT-OTHER THAN MR)		
Nirmal Kumar	10340-Z	28/06/21
Pankaj Solanki	10341-A	28/06/21
Ayush Dwivedi	10342-B	28/06/21
M Aditya	10343-F	28/06/21
Manavdeep Singh	10344-H	28/06/21
Lohith Arvind Giri	10345-K	28/06/21
EDUCATION BRANCH		
Juhi	70818-Z	28/06/21
Nandini Thakur	70819-A	28/06/21
Nikita Sandeep Gore	70820-B	28/06/21

Prafull Balkrishna Mohite	70821-F	28/06/21
Kabinder Singh	70822-H	28/06/21
Manish Kumar Mishra	70823-K	28/06/21
Kalpana Rana	70824-N	28/06/21
Sharanya G Marathe	70825-R	28/06/21
Manvi Shekhawat	70826-T	28/06/21
Parul Singh	70827-W	28/06/21
Praseetha P	70828-Y	28/06/21
Simran Thakur	70829-Z	28/06/21
Swati Kumari	70830-A	28/06/21
Nivithaa Jane A	70831-B	28/06/21
<b>EXECUTIVE BRANCH (LOGISTIC CADRE)</b>		
Nainika Rautela	10346-N	28/06/21
Maahin Garuqui	10347-R	28/06/21
Saurabh Singh	10348-T	28/06/21
Harshit Ghotia	10349-W	28/06/21
Rajarshi Paul	10350-Y	28/06/21
Anu Mohan R	10351-Z	28/06/21
Divya Joan Dcouto	10352-A	28/06/21
Sharmila URS SR	10353-B	28/06/21
Deepanjali	10354-F	28/06/21
Aavriti Bhatt	10355-H	28/06/21
Avanthika Duraiswamy	10356-K	28/06/21
<b>EXECUTIVE BRANCH (NAIC CADRE)</b>		
Guddeti Sushanth	10357-N	28/06/21
Abhishek Sen	10358-R	28/06/21
Sriponmalar P	10359-T	28/06/21
Neelam Rana	10360-W	28/06/21
<b>TECHNICAL BRANCH (GENERAL SERVICE) ELECTRICAL</b>		
Kevin Soloman Arava	53501-T	28/06/21
Mohit Verma	53502-W	28/06/21
Udhitionsu Ujjwal	53503-Y	28/06/21
Anurag Malwar	53504-Z	28/06/21
Sai Swaroop K P	53505-A	28/06/21
Bhuvan H C	53506-B	28/06/21
Ritwik Ram	53507-F	28/06/21
Sai Prasad Koyya	53508-H	28/06/21

TECHNICAL BRANCH (GENERAL SERVICE) ENGINEERING		
Varun Swamy	44365-B	28/06/21
Harshvardhan Singh Rathore	44366-F	28/06/21
Jayesh Dinesh Suthar	44367-H	28/06/21
Niraj Kumar	44368-K	28/06/21
Ayush Raj	44369-N	28/06/21
Akash Deep Mukhia	44370-R	28/06/21
Ravi Kumar	44371-T	28/06/21
Vikrant Pathania	44372-W	28/06/21
Praagya Shringi	44373-Y	28/06/21
Devansh Rolyana	44374-Z	28/06/21
Hari Sankar S	44375-A	28/06/21
Suryakant	44376-B	28/06/21
Aniket Kudaravalli	44377-F	28/06/21
Sumit Sanjay Chougale	44378-H	28/06/21
Mohammed Yasir Riaz	44379-K	28/06/21
Kush Pranao	44380-N	28/06/21
Kaushik Ramachandran	44381-R	28/06/21
Arun R	44382-T	28/06/21
Ravi L	44383-W	28/06/21
Azeem Jaheerahmad Bellary	44384-Y	28/06/21
Kancherla Arun Teja	44385-Z	28/06/21
Aman Akash Tyagi	44386-A	28/06/21
Veera Venkata Sai Avinash Ponnada	44387-B	28/06/21
Athul Krishna S	44388-F	28/06/21
Chandra Mohan Sharma	44389-H	28/06/21
Suyash Pal Singh	44390-K	01/07/21
EXECUTIVE BRANCH (IT)		
Tushar Jibhau Shelar	10361-Y	28/06/21
Abhinandan Shukla	10362-Z	28/06/21
Vinay Pandharinath Shinde	10363-A	28/06/21
Vishaal Sharma	10364-B	28/06/21
Ajay Kumar K S	10365-F	28/06/21
EXECUTIVE BRANCH (GS )		
Shivam Yuvraj Ahire	10366-H	12/07/21
Mihir Mohan Deshpande	10367-K	12/07/21
Dongche Bapu	10368-N	12/07/21
Karan Dnyaneshwar Thakare	10369-R	12/07/21

P Rishabh Kumar	10370-T	12/07/21
Ashwin Chandrsekhar Sagar	10371-W	12/07/21
Nitish Kumar Tiwari	10372-Y	12/07/21
Abhishek Sharma	10373-Z	12/07/21
Sumit Patwa	10374-A	12/07/21
Ravneet Singh	10375-B	12/07/21
Hitarth Nilesh Dani	10376-F	12/07/21
Shaurya Pratap Singh Raikwar	10377-H	12/07/21
Kartikeya Kaushik	10378-K	12/07/21
Ramavath Sunil Nayak	10379-N	12/07/21
Parth Singh	10380-R	12/07/21
Suman Dalai	10381-T	12/07/21
Sanjeev Yadav	10382-W	12/07/21
Aniket Mohan Pawar	10383-Y	12/07/21
Archit Yadav	10384-Z	12/07/21
Pratik Anup Ojha	10385-A	12/07/21
Gurudath P Mallya	10386-B	12/07/21
Aneesh Suresh	10387-F	12/07/21
Akshay S	10388-H	12/07/21
Aditya Kataria	10389-K	12/07/21
Asher Shamikh	10390-N	12/07/21
Gagandeep Singh Sood	10391-R	12/07/21
EXECUTIVE BRANCH (HYDRO)		
Sanpreet Singh	10392-T	12/07/21

KAMAL KUMAR  
Deputy Director  
DD (MPR) OI

NAVY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 135, dated 19 August 2023—

1. Reference is made to The Gazette of India published with Registered No DL-(N)-04/0007/2003 -22 dated April 09, 2022 (Chaitra 19, 2022) under Part I-Section 4.

2. The following amendment may be carried out at page no 637 as follows:-

SLT UNDER EXECUTIVE BRANCH (GENERAL SERVICE) SSC

FOR : KIRTHINIRANJAN G (08425-Y)

READ : KEERTHINIRANJAN G (08425-Y)

KAMAL KUMAR  
Deputy Director  
DD (MPR) OI

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 136, dated 19.08.2023—President is pleased to appoint IC-42310 Maj Gen VS Ranade as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 August 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42387 Lt Gen SS Mahal, VSM as Colonel of the Regt of 60 Armd Regt with effect from 15 July 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47662 Maj Gen Vikram Kumar as Colonel of the Regt of 64 CAV with effect from 01 August 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47064 Maj Gen Manoj Natrajan, SC as Colonel of the BIHAR Regt with effect from 01 September 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41465 Lt Gen Ajay Singh, AVSM as Colonel of the 71 Armd Regt with effect from 08 August 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48510 Brig Sandeep Singh as Colonel of 66 Armd Regt with effect from 31 August 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48182 Brig PS Dahiya as Colonel of 48 Armd Regt with effect from 25 August 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44736 Maj Gen Sanjay Maini as Colonel of 90 Armd Regt with effect from 08 September 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41025 Lt Gen TSA Narayanan as Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 01 October 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44919 Maj Gen AV Ramesh as Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 01 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43216 Maj Gen BP Singh as Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 01 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41599 Lt Gen RKS Kushwaha as ex-officio Colonel Comdt of Corps of AOC with effect from 01 October 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42753 Lt Gen C Bansi Ponnappa, AVSM, VSM as Colonel of the Mahar Regt with effect from 01 November 2020 (F/N).

President is pleased to appoint MR-04889 Maj Gen Prashant Bharadwaj, VSM\*\* as Colonel Comdt of the Corps of AMC with effect from 22 October 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42294 Maj Gen S Jha as Colonel Comdt of 15 Armd Regt with effect from 04 November 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44477 Maj Gen Vijay Singh, VSM as Colonel of the Regt of 17 HORSE with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47002 Maj Gen JS Mangat, VSM as Colonel of the Regt of 62 Cav with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint DR-10339 Lt Gen NK Sahoo, VSM as ex-officio Colonel Comdt of AD Corps with effect from 12 October 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47002 Maj Gen JS Mangat, VSM as Colonel of the Regt of 69 Armd Regt with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42777 Maj Gen Ravi R Patil, VSM as Colonel Comdt of the Regt of Arty with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42838 Maj Gen PR Murali as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41521 Lt Gen Harsha Gupta, AVSM, YSM, VSM as ex-officio Colonel Comdt of CMP, SL (RO)/Gen Service and JAG with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-40703 Lt Gen Harpal Singh, PVSM, AVSM, VSM as ex-officio Colonel Comdt of the Corps of Engrs with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41488 Lt Gen Rajiv Choudhary, VSM as ex-officio Colonel Comdt of BRO with effect from 01 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42475 Lt Gen Savneet Singh, YSM, SM, VSM as Colonel of the Regt of Garhwal Rifles & Garhwal Scouts with effect from 01 February 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44065 Maj Gen Manjinder Singh, YSM, VSM as Colonel of the Madras Regt with effect from 01 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-46214 Brig Mayank Awasthi as Colonel of the 65 Armd Regt with effect from 01 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43667 Lt Gen KS Brar as Colonel of 53 Armd Regt with effect from 25 December 2020 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42389 Lt Gen BS Raju, AVSM, YSM as Colonel of the JAT Regt with effect from 01 February 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43252 Maj Gen KH Gawas as Colonel Comdt of Corps of Signals with effect from 04 January 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42794 Lt Gen MV Suchindra Kumar, YSM\*\*, VSM as Colonel of the Assam Regt and Arunachal Scouts with effect from 01 March 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-54781 Brig Sumit Rana as Colonel of the Regt of 7 Cav with effect from 26 February 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42542 Lt Gen MK Mago, YSM, SM\*\* as Colonel of the Brigade of the Guards with effect from 01 April 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44098 Maj Gen Sandeep Mahajan, VSM as Colonel Comdt of ASC with effect from 01 April 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48094 Maj Gen KV Jauhar, VSM as Colonel of 68 Armd Regt with effect from 01 April 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44475 Brig Akashdeep Bhanot as Colonel of 89 Armd Regt with effect from 01 April 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-51929 Brig Navneet Narain as Colonel of the Regt of 20 LANCERS with effect from 01 April 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-52376 Brig Rohit Mehrotra as Colonel of 72 Armd Regt with effect from 23 March 2021 (F/N).

President is pleased to appoint MR-04920 Lt Gen Sunil Kant, SM, VSM as Colonel Comdt of Corps of AMC with effect from 30 March 2021 (F/N).

President is pleased to appoint MR-04918 Lt Gen Sandip Mukherji as Colonel Comdt of Corps of AMC with effect from 30 March 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43658 Maj Gen Hari Singh, VSM as Colonel Comdt of Bengal Sappers and Mil Svy with effect from 11 May 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42538 Lt Gen Atulya Solankey, AVSM, SM as Colonel of the Regt of 11 GR and Sikkim Scouts with effect from 01 June 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43858 Maj Gen Manjit Kumar as Colonel Comdt of Corps of Signals with effect from 01 June 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42771 Maj Gen Sanjay Singh, AVSM, SM\*\*, VSM as Colonel of the Parachute Regt with effect from 01 July 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41934 Maj Gen SP Goswami, VSM as ex-officio Col Comdt of AAD with effect from 01 July 2021 (F/N).



President is pleased to appoint IC-43166 Maj Gen SK Khanna as ex-officio Col Comdt of MES with effect from 02 July 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42958 Lt Gen Hari Mohan Iyer S, AVSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 July 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42782 Maj Gen Deepak Obhrai, VSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 August 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43333 Maj Gen K Narayanan, AVSM, SM as Colonel of the MARATHA LI Regt with effect from 01 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42387 Lt Gen SS Mahal, VSM as the Colonel of the Regt of 3 Cavalry with effect from 12 September 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43746 Lt Gen Adosh Kumar, AVSM, SM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 October 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-53502 Brig MS Dhillon as Colonel of the Regt of 46 Armd Regt with effect from 14 September 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47004 Lt Gen PS Shekhawat, SM as Colonel of the Mech Inf Regt with effect from 01 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-51927 Brig Birender Singh Bisht as Colonel of the Regt of 13 Armd Regt with effect from 01 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-51202 Brig Bhanu Khanna as Colonel of the Regt of 88 Armd Regt with effect from 06 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint of IC-48346 Brig Sandeep Jhunja as Colonel of the Regt of 70 Armd Regt with effect from 06 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint MR-04896 Lt Gen Daljit Singh, VSM as ex-officio Col Comdt of AMC with effect from 26 November 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49421 Maj Gen Mohit Wadhwa as Colonel of the Regt of 5 Armd Regt with effect from 03 December 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, AVSM, VSM as Colonel of the Regt of 15 Armd Regt with effect from 05 December 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43796 Lt Gen Samir Gupta, VSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 30 December 2021 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43725 Lt Gen Manoj Kumar Katiyar, AVSM as Colonel of the Rajput Regt with effect from 01 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41858 Lt Gen CP Cariappa, AVSM, SM, VSM as Colonel of the Rajputana Rifles with effect from 01 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43370 Lt Gen JP Mathew, AVSM, VSM as Colonel of the Punjab Regt with effect from 09 January 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47213 Maj Gen Ashok Kumar as ex-officio Colonel Comdt of MES with effect from 12 January 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44044 Lt Gen Dhiraj Seth as Colonel of the Regt of 77 Armd Regt with effect from 17 January 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-52727 Brig Mohammed Arif Shaik as Colonel of the Regt of 67 Armd Regt with effect from 01 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-53712 Brig Karan Khajuria as Colonel of the Regt of 75 Armd Regt with effect from 01 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42298 Lt Gen Upendra Dwivedi, AVSM as Colonel of the JAK Rif & Ladakh Scouts with effect from 01 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43262 Lt Gen A Arun, YSM, SM, VSM as Colonel of the GRENADIERS with effect from 01 March 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41881 Lt Gen Rakesh Kapoor, VSM as Colonel Comdt of AOC with effect from 27 January 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47076 Lt Gen Rakesh Kapoor, VSM as Colonel of 43 Armd Regt with effect from 06 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, AVSM, VSM as Colonel of the Regt of 16 CAV with effect from 08 February 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43297 Maj Gen JS Sidana as Colonel Comdt of Corps of EME with effect from 01 March 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44056 Maj Gen RS Yadav as Colonel Comdt of Corps of EME with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48955 Maj Gen Vikram Varma, VSM as Colonel of the Regt of 18 Cav with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44095 Maj Gen AK Kashid, AVSM, VSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48046 Maj Gen Rajesh Pushkar, VSM as Colonel of the Regt of 74 Armd Regt with effect from 19 March 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44044 Lt Gen Dhiraj Seth, AVSM as Colonel of the Regt of 59 Armd Regt with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48955 Maj Gen Vikram Varma, VSM as Colonel of the Regt of 50 Armd Regt with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint MR-05138 Maj Gen Arindam Chatterjee, VSM as Colonel Comdt of AMC with effect from 12 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43245 Lt Gen NS Raja Subramani, AVSM, SM, VSM as Colonel of the Garhwal Rifles and Garhwal Scouts with effect from 23 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43285 Lt Gen Devendra Pratap Pandey, UYSM, AVSM, VSM as Colonel of the SIKH LI Regt with effect from 01 May 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42753 Lt Gen C Bansi Ponnappa, AVSM, VSM as ex-officio Colonel Comdt of CMP, JAG and SL (RO)/Gen Service with effect from 01 April 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-38750 Gen MM Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM(Retd) as Honorary Col of the SIKH LI Regt for life time with effect from 15 May 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-40716 Gen Manoj Pande, PVSM, AVSM, VSM, ADC as Honorary Colonel of the SIKH LI Regt with effect from 11 May 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-40716 Gen Manoj Pande, PVSM, AVSM, VSM, ADC as Colonel of 61 Cavalry, Honorary Col of Brigade of the Guards and Honorary Col of Rashtriya Rifles with effect from 01 May 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42887 Maj Gen PK Chahal as ex-officio Colonel Comdt of Int Corps with effect from 01 June 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47003 Lt Gen Devendra Sharma, AVSM, SM as Col of the Regt of 84 Armd Regt with effect from 01 June 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-40716 Gen Manoj Pande, PVSM, AVSM, VSM, ADC as Colonel-in-Chief of the National Cadet Corps with effect from 01 May 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43704 Maj Gen SQ Ahmed as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 July 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43655 Maj Gen K Vinod Kumar as Colonel Comdt of Corps of Signals with effect from 01 July 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47223 Lt Gen Sanjeev Chauhan, AVSM, YSM as Colonel of the Regt of 1 GR with effect from 01 August 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42781 Lt Gen UV Talur, VSM as Colonel Comdt of Corps of AAD with effect from 01 August 2022 (F/N).

President is pleased to appoint DR-10421 Lt Gen Satish R Iyer as ex-officio Colonel Comdt of AD Corps with effect from 01 June 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47011 Maj Gen Vinayak Saini, SM as Colonel Comdt of Bengal Sappers and Mil Svy with effect from 16 August 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49349 Maj Gen Vineet Gaur as Col Comdt of Corps of EME with effect from 01 October 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47566 Lt Gen VMB Krishnan, AVSM, YSM as Colonel of the Dogra Regt and Dogra Scouts with effect from 01 November 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47139 Lt Gen Pushpendra Pal Singh, SM\*\* as Colonel of the Parachute Regt with effect from 01 November 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42336 Lt Gen AK Singh, AVSM, YSM, SM, VSM as Col of the Regt of 11 GR and Sikkim Scouts with effect from 01 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-51040 Brig Balbir Singh, YSM, VSM as Colonel of the Regt of 4 GR with effect from 01 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-42796 Lt Gen KC Panchanathan, AVSM as Colonel Comdt of 'The Madras Sappers' with effect from 01 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-54876 Brig Koshal Panwar as Col of the Regt of 89 Armd Regt with effect from 01 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-43684 Lt Gen JB Chaudhari, SM, VSM as Colonel Comdt of 'Brigade of Guards' with effect from 01 January 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44132 Lt Gen Suresh Chandra Tandri, VSM as ex-officio Colonel Comdt of AOC with effect from 27 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint MR-05377 Maj Gen Sabid Syed Vattaparambil as Colonel Comdt of AMC with effect from 27 December 2022 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48050 Lt Gen Vipul Shinghal, SM as Colonel Comdt of 15 Armd Regt with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-50699 Brig TJK Ohri as Colonel of the Regt of 9 HORSE with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47003 Lt Gen Devendra Sharma, AVSM, SM as Colonel of the Regt of 4 HORSE with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48427 Lt Gen Arvind Walia as ex-officio Colonel Comdt of Corps of Engrs with effect from 27 January 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44044 Lt Gen Dhiraj Seth, AVSM as Colonel of the Regt of 16<sup>th</sup> Light Cav with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47003 Lt Gen Devendra Sharma, AVSM, SM as Colonel of the Regt of 70 Armd Regt with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47003 Lt Gen Devendra Sharma, AVSM, SM as Colonel of the Regt of 54 Armd Regt with effect from 01 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49426 Maj Gen Ashish Shah as Colonel of the Regt of 73 Armd Regt with effect from 17 March 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-51031 Brig Vikram Sharma as Colonel of the Regt of 5 GR with effect from 01 April 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47023 Lt Gen Navneet Singh Sarna, SM, VSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 April 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48073 Lt Gen Rahul R Singh, VSM as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-48050 Lt Gen Vipul Shinghal, SM as Col of the Regt of 55 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49033 Maj Gen Pawanpal Singh, VSM as Colonel of the Regt of 81 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-52724 Brig Anuj Kalia, VSM as Colonel of the Regt of 56 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47076 Lt Gen Rakesh Kapoor, VSM as Colonel of the Regt of 86 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-44044 Lt Gen Dhiraj Seth, AVSM as Colonel of the Regt of 58 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47261 Lt Gen Amar Deep Singh Aujla, UYSM, YSM, SM, VSM as Colonel of the Regt of Rajputana Rifles Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-53496 Brig DS Kadyan as Colonel of the Regt of 45 Cavalry with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-52495 Brig Kunwar Ashwani Vasishtha as Colonel of the Regt of 71 Armd Regt with effect from 01 May 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49870 Maj Gen CS Mann, VSM as Colonel of the Regt of 85 Armd Regt with effect from 01 June 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-49510 Maj Gen Hitesh Bhalla, SC\*\*, SM, VSM as Colonel of the MARATHA LI Regt with effect from 01 June 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47144 Maj Gen Sumit Talwar as Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 June 2023 (F/N).

President is pleased to appoint IC-47576 Maj Gen Mukesh Chadha, SM, VSM as Colonel Comdt of ASC with effect from 01 June 2023(F/N).

President is pleased to appoint IC-57393 Brig Rakesh Pachora, SM, VSM as Colonel of the Regt of 65 Armd Regt with effect from 30 May 2023 (F/N).

VINAY KUMAR  
Dy Dir/MS (X)

---

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 137, dated 19.08.2023—President is pleased to permit IC-40031 Lt Gen Sanjeev Kanal, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Regt of Arty with effect from 31 July 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-42853 Brig Gautam Oberoi to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 64 CAV with effect from 31 July 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-42516 Maj Gen OP Gulia, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the BIHAR Regt with effect from 31 August 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-44736 Maj Gen Sanjay Maini to relinquish the appointment of Colonel of 66 Armd Regt with effect from 30 August 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-40293 Lt Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the 48 Armd Regt with effect from 24 August 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-44713 Brig ADS Dhillon, SM to relinquish the appointment of Colonel of 90 Armd Regt with effect from 31 July 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-40299 Lt Gen Sanjay Verma, AVSM, VSM\*\*to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 30 September 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-39872 Lt Gen Anil Kapoor, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 31 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-41501 Maj Gen Ranjit Ghosh to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Corps of EME with effect from 31 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-41196 Maj Gen Sudhakar Jee, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Mahar Regt with effect from 31 October 2020(A/N).

President is pleased to permit MR-04726 Lt Gen R Datta, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Corps of AMC with effect from 01 July 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-39450 Maj Gen Amrit Pal Singh (Retd)to relinquish the appointment of Colonel Comdt of 15 Armd Regt with effect from 30 November 2018(A/N).

President is pleased to permit IC-43275 Brig MS Tomar to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 17 HORSE with effect from 30 November 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-41529 Maj Gen Neeraj Kapur to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 62 Cav with effect from 30 November 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-41908 Maj Gen Sudhir Bahl to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 69 Armd Regt with effect from 30 November 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-40904 Maj Gen KS Nijjar to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Regt of Arty with effect from 30 November 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-39868 Lt Gen Sunil Srivastava, VSM\*\*to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Regt of Arty with effect from 31 December 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-39871 Lt Gen SK Upadhyaya, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of Garhwal Rifles & Garhwal Scouts with effect from 31 January 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-39130 Lt Gen Rajeev Chopra, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Madras Regt with effect from 31 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-39874 Lt Gen Taranjit Singh, AVSM, VSM\*\*to relinquish the appointment of Colonel of the 65 Armd Regt with effect from 31 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-41908 Maj Gen Sudhir Bahl to relinquish the appointment of Colonel of 53 Armd Regt with effect from 30 Nov 2020 (A/N).

President is pleased to permit IC-39436 Lt Gen SK Saini, PVSM, AVSM, YSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the JAT Regt with effect from 31 January 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-39996 Lt Gen Rajeev Sabherwal, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of Signals with effect from 31 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-42293 Maj Gen Pradeep Singh Behl to relinquish the appointment of Colonel of the ASSAM Regt and Arunachal Scouts with effect from 28 February 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-43730 Brig Vikrant Nayar (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 7 Cav with effect from 31 January 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-39607 Lt Gen IS Ghuman, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Brigade of the Guards with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42327 Maj Gen Arvind Katoch to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Army Service Corps with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40293 Lt Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of 68 Armd Regt with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40293 Lt Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of 89 Armd Regt with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40293 Lt Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regiment of 20 LANCERS with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42324 Maj Gen DK Nautiyal to relinquish the appointment of Colonel of 72 Armd Regt with effect from 28 February 2021(A/N).

President is pleased to permit MR-04889 Maj Gen Prashant Bharadwaj, VSM\*\* to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of AMC with effect from 24 December 2020 (A/N).

President is pleased to permit MR-04428 Lt Gen Anup Banerji, PVSM, SM, PHS to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of AMC with effect from 31 December 2020 (A/N).

President is pleased to permit IC-40703 Lt Gen Harpal Singh, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Bengal Sappers and Mil Svy with effect from 01 December 2020(A/N).

President is pleased to permit IC-39492 Lt Gen Anil Chauhan, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 11 GR and Sikkim Scouts with effect from 31 May 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-41456 Lt Gen RK Anand, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of Sigs with effect from 31 May 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40353 Lt Gen Paramjit Singh Sangha, UYSM, AVSM, SM to relinquish the appointment of Colonel of the Parachute Regt with effect from 30 June 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-39501 Lt Gen AP Singh, AVSM to relinquish the appointment of ex-officio Colonel Comdt of AAD with effect from 30 June 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-41530 Maj Gen Mandip Singh, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 30 June 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40948 Lt Gen KR Prasad, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Regt of Arty with effect from 31 July 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40360 Lt Gen AB Mistry, PVSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the MARATHA LI Regt with effect from 31 October 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-40293 LT Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 3 Cavalry with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42310 Maj Gen VS Ranade to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 30 September 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-41071 Maj Gen Beji Mathews to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 46 Armd Regt with effect from 28 February 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40302 Lt Gen RP Singh, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Mech Inf Regt with effect from 31 October 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-42294 Maj Gen Shailjanand Jha, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 13 Armd Regt with effect from 31 October 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-46033 Brig Satish Kumar to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 88 Armd Regt with effect from 31 October 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42294 Maj Gen S Jha, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 70 Armd Regt with effect from 30 October 2021(A/N).

President is pleased to permit MR-04576 Lt Gen AK Hooda to relinquish the appointment of ex-officio Colonel Comdt of AMC with effect from 02 April 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42171 Maj Gen Sameer Kalla, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 5 Armd Regt with effect from 30 November 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42294 Maj Gen S Jha, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 15 Armd Regt with effect from 31 October 2021 (A/N).

President is pleased to permit IC-42777 Maj Gen Ravi R Patil, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 30 September 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40314 Lt Gen CP Mohanty, PVSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Rajput Regt with effect from 31 January 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41509 Lt Gen KJS Dhillon, UYSM, YSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Rajputana Rifles with effect from 31 January 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-41885 Maj Gen U Suresh Kumar, YSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Punjab Regt with effect from 09 January 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-43166 Maj Gen SK Khanna to relinquish the appointment of ex-officio Colonel Comdt of MES with effect from 30 November 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40753 Lt Gen MJS Kahlon, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 67 Armd Regt with effect from 31 January 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-40753 Lt Gen MJS Kahlon, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 75 Armd Regt with effect from 31 January 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-40500 Lt Gen YK Joshi, PVSM, UYSM, AVSM, VrC, SM to relinquish the appointment of Colonel of the JAK Rif & Ladakh Scouts with effect from 31 January 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41072 Lt Gen Rajeev Sirohi, PVSM, UYSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the GRENADIERS with effect from 28 February 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41568 Lt Gen Rajesh Rana, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of AOC with effect from 01 December 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-40753 Lt Gen MJS Kahlon, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 43 Armd Regt with effect from 31 January 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-47617 Brig Manish Tripathi to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 16 CAV with effect from 31 January 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-44919 Maj Gen AV Ramesh, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of EME with effect from 28 February 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-41025 Lt Gen TSA Narayanan, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of EME with effect from 31 March 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-42275 Maj Gen Sandeep Singh, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 18 Cav with effect from 31 March 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-40685 Lt Gen Raj Shukla, PVSM, YSM, SM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 31 March 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-40293 Lt Gen AS Kler, PVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 74 Armd Regt with effect from 31 March 2021(A/N).

President is pleased to permit IC-42275 Maj Gen Sandeep Singh, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 59 Armd Regt with effect from 31 March 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-42275 Maj Gen Sandeep Singh, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 50 Armd Regt with effect from 31 March 2022(A/N).

President is pleased to permit MR-04920 Lt Gen Sunil Kant, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of AMC with effect from 31 March 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-42475 Lt Gen Savneet Singh, PVSM, YSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Garhwal Rifles and Garhwal Scouts with effect from 30 April 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-38750 Gen MM Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the SIKH LI Regt with effect from 30 April 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-40801 Lt Gen RK Bansiwai, AVSM to relinquish the appointment of ex-officio Colonel Comdt of Int Corps with effect from 31 May 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-50273 Brig Sandeep Singh Rawat to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 84 Armd Regt with effect from 03 May 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41121 Lt Gen RK Sharma, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 01 July 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-40534 Lt Gen MN Bhurke, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of Signals with effect from 30 June 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-44626 Brig NK Goel to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 1 GR with effect from 31 July 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41166 Lt Gen Satinder Singh, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the Corps of AAD with effect from 31 July 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-43658 Maj Gen Hari Singh, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Bengal Sappers and Mil Svy with effect from 31 July 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-43216 Maj Gen BP Singh, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Corps of EME with effect from 30 September 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41067 Lt Gen JS Nain, PVSM, AVSM, SM to relinquish the appointment of Colonel of the Dogra Regt and Dogra Scouts with effect from 31 October 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-42771 Maj Gen Sanjay Singh, AVSM, SM\*\*, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Parachute Regt with effect from 31 October 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-42538 Lt Gen Atulya Solankey, AVSM, SM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 11 GR and Sikkim Scouts with effect from 30 November 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-42364 Maj Gen JS Nehra to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 4 GR with effect from 30 November 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-41131 Lt Gen PP Malhotra, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the 'The Madras Sappers' with effect from 30 November 2022(A/N).

President is pleased to permit IC-44475 Brig Akashdeep Bhanot to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 89 Armd Regt with effect from 30 November 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-42542 Lt Gen MK Mago, AVSM, YSM, SM\*\* to relinquish the appointment of Colonel Comdt of 'Brigade of Guards' with effect from 31 December 2022(A/N).

President is pleased to permit MR-04918 Lt Gen Sandip Mukherji to relinquish the appointment of Colonel Comdt of AMC with effect from 31 October 2022 (A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of the 15 Armd Regt with effect from 28 February 2023 (A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 9 HORSE with effect from 28 February 2023 (A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 4 HORSE with effect from 28 February 2023 (A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 16<sup>th</sup> Light Cavalry with effect from 28 February 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 70 Armd Regt with effect from 28 February 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41083 Lt Gen AS Bhinder, PVSM, AVSM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 54 Armd Regt with effect from 28 February 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-44587 Maj Gen Amit Loomba to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 73 Armd Regt with effect from 28 February 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-43295 Lt Gen Ravin Khosla, UYSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 5 GR with effect from 31 March 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-42782 Maj Gen Deepak Obhrai, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 31 March 2023(A/N).



President is pleased to permit IC-41912 Lt Gen TK Chawla, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 55 Armd Regt with effect from 01 May 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 81 Armd Regt with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 56 Armd Regt with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 86 Armd Regt with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 58 Armd Regt with effect from 30 April 2023 (A/N).

President is pleased to permit IC-41858 Lt Gen Codanda Poovaiah Cariappa, PVSM, AVSM, SM, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of Rajputana Rifles Regt with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 45 Cavalry with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41465 Lt Gen Ajai Singh, PVSM, AVSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 71 Armd Regt with effect from 30 April 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-44055 Maj Gen VM Chandran, VSM to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 85 Armd Regt with effect from 31 May 2023 (A/N).

President is pleased to permit IC-43333 Maj Gen K Narayanan, AVSM\*\*, SM to relinquish the appointment of Colonel of the MARATHA LI Regt with effect from 31 May 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-42838 Maj Gen PR Murali, VSM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of Regt of Arty with effect from 31 May 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-41595 Lt Gen MKS Yadav, AVSM, SM to relinquish the appointment of Colonel Comdt of ASC with effect from 31 May 2023(A/N).

President is pleased to permit IC-46214 Brig Mayank Awasthi to relinquish the appointment of Colonel of the Regt of 65 Armd Regt with effect from 31 July 2022 (A/N).

VINAY KUMAR

Dy Dir/MS (X)